

**JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL GAZETTE**

[illegible]

CONTENTS		English Pages	Vernacu- lar pages
PART I-A	Appointments, promotions, transfers and leave of absence sanctioned by the Governor, Government and the Ministers ....	112-138	
PART I-B	Notifications, Communiques and General Orders by the Government and the Ministers ....	163-164	
PART II-A	Appointments, promotions, transfers and leave of absence sanctioned by Heads of Departments....	3-4	
PART II-B	Notifications, Notices and Orders by Heads of Departments, Provincial Heads, Magistrates and other officers competent to issue public notices under any law or rule ....	183-218	
PART II-C	Notifications, Notices and Orders by Election Commission of India, Chief Electoral Officer, Jammu and Kashmir and other Officers of the Department, Election Petitions and Judgements of Election Tribunal ....		
PART III-	Laws, Regulations and Rules passed thereunder ....		
PART IV	Reprints from the Government of India Gazette or Gazettes of others Governments....		
PART V	Information and Statistics ....		
	(a) Rates and prices in the State....		
	(b) Rates and wages ....		
	(c) Crop Report and Forecasts....		
	(d) Whether Observations ....		
	(e) Vital Statistics ....		
SUPPLEMENT-A	Trade Monthly Imports and Exports from the State ....		
SUPPLEMENT-B	Police ....		
SUPPLEMENT-C	Advertisements ....		37-44

## PART I-A

### Jammu & Kashmir Government–Orders

ooooooooô

HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH AT  
JAMMU

(Exercising powers of Bar Council under Section 58 of the Advocates  
Act, 1961)

Notification

Notification No. 293 of 2024/RG/LP

Dated 05-03-2024.

Subject :ô Transfer of Advocate License.

ô ô ô ô

In pursuance of Bar Council of India Resolution No. 1-A/2023  
(Transfer) dated 22nd January, 2023, **Ms. Pooja Dubey**, Advcate  
D/o Ram Prakash Dubey R/o House No. 404, Lane No. 4, Laxmi Vihar  
Tamal, Anand Nagar, Bohri, Jammu, upon transfer of her enrolment from  
Bar Council of Delhi is brought on the roll of Jammu and Kashmir Bar  
Council.

By order.

(Sd.) .....

Addl. Registrar (Adm.).

ô ô ô ô ô

HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH AT  
JAMMU

(Exercising powers of Bar Council under Section 58 of the Advocates  
Act, 1961)

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 14 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Gh. Nabi S/o Shri Gh. Mohd R/o  
Tararanwali, Tehsil Surankote, District Poonch, bearing Certificate of  
Enrollement No. JK/407/1987 dated 02-09-1987, who had voluntarily

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 113  
suspended his practice as an Advocate, is permitted to resume his practice  
as an Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

By order.

ô ô ô ô ô

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 15 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Hamidullah Bhat S/o Shri Habibullah  
Bhat R/o Seri Pora, Rafiabab, District Baramulla bearing Certificate of  
Enrollment No. U.P 1203/85 dated 25-03-1985, endorsed vide High Court  
order dated 03-08-1994 and Notification No. 37 dated 14-09-1994, who  
had voluntarily suspended his practice as an Advocate, is permitted to resume  
his practice as an Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

By order.

ô ô ô ô ô

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 16 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Mushtaq Ahmad Sheikh S/o Shri Ab.  
Rashid Sheikh R/o Village Palmar, Tehsil and District Kishtwar bearing  
Certificate of Enrollment No. JK/36/1987 dated 27-01-1987, who had  
voluntarily suspended his practice as an Advocate, is permitted to resume  
his practice as an Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

By order.

ô ô ô ô ô

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 17 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Mohd Ayub Dar S/o Shri Atta  
Mohd Dar R/o Ompora Budgam, bearing Certificate of Enrollment  
No. JK/482/1987 dated 24-11-1987, who had voluntarily suspended his

114 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
ô ô ô ô ô  
practice as an Advocate, is permitted to resume his practice as an  
Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

By order.

ô ô ô ô ô

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 18 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Mohammad Yousuf Tantray S/o  
Sh. Habib Ullah Tantray R/o Paddergund, Tehsil Handwara, District  
Kupwara, bearing Certificate of Enrollment No. 212 dated 01-05-1995,  
who had voluntarily suspended his practice as an Advocate, is permitted to  
resume his practice as an Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir  
Bar Council.

By order.

ô ô ô ô ô

Subject :ô Resumption of practice as an Advocate.

ô ô ô ô

Notification No. 20 of 2024/RG/LP

Dated 14-02-2024.

It is hereby notified that Shri Mushtaq Ahmad Mir S/o Shri Mohd  
Ramzan Mir R/o Mohalla Shaksaz, Kadipora, District Anantnag bearing  
Certificate of Enrollment No. 347/92 dated 20-10-1992, who had voluntarily  
suspended his practice as an Advocate, is permitted to resume his practice  
as an Advocate on the Roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

By order.

(Sd.) .....

Assistant Registrar (L.P),  
Main Wing, Jammu.

ô ô ô ô ô

HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH AT  
 JAMMU  
 (Exercising powers of Bar Council under Section 58 of the Advocates  
 Act, 1961)

Notification No. 11 of 2024/RG/LP

Subject : Transfer of Advocate License.

In pursuance of Bar Council of India Resolution No. 1-B/2023 (Transfer) dated 18th February, 2023, **Sh. Manish Mahajan**, Advocate S/o Kamal Kishore Mahajan R/o Ward No. 14, Opposite-CTM, Rishi Nagar, Hatli Morh Kathua (Jammu and Kashmir)-184101, upon transfer of his enrolment from Bar Council Punjab and Haryana is brought on the roll of Jammu and Kashmir Bar Council.

(Sd.) .....

(Assistant Registrar)

HIGH COURT OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH AT  
SRINAGAR

(Exercising powers of Bar Council under Section 58 of the Advocates Act, 1961)

(Provisional Enrollment)

No. 1941 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Nazia Allahi D/o Mohd Ashraf R/o Dalwah, Tehsil Gool District Ramban has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the

116 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
concerned University and verification of her character and antecedents  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-787-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô ô

Notification

No. 1942 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Nikat Singh Rana S/o Bharat Singh Rana R/o House No. 53, Ward  
No. 14, Near Girls Hr. Dec. School, Tehsil and District Doda has been  
admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and  
Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the  
date of issuance of this notification, subject to the verification of his  
Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University  
and verification of his character and antecedents from CID. His name  
has been entered under Serial No. JK-788-2023 in the Roll of  
Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1943 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Naresh Kumar S/o Bansi Lal Bhagat R/o Village Lalyal P/o Kana  
Chack Tehsil Marh District Jammu has been admitted and enrolled as  
an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council  
provisionally for a period of one year from the date of issuance of this  
notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree  
Certificate from the concerned University and verification of his

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 117  
 00000000 000 0  
 character and antecedents from CID. His name has been entered under  
 Serial No. JK-789-2023 in the Roll of Advocates maintained by this  
 Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1944 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Sibgat Saleem S/o Mohd Saleem Magray R/o Ashar, Banihal Tehsil Banihal District Ramban has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his character and antecedents from CID. His name has been entered under Serial No. JK-893-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1945 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Nirmal Singh S/o Parmod Singh Jamwal R/o Rahya (Near Shiv Mandir) Tehsil Vijaypur District Samba has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his

[illegible]

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1946 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Naman Padha S/o Keshav Padha R/o Main Chowk Bagh-i-Bahu, Tehsil and District Jammu has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his character and antecedents from CID. His name has been entered under Serial No. JK-791-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1947 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Nayeem Ul Hassan S/o Ghulam Hassan Lone R/o Wanigam Payeen, Tehsil Pattan, District Baramulla has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of



No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 119  
 ට්ට්ට්ට්ට්ට් ට් ට්  
 his character and antecedents from CID. His name has been entered  
 under Serial No. JK-792-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
 this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1948 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Nandita Khajuria D/o Ashwani Kumar R/o V.P.O.Satura, Tehsil Hiranagar, District Kathua has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of her character and antecedents from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-793-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1949 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Owais Ahmad Lone S/o Abdul Rashid Lone R/o Mujgund, Rehmat-U-Llah Colony Tehsil Shaltang District Srinagar has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of

120 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
his character and antecedents from CID. His name has been entered  
under Serial No. JK-801-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1950 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Najma Abid Noorjahan D/o Abdul Hamid Padder R/o Sadiwara,  
Khahgund, Verinag, Near Masjid, Tehsil Dooru, District Anantnag has  
been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and  
Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the  
date of issuance of this notification, subject to the verification of her  
Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University  
and verification of her character and antecedents from CID. Her name  
has been entered under Serial No. JK-795-2023 in the Roll of  
Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1951 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Nimra Ashfaq D/o Ashfaq Ahmed Bhat R/o Firdous Abad  
Batamaloo, Tehsil and District Srinagar has been admitted and enrolled  
as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council  
provisionally for a period of one year from the date of issuance of this  
notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree  
Certificate from the concerned University and verification of her

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 121  
 00000000 000 0  
 character and antecedents from CID. Her name has been entered under  
 Serial No. JK-794-2023 in the Roll of Advocates maintained by this  
 Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1952 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Nahida Farooq D/o Farooq Ahmad Mandoo R/o Zirpara, Tehsil Bijbehara, District Anantnag has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of her character and antecedents from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-796-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1953 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Nadia Noor D/o Noor Mohammad R/o Almook Colony, Tehsil Uri, District Baramulla has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of her character and antecedents

122 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-797-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1954 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Tahleel Ahmed Bhat S/o Mohd Ayub Bhat R/o Rajbahg, Near  
Modern Hospital, Tehsil Srinagar South, District Srinagar has been  
admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and  
Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the  
date of issuance of this notification, subject to the verification of his  
Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University  
and verification of his character and antecedents from CID. His name  
has been entered under Serial No. JK-914-2023 in the Roll of  
Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1955 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Naina Khatri D/o Parveen Parkash Khatri R/o 19-A, 2nd  
Extension, Gandhi Nagar, Tehsil and District Jammu has been admitted  
and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar  
Council provisionally for a period of one year from the date of issuance  
of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B.  
Degree Certificate from the concerned University and verification of

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 123  
 රුරුරුරුරු රු ර  
 her character and antecedents from CID. Her name has been entered  
 under Serial No. JK-798-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
 this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1956 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Nahida Mohi Ud Din D/o Gh. Mohi Ud Din Malik R/o Khumeriyal Lolab, Tehsil and District Kupwara has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of her character and antecedents from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-799-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1957 of 2023/RG/LP    Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Parvaiz Mehraj S/o Mehraj U Din Sofi R/o Wuyan, Tehsil Pampore, District Pulwama has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his character

124 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
and antecedents from CID. His name has been entered under Serial  
No. JK-803-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1958 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Prinkya Gupta D/o Sh. Sudesh Gupta R/o Ward No. 10, H. No.  
27, Bishnah, Jammu has been admitted and enrolled as an Advocate on  
the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period  
of one year from the date of issuance of this notification, subject to the  
verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the  
concerned University and verification of her character and antecedents  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-804-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1959 of 2023/RG/LP Dated 11-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Pawan Kumar Sanwal S/o Sh. Pritam Singh R/o Gunni (House  
No. 12, Ward No. 2), Tehsil and District Rajouri has been admitted and  
enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar  
Council provisionally for a period of one year from the date of issuance  
of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B.  
Degree Certificate from the concerned University and verification of

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Mai., 1946. 125  
 ඊටින් පිළිගැනීම සඳහා අත්සන් කර ඇති බව පෙනේ.  
 his character and antecedents from CID. His name has been entered  
 under Serial No. JK-805-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
 this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1960 of 2023/RG/LP    Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Palvi Rani D/o Sh. Chain Singh R/o Pathi, Tehsil Panchari, District Udhampur has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of her character and antecedents from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-806-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

$$\hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O} \quad \hat{O}$$

## Notification

No. 1961 of 2023/RG/LP    Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Pranshul Bhardwaj S/o Sh. Pawan Bhardwaj R/o W. No. 6, Tehsil Vijaypur, District Samba has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his character and antecedents

126 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
from CID. His name has been entered under Serial No. JK-807-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1962 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Pawan Dev Singh S/o Vijay Singh R/o P/o Charat, Ward No.  
6, Tehsil Chenani, District Udhampur has been admitted and enrolled  
as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council  
provisionally for a period of one year from the date of issuance of this  
notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree  
Certificate from the concerned University and verification of his  
character and antecedents from CID. His name has been entered under  
Serial No. JK-808-2023 in the Roll of Advocates maintained by this  
Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1963 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Prabsimran Kour Nayyar D/o Madan Mohan Singh R/o Ward  
No. 7, Tehsil Nowshera, District Rajouri has been admitted and enrolled  
as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council  
provisionally for a period of one year from the date of issuance of this  
notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree



No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 127  
Certificate from the concerned University and verification of her  
character and antecedents from CID. Her name has been entered under  
Serial No. JK-809-2023 in the Roll of Advocates maintained by this  
Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1964 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Palk Sambyal D/o Raj Singh R/o Ward No. 15, Mandi Thalora,  
Tehsil and District Samba has been admitted and enrolled as an  
Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally  
for a period of one year from the date of issuance of this notification,  
subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate  
from the concerned University and verification of her character  
and antecedents from CID. Her name has been entered under Serial  
No. JK-810-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1965 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Pawan Lal Gupta S/o Tara Chand Gupta R/o H. No. 138, Street  
Ghass Mandi, Near Talab Khatikan Tehsil and District Jammu has been  
admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr. Pardeep Kumar S/o Krishan Chand R/o Ward No. 10, Nagri

No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 129  
Parole, Tehsil Nagri Parole, District Kathua has been admitted and  
enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar  
Council provisionally for a period of one year from the date of issuance  
of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B.  
Degree Certificate from the concerned University and verification of  
his character and antecedents from CID. His name has been entered  
under Serial No. JK-815-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1968 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Pooja Devi D/o Jankar Singh R/o Village Barota Camp Tehsil  
Ramgarh District Samba has been admitted and enrolled as an Advocate  
on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a  
period of one year from the date of issuance of this notification, subject  
to the verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the  
concerned University and verification of her character and antecedents  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-816-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1969 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Palvi Sharma D/o Sanjeev Kumar R/o Siot, Tehsil Siot, District

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Qirat Suharwardy D/o Khalid Najib Suharwardy R/o Soharwardy

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Ms. Rukaya Nissar D/o Sh. Nissar Ahmad Malik R/o Hardu Madam,

132 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
Tangmarg, District Baramulla has been admitted and enrolled as  
an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council  
provisionally for a period of one year from the date of issuance of this  
notification, subject to the verification of her Provisional/LL.B. Degree  
Certificate from the concerned University and verification of her  
character and antecedents from CID. Her name has been entered under  
Serial No. JK-821-2023 in the Roll of Advocates maintained by this  
Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1975 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Raqeeb-ul-Hassan S/o Gh. Hassan Shah R/o Khandiphari Harnag,  
Mohalla Allaiepora, Tehsil and District Anantnag has been admitted and  
enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar  
Council provisionally for a period of one year from the date of issuance  
of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B.  
Degree Certificate from the concerned University and verification of  
his character and antecedents from CID. His name has been entered  
under Serial No. JK-822-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1976 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Rasikh Rasool Bhat S/o Sh. Ghulam Rasool Bhat R/o Ahgam

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023 Mr.Rahul Sharma S/o Sham Lal R/o Rehal Dhamalian, Tehsil Bishnah,

134 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
District Jammu has been admitted and enrolled as an Advocate on the  
Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of  
one year from the date of issuance of this notification, subject to the  
verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the  
concerned University and verification of his character and antecedents  
from CID. His name has been entered under Serial No. JK-825-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1979 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Ranbir Kour D/o Paramjeet Singh R/o H. No. 1137/56 Gangyal  
Near Shivam Resort, Babliana Road, Tehsil Gadigarh, South Jammu,  
District Jammu has been admitted and enrolled as an Advocate on the  
Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of  
one year from the date of issuance of this notification, subject to the  
verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the  
concerned University and verification of her character and antecedents  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-826-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1980 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Ms. Ranjana Devi D/o Mast Ram R/o Village Thana, Tehsil Basohli,



No. 7] The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. 135  
District Kathua has been admitted and enrolled as an Advocate on the  
Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of  
one year from the date of issuance of this notification, subject to the  
verification of her Provisional/LL.B. Degree Certificate from the  
concerned University and verification of her character and antecedents  
from CID. Her name has been entered under Serial No. JK-827-2023  
in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1981 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Sheikh Anwar ul Hak S/o Sheikh Gh. Mohammad R/o Mughal  
Masjid Hawal Tehsil Khanyar, District Srinagar has been admitted and  
enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar  
Council provisionally for a period of one year from the date of issuance  
of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B.  
Degree Certificate from the concerned University and verification of  
his character and antecedents from CID. His name has been entered  
under Serial No. JK-849-2023 in the Roll of Advocates maintained by  
this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1982 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Rajbir Singh Thakur S/o Romal Singh Thakur R/o Tehsil

136 The J&K Official Gazette, the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
Ramnagar, District Jammu has been admitted and enrolled as an  
Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally  
for a period of one year from the date of issuance of this notification,  
subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate  
from the concerned University and verification of his character  
and antecedents from CID. His name has been entered under Serial  
No. JK-828-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1983 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Rajat Kumar S/o Ashwani Kumar R/o Garah P/o Satura, Tehsil  
Hiranagar, District Kathua has been admitted and enrolled as an  
Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally  
for a period of one year from the date of issuance of this notification,  
subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate  
from the concerned University and verification of his character  
and antecedents from CID. His name has been entered under Serial  
No. JK-829-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be  
sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as  
an Advocate is ordered therebefore.

By order.

ô ô ô ô

Notification

No. 1984 of 2023/RG/LP Dated 12-09-2023.

It is hereby notified that vide High Court Order dated 31-08-2023  
Mr. Rajesh Kumar S/o Chuni Lal R/o Village Kamore Camp, Tehsil



Tehsil Lar, District Ganderbal has been admitted and enrolled as an Advocate on the Rolls of Jammu and Kashmir Bar Council provisionally for a period of one year from the date of issuance of this notification, subject to the verification of his Provisional/LL.B. Degree Certificate from the concerned University and verification of his character and antecedents from CID. His name has been entered under Serial No. JK-832-2023 in the Roll of Advocates maintained by this Registry.

The renewal/extension of provisional licence/enrollment must be sought before the date of expiry unless the absolute/final enrollment as an Advocate is ordered therebefore.

By order.

(Sd.) .....

Registrar (Administration).



THE

**JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL GAZETTE**

Vol. 137] Jammu, Thu., the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a  
separate compilation

**PART I—B**

**Jammu and Kashmir Government—Notifications.**

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR

CIVIL SECRETARIAT& GENERAL ADMINISTRATION  
DEPARTMENT, J&K.

Subject : & General Elections to Lok Sabha, 2024-DECLARATION OF  
PAID HOLIDAY-regarding.

Reference :& No. 78/EPS/2024 dated 16th March, 2024, from Election  
Commission of India.

& & & &

164 The J&K Official Gazette, 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
Government Order No. 914-JK (GAD) of 2024

Dated : 01-04-2024.

In terms of Section 135-B of the Representation of the People Act, 1951, it is hereby ordered that :

- i. Paid holiday(s) shall be observed in the following Parliamentary Constituencies on the date(s) indicated against each, on account of General Elections to the Lok Sabha, 2024 :

S. No.	Name of Parliamentary Constituency	Date	Day
1.	Udhampur	19th April	Friday
2.	Jammu	26th April	Friday
3.	Anantnag-Rajouri	7th May	Tuesday
4.	Srinagar	13th May	Monday
5.	Baramulla	20th May	Monday

- ii. The poll days indicated above shall be observed as Paid Holiday to every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and is entitled to vote.
- iii. Daily wage/casual workers shall also be entitled for the Holiday and wages on the poll day.
- iv. A person who is ordinarily resident of a constituency and registered as an elector, serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the constituency including casual workers shall also be entitled to the benefit of a Paid Holiday on the day of poll.

It is further ordered that the above paid holiday(s) shall also be observed in terms of explanation to Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

By order of the Government of Jammu and Kashmir.

(Sd/-) SANJEEV VERMA, IAS,  
Commissioner/Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

# THE JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL GAZETTE

Vol. 137] Jammu, Thu., the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7  
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a  
separate compilation.

## PART II—A

### Orders by Heads of Departments.

#### CHARGE REPORTS

Subject :ô Handing over/taking over of the charge of the post of Principal  
Secretary to Government, Home Department.

ô ô ô ô

In pursuance of the Government Order No. 768-JK(GAD) of 2024  
dated 04-03-2024 issued by the General Administration Department under  
endorsement No. GAD-SERV0IAS/15/2024-02 dated 04-03-2024, we the  
undersigned handover/takeover the charge of the post of Principal Secretary  
to Government, Home Department, today the 5th March, 2024 (FN).

(Sd/-) SANTOSH D. VAIDYA, IAS,

Principal Secretary to Government.

Relieved Officer.

(Sd/-) CHANDRAKER BHARTI, IAS,

Principal Secretary to Government.

Relieving Officer.

ô ô ô ô

In pursuance of Government Order No. 582-JK(GAD) of 2024 dated 12-02-2024, we the undersigned handover/takeover the charge of the post of Administrative Secretary, Home Department today the 12th of February, 2024 (F.N.).

Financial Commissioner/ACS.

Relieved Officer.

(Sd/-) SANTOSH D. VAIDYA, IAS,

Principal Secretary to Government,

Relieving Officer.





# THE JAMMU AND KASHMIR OFFICIAL GAZETTE

Vol. 137] Jammu, Thu., the 16th May, 2024/26th Vai., 1946. [No. 7

---

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a  
separate compilation.

---

## PART II—B

**Notifications, Notices and Orders by the Heads of Departments.**

ô ô ô ô

OFFICE OF THE ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER,  
AWANTIPORA.

(COLLECTOR LAND ACQUISITION AWANTIPORA)

### Award

1. Case No.ôADC/AWP/LA/WSS Baghwanpora/2020/01
2. Name of the VillageôShal Tokina, Tehsil Awantipora
3. Nature of AcquisitionôPermanent
4. Purpose of Acquisition with quantum of land 15 Marlas required for Construction of Service Reservoir for WSS Baghwanpora.

### INTRODUCTION :

The proceedings are as per the provisions of Section 23 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act 2013 for determination of

compensation in respect of land measuring 15 Marlas under Survey No. 469 min recorded as Proprietary land required for the construction of Service Reservoir for WSS Bhagwanpora at Village Shala Tokina, Tehsil Awantipora, the acquisition proceedings were initiated on the basis of request made by the requiring body viz. Chief Engineer Kashmir PHE (Jal Shakti) Department Srinagar Kashmir.

**NOTIFICATION OF SOCIAL IMPACT ASSESSMENT AND REPORT OF SIA :**

The process for conduct of Social Impact Assessment report under the provisions of Section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 was initiated as per this office No. ADC/AWP/LA/20-21/138-47 Dated 23-10-2020 in concurrence with the District Collector office order No. DCP/LA/2020/610-30 Dated 25-8-2020 whereby following members already nominated were assigned the task conduct of the field survey for the proposed project.

1. Tehsildar Awantipora
2. Assistant Executive Engineer R&B, Pulwama.
3. Assistant Executive Engineer (Jal Shakti) PHE, Pulwama.
4. Assistant Executive Engineer Irrigation and Flood Control, Pulwama.
5. Range Officer Forests, Awantipora
6. Agriculture Extension Officer, Tahab.
7. Representative of Indenting Department.

The report so prepared by the committee members for the instant and acquisition case was submitted to the Appropriate Government/ District Collector vide this office No. ADC/AWP/LA/20-21/508-10 Dated 29-3-2021 for accord of approval/authorization for issuance of notification under Section 11 of the said Act.

**EVALUATION OF SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT :**

On the basis of the recommendations and the observations submitted by the committee constituted, it was established that the land for which the indent stands placed is required for legitimate and *bona fide* public purpose which necessitates the acquisition of land identified. Direction to the Collector for proceeding ahead under the provisions

of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was communicated by the District Collector vide his office No. DCP/LA/2021/537-538 Dated 28-9-2021.

**PUBLICATION OF NOTIFICATION AND ISSUE OF NOTICES :**

The preliminary notification under Section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide this office Notification No. 8 of 2021 Dated 30-03-2022 under endorsement No. ADC/AWP/LA/21-22/831-39 Dated 30-03-2022 for calling upon the objections, if any, from the interested persons/landowners. The same was got published in the official gazette on 28th April 2022 Volume 135 and in two daily news papers viz. Srinagar News on 1st April 2022 and Rising Kashmir on 2nd April 2022 and wide publicity was also made. In response to the said notification, during the stipulated period of time no objection was received by this Collectorate and accordingly the case was submitted under Section 15 of the Act vide this office No. ADC/AWP/LA/23-24/159-63 Dated 16-8-2023 with recommendations to the District Collector Pulwama for a decision and issuance of declaration under Section 19 of the Act.

The case was examined by the ÷appropriate Governmentø District Collector who after thoughtful consideration and being satisfied that the land under acquisition is in the interest of the public purpose. The ÷appropriate Governmentø District Collector has issued declaration under Section 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 vide Notification No. 03 of Rev/LA of 2023 Dated 16-9-2023 under endorsement No. DCP/LA/2023/358-62 Dated 16-9-2023, that land measuring 15 Marlas under Survey No. 469 min recorded as Proprietary Land is required for public purpose for the construction of Service Reservoir for WSS Bhagwanpora at Village Shala Tokina, Tehsil Awantipora.

Public notice under Section 21(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 to the interested persons/land owners to state the particulars of the land so needed, and to state the nature of their respective interests in the land and the amount and particulars of their claims to compensation for such interests, their claims to rehabilitation and resettlement along

with their objections, if any, to the measurement made and to appear personally or by agent or advocate within a period of 30 days. During the prescribed period of time no such objection was received by this Collectorate.

### **METHODOLOGY USED FOR DETERMINATION OF COMPENSATION :**

On the basis of alignment given by the PHE (Jal Shakti) department revenue extracts, including Khasra Paimaish were submitted by the Tehsildar Awantipora. The type of land for khasra number 469 is recorded as Maidani. The land rates per kanal as applicable to the type of land stands notified by the Chairman District Valuation Committee vide his office Notification Number 12/DCP-SQ of 2021 Dated 31-12-2021 under endorsement No. DCP-SQ/20-21/1689-1703 Dated 31-12-2021 under the Market value Guideline Rules of 2011 for the corresponding year 2022 is as under,ô

(Amount in Lac Per Kanal)

Village Shala Tokna	Residential	Commercial	Irrigated Agri- cultural	Irrigated Horti- cultural	Un- Irrigated Agri- cultural	Un- Irrigated Horti- cultural
	4.50	4.80	3.55	4.05	3.55	4.05

There is no residential/commercial structure on the proposed site.

### **POSSESSION OF LAND :**

The possession of the land was handed over by the land owner to the Executive Engineer PHE, Jal Shakti Division, Pulwama prior to initiating the land acquisition proceedings. Therefore the department has already started the developmental activities.

### **OWNERSHIP :**

Names of the persons whose land is under acquisition, was ascertained from the revenue records and the same has been included in Award statement.

### **MUTATION OF OCCUPANCY IN RESPECT OF THE SAID LAND BEING ACQUIRED :**

Consequent upon taking over possession of the said land and the payment of the compensation to the concerned interested persons, the Tehsildar concerned shall ensure that the revenue records and all the relevant documents relating to the ownership/occupancy of the said land are accordingly updated and show the transfer of the said land solely in the name of Government.

**APPORTIONMENT :**

Compensation amount will be paid accordingly to the latest entries in the revenue record and as per enquiry conducted under Section 23. In case of any dispute, which I can not settle withing reasonable time, the amount of compensation will be remitted to the Court under Section 64 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for the determination of ownership rights.

**ENCUMBRANCES :**

The land under acquisition is free from all encumbrances and has been mentioned in the Award statement.

**DETERMINATION OF SOLATIUM :**

As per the provisions of Section 30(1) of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, 100% of the market value is awarded as solatium has been determined in the award statement.

**COMPENSATION OF LAND AND ADMINISTRATIVE CHARGES :**

After considering the parameters provided in Section 26 across 29 of the Act, the compensation of the land stands determined. The total amount of award works out to be Rs. 10,65,000/- (Rupees Ten Lac and Sixty Five Thousand Only) and the administrative charges @ Rs. 2.5% to the tune of Rs.26,625/- (Rupees Twenty Six Thousand Six Hundred and Twenty Five Only) as admissible under the provisions of Rule 5 of Sub-Section 1 of the Act.

**SUMMARY OF THE AWARD :**

The Award is summarized as under.

A	Total Quntum of land Acquired from the interested Persons	15 Marlas
B	Market value of the land @ Rs.3.55 Lac per Kanal (Stamp Duty Rate)	Rs.2,66,250/-
C	Factor by which the market value is to multiplied in the case of rural areas	2(Two)
D	Total value of land after multiplying by factor 2(Two)	Rs.5,32,500/-

E	Value of assets attached to the land in the form of trees	Nil
F	Total cost (D+E)	Rs.5,32,500/-
G	Solatum equivalent to 100% of the market value of land plus value of assets	Rs.5,32,500/-
H	Additional payable amount @12% on market value of the land	Executive Engineer PHE, Jal Shakti Division Pulwama in mutual consent with the land owner had already taken over the possession of land.
I	Administrative charges @Rs.2.5% as admissible under the provisions of Rule 5 of Sub-Section 1 of the Act.	Rs.26,625/-
	Total cost of the project (F+G+H+I)=	Rs.10,91,625/-

The details of compensation of the land acquisition as per the apportionment statement enclosed herewith as Annexure :-A

#### **APPROVAL OF THE DRAFT AWARD :**

The draft award so framed vide this office No. ADC/AWP/LA/23-24/352 Dated 04-12-2023 for an amount of Rs. 10,65,000/- (Rupees Ten Lac and Sixty Five Thousand Only) and the administrative charges @ Rs.2.5% to the tune of Rs.26,625/- (Rupees Twenty Six Thousand Six Hundred and Twenty Five Only) as admissible under the provisions of Rule 5 of Sub-Section 1 of the Act, involved in the instant land acquisition case was submitted before the District Collector Pulwama vide this office No. ADC/AWP/LA/23-24/353 Dated 04-12-2023 in terms of rule 32 and 34 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for accord of approval of the rates.

Accordingly, the instant land acquisition case was put before the Collector's meeting held on 19-12-2023 under the Chairmanship of

District Collector Pulwama. The minutes of the meeting were circulated vide District Collector Pulwama's office No. DCP/LA/2023/555-60 Dated 23-12-2023, where rates adopted and the action taken was approved with the direction that Collector Land Acquisition shall proceed further strictly in accordance with the rules in vogue.

**PAYMENT OF COMPENSATION TO THE INTERESTED PERSONS :**

The interested persons are informed that the payment of compensation shall be made through Bank accounts only for which the land owners who are deemed lawfully entitled shall receive the compensation amount on submission of the below mentioned documents in my office.

1. Original Revenue extracts of the claimant.
2. Non Encumbrance Certificate from Tehsildar.
3. Copy of Aadhaar Card.
4. 16 Digit Bank Account Number with IFSC Code.

**Announced on 04-01-2024.**

(Sd/-) ZAFFAR HUSSON SHAWL, (KAS),

Additional Deputy Commissioner,  
Collector Land Acquisition,  
Awantipora.

ô ô ô ô

**Annexure “A”**  
**Apportionment statement of the land measuring 15 Marlas required for the construction of S. R.**  
**WSS Bhagwanpora at Village Shala Tokna, Tehsil Awantipora**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S. No.	Khewat. No.	Khasra No.	Name of land owner as per Jamabandi	Name of Tenant as per Survey No. Jamabandi	Area with Type of Land as per Jamabandi	Name of present Occupant as per Khasra Paimaish	Area Taken up					
1.	109	756	Ahad and Ramzan sons of Kabir in equal one share, Ismail S/o Mohammad one share, Ama S/o Qudoos one share Dar Residents of Deh	Khud Kasht, Ahad half and Ama half share holders	469	K. M. S. 361660	Mst. Jana Dukhtar Khana Nisheen Ama Dar share holder, Mutation No. 1666	K. M. S. 061560				
<b>Total</b>										<b>0-15-0</b>		



**Annexure “A”**  
**Apportionment statement of the land measuring 15 Marlas required for the construction of S. R.**  
**WSS Bhagwanpora at Village Shala Tokna, Tehsil Awantipora**

14	15	16	17	18	19	20	21
<div> <div>Basic value of the land @ Rs.3.55 lacs per Kanal as per market value (Stamp duty rates)</div> <div>Compensation Value of the land after multiplying by factor 2 (Two)</div> <div>Compensation on account of Fruit bearing trees</div> <div>Solutium</div> <div>Interest @ 12% per annum</div> <div>Total Amount apportioned (15+16+17+18)</div> <div>Aadhaar No.</div> <div>Account No.</div> </div>							
266250	532500	0	532500	0	1065000		
<b>266250</b>	<b>532500</b>	<b>0</b>	<b>532500</b>	<b>0</b>	<b>1065000</b>		

Amount of Award = Rs. 10,65,000/-  
Administrative Charges @ 2.5% = 26,625/-  
Total=Rs. 10,91,625/-

(Sd/-) ZAFFAR HUSSON SHAWL, KAS,  
Collector Land Acquisition,  
Additional Deputy Commissioner,  
Awantipora.

S. No.	Name of Village	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under Acquisition	Name and Address of person interested	N	S	E	W	Boundaries
1.	Lachdayaram	864 min	Proprietary	Un-Irrigated	00064-1/2 K. M.	Kewal Krishan S/o Faqir Chand Shareholder	NA	NA	NA	NA	NA

	1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Lachdayaram	864 min	Proprietary	Un-Irrigated	0061-½	Shadi Lal S/o Sant Ram	NA	NA	NA
3.	Lachdayaram	864 min	Proprietary	Un-Irrigated	0067-½	Rajesh Kumar and others Ss/o Des Raj	NA	NA	NA
4.	Lachdayaram	863	Proprietary	Un-Irrigated	0063-½	Bansi Lal S/o Krishan Chand	NA	NA	NA
5.	Lachdayaram	844	Proprietary	Un-Irrigated	00606	Jai Krishan Shareholder	NA	NA	NA
6.	Lachdayaram	861	Proprietary	Un-Irrigated	00604	Shadi Lal S/o Sant Ram	NA	NA	NA
7.	Lachdayaram	853	Proprietary	Un-Irrigated	00610	Shadi Lal S/o Sant Ram	NA	NA	NA
8.	Lachdayaram	853	Proprietary	Un-Irrigated	00604	Rajesh Kumar and Others Ss/o Des Raj	NA	NA	NA

9.	Lachdayaram	859	Proprietary	Un-Irrigated	0061-1/4	Hukum Chand, Jia Lal and Others	NA	NA	NA	NA
10.	Lachdayaram	859	Proprietary	Un-Irrigated	0061/2	Prehlad Bhagat S/o Nihal Chand	NA	NA	NA	NA
11.	Lachdayaram	859	Proprietary	Un-Irrigated	00602	Tilak Raj and Rajinder Kumar	NA	NA	NA	NA
12.	Lachdayaram	859	Proprietary	Un-Irrigated	0063-1/2	Kewal Krishan S/o Faquir Chand	NA	NA	NA	NA
13.	Lachdayaram	852	Proprietary	Un-Irrigated	0062-3/4	Dewan Chand son 01 share, Mst. Bhati Devi Wd/o Amar Nath one share, Mehar Singh, Ranjit Singh, Umeet Singh sons equal 7 shares Rano Devi, Pami Devi daughters and Mst. Pushpa Devi Wd/o Tara Chand equal one share out of	NA	NA	NA	NA

[illegible]

19.	Lachdayaram	856	Proprietary	Un-Irrigated	00605	Jai Krishan S/o Lassu Ram	NA	NA	NA	NA
20.	Lachdayaram	1104	Proprietary	Un-Irrigated	00602	Shiv Kumar, Kishore Kumar, Daleep Kumar Ss/o Kunj Lal	NA	NA	NA	NA
21.	Lachdayaram	1105	Proprietary	Un-Irrigated	00601	Kewal Krishan S/o Faqir Chand	NA	NA	NA	NA
22.	Lachdayaram	1106	Proprietary	Un-Irrigated	0061¼	Jia Lal, Hukam Chand Ss/o Nihal	NA	NA	NA	NA
23.	Lachdayaram	1107	Proprietary	Un-Irrigated	00602	Bashir Ahmed	NA	NA	NA	NA
24.	Lachdayaram	1108	Proprietary	Un-Irrigated	006½	Rajesh Kumar and Others Ss/o Des Raj	NA	NA	NA	NA
25.	Lachdayaram	1109	Proprietary	Un-Irrigated	006¾	Kewal Krishan S/o Faqir Chand	NA	NA	NA	NA
26.	Lachdayaram	1110	Proprietary	Un-Irrigated	006¼	Jagdish Raj S/o Jodh Ram	NA	NA	NA	NA

[illegible]

Trees										Structure																			
Variety										Type										No.									
Number										Partial Residential/Cow sheds										Nil									
Mixed										Nil										Nil									
Grand Total										Nil										Nil									

(Sd/-) VARUNJEET CHARAK, (JKAS),  
Assistant Commissioner (Revenue),  
Collector Land Acquisition, Kishtwar.

ô ô ô ô



### NOTIFICATION

The name of my son Afaan Tariq Bhat born on April 14, 2008, at Srinagar's Lal Ded Hospital, has been wrongly entered as Mubashir Tariq in his Aadhaar Card. Now, that the necessary corrections are to be affected in the Aadhaar Card. i.e. recording the name as Afaan Tariq Bhat, as it figures in his Date of Birth certificate issued by the Srinagar Municipal Corporation (SMC).

Tariq Ahmad Bhat  
F/o Afaan Tariq Bhat  
R/o Patlipora Chattabal, Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

### NOTIFICATION

Name of my daughter has been wrongly entered in her Aadhaar Card as Maheena Subzar instead of Maheena Sabzar and DOB 28-12-2015 instead of 29-12-2015. Now, I need correction as Maheena Sabzar and 29-12-2015 in her Aadhaar Card bearing No. 3449 0590 1554.

Sabzar Ahmad Rather  
F/o Maheena Sabzar  
R/o Nipora, Anantnag.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

NOTIFICATION

In my Aadhaar Card bearing No. 7209 2642 7891 my name has been mentioned as Haseena whileas my correct name is Aabida. Now, I want to apply for the correction of my name in my Aadhaar Card.

Aabida W/o Mohammad Ashraf Dar  
R/o Wanabal Rawalpura  
Sanat Nagar, Srinagar.  
(17103)

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Ab. Waheed Khan F/o Masrat Waheed R/o Halmatpora Tehsil and District Kupwara, UT J&K India, want to change my daughter's

name as well as father's name in her school records and class 10th documents under CBSE regional office Chandigarh that my daughter has passed class 10th under Roll No. 13130116 Session 2021-22. As I want to set my daughters name as Masrat Waheed instead of Musrat Waheed and Father's name is to be set as Ab. Waheed Khan instead of Waheed Khan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

NOTIFICATION

In my Aadhaar Card Number 4969 6286 2164 my name has been mistakenly recorded as Saima Begum instead of Zahida Begum. It is now necessary to correct this.

Zahida Begum W/o Bilal Ahmed Hajam  
R/o Putokhah Muqam, Sopore.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Irshad Ahmad Kanna want to bring to the notice that the mother's name is wrongly mentioned as Rubeena Irshad Kanna in my son's Muhammad Assad Kanna's Date of Birth certificate. Now, we have changed the name to Rubeena Karim which is the correct one.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Sukandya Devi W/o Raj Kumar R/o H. No. 50, New Bahu Fort, JDA, Colony, Jammu state that my name has wrongly been written as Sandhya instead of correct name Sukandya Devi in my Aadhaar Card bearing No. 7236 9148 5563. Now, I am applying for the correction of the same.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô ô

### NOTIFICATION

It is informed to general public that I want to change my name from Anseeb Ahmad Lone to Anseeb Lone in my Aadhaar Card bearing No. 7113 9641 9731. Now, I am applying for its correction.

Anseeb Lone  
S/o Ghulam Rasool Lone  
R/o Sonwar, Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I Mohammad Ayyub Khan (Old Name) S/o Gh. Mohi Ud Din Khan Date of Birth 02-01-1987 Residing at Khanpora Khag Budgam hereby undertake that I want to change my name to Mohd Ayoub Khan (New Name) and Date of Birth to 19-02-1989 (Nineteen of February Nineteen Eighty Nine). I Mohammad Ayyub Khan hence forth he known as Mohd Ayoub Khan S/o Gh. Mohi Ud Din Khan and my correct Date of Birth is 19-02-1989 (Nineteen of February Nineteen Eighty Nine).

Mohammad Ayyub Khan  
(Old Name)  
Ph. No. 7006258393.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Amjad Baksh want to change the Name and Address of my son from Alyan Amjad Baksh R/o Basant Bagh, Gowkadal to Ateeb Amjad Baksh R/o Ellahibagh Centre Avenue House No. 75 in the Srinagar Municipal Corporation and School record.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

It is informed to general public that my daughter's name has been wrongly mentioned in her Aadhaar card as Iman Majid while as per Domicile Certificate the correct/actual name of my daughter is Aiman Majid. Now, I am applying for its correction.

Abdul Majid Mir  
F/o Aiman Majid  
R/o Syed Colony, Nishat, Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I want to correct my name/father's name/DOB in my Aadhaar Card bearing No. 9816 4337 2446 from Shahista Akhter D/o Mohammad Akram Reeshi and DOB 05-05-2001 to Asmat Akber D/o Mohammad Akber Reshi and DOB 04-06-2014. Now, the same I want to be corrected.

Asmat Akber  
D/o Mohammad Akber Reshi  
R/o Gund Ali Naik Khansahib, Badgam.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I want to change my name on my Aadhaar Card from Muhammad Sarwar Sheikh to Mohd Sarwar Sheikh S/o Lassu Sheikh R/o Sardab Tulail Gureez Bandipora. Now, I have applied for the correction of the same.

Mohd Sarwar Sheikh,  
S/o Lassu Sheikh  
R/o Sardab Tulail Gureez Bandipora.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I want to change my name in my Aadhaar Card bearing No. 2992 8741 5255 from Romana Jan to Nadiah Ramanah. Now, the same is to be corrected.

Nadiah Ramanah  
R/o Malik Sahib, Safa Kadal, S. R. Gunj,  
Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô



NOTIFICATION

I want to correct my name/father's name in my Aadhaar Card bearing No. 3731 2315 9295 from Mohammad Ashraf Gojar Bhat S/o Ghulam Qadir Gojar Bhat to Mohammad Ashraf Bhat S/o Ghulam Qadir Bhat. Now, the same is to be corrected.

Mohammad Ashraf Bhat  
S/o Ghulam Qadir Bhat  
R/o Nala Sundbrari Takia Magam, Anantnag.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

My name has wrongly been written as Sharleen Kour Bali instead of Samreen Kour Bali in School records studying in 10th Class Section-C, Now, I am applying for the correction of same.

Samreen Kour Bali  
D/o Satinder Paul Singh  
R/o H. No. 1485, Sector-13, Lane 63,  
Nanak Nagar, Jammu.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

#### NOTIFICATION

My name has been wrongly written as Shafiya Jan in my Aadhaar Card Bearing No. 5326 5914 7855 instead of my correct name Seerat Khan W/o Umer Farooq Khan R/o Shah Mohalla Sowar Kul Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

##### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

#### NOTIFICATION

I, Gogi Devi D/o Karam Chand R/o Ward No. 45, Digiana Pulli, Jammu want to get rectified my name in pension record as I am disable with 100% blindness. My name has been inadvertently mentioned as Ganga instead of correct name Gogi Devi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

##### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I, Sharifa D/o Abdul Wahab Mir R/o Akhal Rajpora Pulwama Jammu and Kashmir, state that my name has been mentioned inadvertently as Sharifa Banoo in my Demat AC No. IN302349-10337616 held with JKBFSL Pulwama Branch. Also My name as a nominee in my Husbands Demat AC No. IN302349-10337624 held with JKBFSL Pulwama Branch has been mentioned inadvertently as Sharifa Bano. My name mentioned in my PAN Card (AWGPB1702L) and Aadhaar Card (5397 9080 9124) is Sharifa and from now onwards I will be called as Sharifa. Now, I am applying for the correction of the same.

Sharifa  
D/o Abdul Wahab Mir  
R/o Akhal Rajpora, Pulwama.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I have changed my daughter's name from Mudaeen Mir to Sehrish Akhter Mir and Address from Firdous Abad Batamaloo, Srinagar to Al Farooq Colony Bemina, Srinagar, as I have already changed in her DOB Certificate. Now, I want to change in her Aadhaar Card.

Zahoor Ahmad Mir F/o Sehrish Akhter Mir  
R/o Al Farooq Colony Bemina, Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I want to correct my name in my Aadhaar Card bearing No. 9381 1828 1799, from Ubed Mazid to Obaid Ahmad Khan as per my matriculation certificate. Now, I am applying for its duplicate.

Obaid Ahmad Khan  
S/o Abdul Majeed Khan  
R/o Tekipora Lolab

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

It is to inform general public that in Aadhaar Card records my name is wrongly written as Rubeena Begum instead of Rubeena Rasool. Now, I want its correction.

Rubeena Rasool  
W/o Manzoor Mohamad Ahanger  
R/o Yall Kunzer Baramulla.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I have changed my name from (Old Name) Mohammad Bin Nisar to (New Name) Mohammad Nisar Malik and in future I will be known as (New Name) Mohammad Nisar Malik.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

In my Aadhaar Card bearing No. 9507 8345 6322 my name has been wrongly admitted as Saira Hamid while as my actual name is Saira Hamid Laway. Now, I am applying for its correction.

Saira Hamid Laway D/o Abdul Hamid Laway  
R/o Mahrajpora Sopore District Baramulla

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

It is to inform to general public that my present name Zubida Shuja D/o Shujazaffar R/o Ward 49 Channi Rama Jammu be read as Munshi Zubida Shuja D/o Shujazaffar R/o Ward No. 49, Channi Rama, Jammu as I am applying for inclusion of my surname in official documents.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I want the correction in the name of my son Mohammad Muqadas Khanday to Mohammad Moosa Khanday S/o Shakeel Ahmad Khanday reading in 5th class.

Shakeel Ahmad Khanday  
F/o Mohammad Moosa Khanday

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I have changed my name from Rifat Danish Malik to Rifat Rashid.  
In future I will be known as Rifat Rashid.

Rifat Rashid  
D/o Abdul Rashid Kirmani  
R/o Near Gurdwara Shaheed Bunga  
Baaghat, Barzulla, Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, service No. MS 20820N Rank Capt. Name Nisha Sheoran W/o Deepak Kumar Unit 326 Field Hospital C/o 56 APO have corrected/changed my daughter's name from Bhumika Jakhar (Old Name) to Bhumika (New Name) in my service record vide affidavit No. IN-JK92712226851505W before Notary Public Jammu City (Municipal Jammu) UT of J&K dated 25-04-2024.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I want to correct my name in my Aadhaar Card/PAN Card/ Election Card from Misrah Begum to Mehra Bano. Now the same I want to be corrected.

Mehra Bano  
W/o Abdul Rehman Kutay  
R/o Nundreshi Colony-BH No. 150, Sector-1,  
Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô



### NOTIFICATION

I am holding passport bearing No. S8415024 where my name is reflecting as Shabnam Latif Kaloo. I have changed my name from (Old Name) Shabnam Latif Kaloo to (New Name) Shabnam Latif. In future I will be known as (New Name) Shabnam Latif. I am applying for reissue of my passport from Passport office Srinagar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

### NOTIFICATION

I, Anu Radha Sharma D/o Ved Parkash Sharma R/o H. No. 690, Janipur Colony, Jammu-180007 state that my father's name has wrongly been written as Janak Raj instead of Ved Parkash Sharma in my PAN Card bearing No. GYYPS7105A. Now, I am applying for correction of the same.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

#### Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, No. 2804294K Rank Hav. Dilip Kumar Unit 19 Inf Bde C/o 56 APO declare that I have changed my son's name and D.O.B. from Nikhil to Nikhil Yadav and D.O.B. from 06-03-2012 to 06-03-2013 vide Certificate No. INJK46097698720617V Dated 22-07-2023 before, Sub Judge Special Mobile Magistrate, Jammu.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I want to correct my name/parentage in my Aadhaar Card from Fareed Ahamed Khan S/o Mohd Monwer Khan Pathan to Fareed Ahmad Khan S/o Mohd Monwer Khan as per my 10th class certificates.

Fareed Ahmad Khan  
S/o Mohd Munwar Khan

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Indu Purjit Kasid R/o Flat No. 104, Block : B, Kamdhenu Homz, Toph Sherkhania, Akhnoor Road, Jammu-181121. My name is wrongly mentioned as Indu Qasid in Physical Share Certificates. Now, I am applying for the correction of the same.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Purjit Pushkarnath Qasid R/o Flat No. 104, Block B, Kamdhenu Homz, Toph Sherkhania, Akhnoor Road, Jammu-181121. My name is wrongly mentioned as Purjit Qasid in Physical Share Certificates. Now, I am applying for the correction of the same.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I have changed my name from (Old Name) Nasir Bashir Dar to (New Name) Nasir Bashir. In future I will be known as (New Name) Nasir Bashir.

Nasir Bashir.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

ô ô ô ô

NOTIFICATION

I, Sunil Bhasin S/o Late Sh. Tara Chand Bhasin R/o H. No. 97, Panjtirthi, Jammu, J&K UT state that my wife's name has been wrongly written as Rajni Bhasin (instead of her correct name Rajni Kalra) in school record of our daughter namely Aishani Bhasin (Date of Birth 27-11-2010, studying in Class 9th in Presentation Convent School, Jammu). Now, I am applying for the correction of the same.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Notification

No Legal responsibility is accepted for the publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Official Gazette of UT of J&K. Persons notifying the Advertisements/Public Notices shall remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

By order.

General Manager,  
Ranbir Govt. Press, Jammu.

رجسٹرڈ نمبر جے کے۔33



सत्यमेव जयते

# جموں و کشمیر سرکاری گزٹ

جلد نمبر 137۔ جموں۔ مورخہ 16 مئی 2024ء بمطابق 26 بیساکھا 1946۔ ویوار۔ نمبر 7

## اشتہارات

از عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ سب جج بارہمولہ

سرکاریوٹی جموں و کشمیر بنام فیروز احمد ہارون

علت نمبر 91 سال 2022 تھانہ پولیس بارہمولہ

بجرائم زیر دفعات 420 IPC

وارنٹ گشتی۔

بخلاف ملزم نمبر 1۔ فیروز احمد ہارون ولد غلام محمد ہارون ساکنہ سمرگ لہجن

نوگام سری نگر۔

بنام اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر  
مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزم متذکرہ بالا عرصہ دراز سے  
دستیاب نہ ہو رہا ہے۔

لہذا آپکو بذریعہ وارنٹ ہذا حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ ملزم الصدر جہاں  
کہیں بھی اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر میں دستیاب ہو، کو گرفتار کر کے روبرو  
عدالت ہذا میں پیش کریں۔

وارنٹ ہذا تا دستیابی ملزم زیر کار رہے گا۔ اس نسبت تاکید جانو۔

تحریر 15-02-2024

دستخط: سب جج جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول بار، ہمولہ

از عدالت ایڈیشنل سپیشل موبائل مجسٹریٹ اودھم پور

سرکار یوٹی جموں و کشمیر بنام محمد طارق

پرچہ علت نمبر 123 سال 2015ء تھانہ پولیس رحیل

بجرایم زیر دفعات 379 RPC

وارنٹ گشتی عام بمشاء دفعہ 512 ض ف

بنام اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر

مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر میں آپکو حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ملزم  
محمد طارق ولد محمد اسلم ساکنہ بھاگتہ کٹڑہ ضلع ریاسی جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اندر حدود  
یوٹی جموں و کشمیر دستیاب ہو تو گرفتار کر کے عدالت ہذا میں پیش کریں۔ وارنٹ ہذا تا  
دستیابی ملزم زیر کار رہے گا۔ وارنٹ ہذا نسبت دستخط رافم و مہر عدالت سے آج  
مورخہ 17-02-2024 کو جاری کیا گیا۔

دستخط: ایڈیشنل سپیشل موبائل مجسٹریٹ اودھم پور

## از عدالت منصف جوڈیشل مجسٹریٹ کنگن

سرکار یوٹی۔ جموں و کشمیر بنام ظہور احمد نجار ولد غلام محمد نجار ساکنہ چک فتح پورہ  
گاندربل

سرکار عدلت نمبر 05 سال 2018 تھانہ پولیس گنڈ

بجرائم زیر دفعات 279,510 RPC

وارنٹ گشتی زیر دفعہ 512 Crpc

بنام : اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر

مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزم مندرجہ بالا کے خلاف جرائم زیر دفعات  
مندرجہ عنوان الصدر کے تحت چالان پیش کیا جا چکا ہے الا ملزم صدر مفرور ہے رپورٹ  
تعمیل کنندہ SHO متعلقہ سے پایا جاتا ہے کہ ملزم صدر روپوش ہو چکا ہے اور ان کی  
دستیابی ناممکن ہے۔

لہذا ملزم کے خلاف 512.Crpc بہ عمل لائی جا چکی ہے اور اہلکاران  
پولیس یوٹی جموں و کشمیر کو بذریعہ وارنٹ ہذا حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ جب کبھی  
اور جہاں کہیں ملزم اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر دستیاب ہو تو اُسے گرفتار کر کے  
عدالت ہذا میں بحراست ضابطہ پیش کریں۔ وارنٹ ہذا تا دستیابی ملزم زیر  
کار رہے گا۔

آج مورخہ 13-03-2024 بہ دستخط راقم و مہر عدالت کے جاری کیا جاتا ہے  
حکم سنایا گیا۔

دستخط: جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول کنگن

## از عدالت فست ایڈیشنل سیشن جج پینل جج زیر NDPS ایکٹ جموں

سرکار یوٹی جموں و کشمیر بنام پردیپ کمار وغیرہ  
مقدمہ علت نمبر 09 سال 2016 تھانہ پولیس باہو فورٹ  
بجرائم زیر دفعات 8,15,20, NDPS Act.

### وارنٹ گشتی عام

بخلاف ملزم نمبر 2 مونا کمار عرف مونا لنگڑا ولد مہی پال ساکنہ موضع گرتان  
تخصیل ساردول پور ضلع جورورا جستھان حال را جیونگر نروال جموں۔

حکم بنام: اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر

مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر ملزم بعد از پیشی مورخہ 03-06-2019 سے  
بدستور غیر حاضر عدالت ہو چکا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری شدہ خلاف ملزم عدم  
تعمیل واپس موصول ہو رہا ہے۔ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ ملزم کی تعمیل بطریق  
آسان و معمول ہونی ناممکن ہے۔

لہذا اہلکاران پولیس جموں و کشمیر کو حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ملزم کو جہاں  
کہیں بھی اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر ملے۔ گرفتار کر کے عدالت ہذا میں پیش  
کریں۔ وارنٹ ہذا تا دستیابی ملزم زیر کار رہیں گے۔

تحریر الصدر 24/8/23

دستخط: فست ایڈیشنل سیشن جج جموں۔



## از عدالت چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جموں

سرکاری یوٹی جموں و کشمیر بنام دارا سنگھ وغیرہ

مقدمہ علت نمبر 75 سال 2005 تھانہ پولیس لیہ

مثل نمبر 2008/15430 تاریخ دائرہ 31-03-2008

تاریخ فیصلہ 18-03-2024

بجرائم زیر دفعات 420, 120-B,

## وارنٹ گشتی عام زیر دفعہ 512 ض ف

بخلاف ملزمان: جوگندر سنگھ ولد سرجان سنگھ ساکنہ گول گجرال جموں

حکم بنام: اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر

مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزمان کے خلاف کاروائی بمنشاء دفعہ

512 ض ف عمل میں لائی جا چکی ہے

لہذا آپ جملہ اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر کو حکم و اختیار دیا جاتا ہے

کہ آپ ملزمان کو جہاں کہیں بھی اندر حدود یوٹی دستیاب ہوں گرفتار کر کے

عدالت ہذا میں پیش کریں۔ وارنٹ ہذا تا دستیابی ملزم زیر کارر ہیں گے۔

تحریر 18-03-2024

دستخط: چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جموں

## از عدالت سب جج جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول جموں

سرکار یوٹی جموں و کشمیر بنام بودھراج وغیرہ

مثل نمبر 226 / Challan تاریخ دائرہ 12-12-2014

تاریخ فیصلہ 18-1-2024

سرکار علت نمبر 165 سال 2014 تھانہ پولیس باہو فورٹ

بجرائم زیر دفعات 498-A RPC

وارنٹ گشتی گرفتاری عام زیر دفعہ 512 ض ف

بخلاف ملزمان: 1- بودھراج ولد دُرگاداس ساکنہ کول خرد تحصیل بشناہ جموں۔

2- رتن لعل ولد دُرگاداس ساکنہ کول خرد تحصیل بشناہ ضلع جموں

بنام: اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر

مقدمہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزمان متذکرہ صدر کے خلاف بروئے حکم امروز کاروائی زیر دفعہ 512 عمل میں لائی جا چکی ہے اور ملزم کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کا حکم ہوا ہے جو کہ جاری کیا جاتا ہے لہذا اصل وارنٹ گرفتاری عام زیر دفعہ 512 ضابطہ فوجداری کی رو سے حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر ملزم مذکور متذکرہ صدر اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر جب کبھی اور جہاں کہیں بھی دستیاب ہوں تو اُس کے تحت ضابطہ گرفتار کر کے عدالت ہذا میں پیش کریں۔

وارنٹ ہذا تا دستیابی ملزمان زیر کار رہیں گے۔ تحریر 18-1-2024

دستخط: سب جج جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول جموں

## از عدالت سٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول جموں

سرکار یوٹی جموں و کشمیر بنام رینوکار

سرکار عدلت نمبر 225 سال 2013 پولیس سٹیشن ستواری

بجرائم زیر دفعات 341,323,34 RPC

وارنٹ کشتی زیر دفعہ 512 ض ف

حکم بنام : اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر بخلاف ملزم صدر

معاملہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزم کو بارہا بذریعہ وارنٹ گرفتاری بلاضمانتی طلب کیا گیا ہے۔ الا ملزم کی دستیابی نہ ہوئی ہے اور وارنٹ ہذا پر تعمیل آئی ہے کہ ملزم رینوکار ولد شام لعل ساکنہ رام باغ جموں گھر سے فرار ہے اور روپوش ہو گیا ہے جس سے ملزم کی دستیابی بطریق آسانی مشکل ہے۔

لہذا ملزم کے خلاف کارروائی زیر دفعہ 512 ض ف بعمل لائی جا کر اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر کو حکم اختیار دیا جاتا ہے کہ ملزم متذکرہ بالا جہاں کہیں بھی اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر دستیاب ہو تو اسے فوراً گرفتار کر کے عدالت ہذا میں پیش کریں۔

سرکار یوٹی جموں و کشمیر بنام کرن کمار

سرکار علت نمبر 107 سال 2019 پولیس سٹیشن ستواری

بجرایم زیر دفعات. 341,323,504,506,201,34 RPC & 4/25 Arms Act.

وارنٹ کشتی عام زیر دفعہ 512 ض ف

حکم بنام : اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر بخلاف ملزم صدر

معاملہ مندرجہ عنوان الصدر میں ملزمان کو بارہا بذریعہ وارنٹ گرفتاری بلا ضمانتی طلب کیا گیا ہے۔ الا ملزم کی دستیابی نہ ہوئی ہے اور وارنٹ ہذا پر تعمیل آئی ہے کہ ملزم ارجن سنگھ ولد رنجیت سنگھ ساکنہ کو تھالی ارجن سنگھ تحصیل آرائس پورہ ضلع جموں گھر سے فرار ہے اور روپوش ہو گیا ہے جس سے ملزم کی دستیابی بطریق آسانی مشکل ہے۔

لہذا ملزم کے خلاف کارروائی زیر دفعہ 512 ض ف بعمل لائی جا کر اہلکاران پولیس یوٹی جموں و کشمیر کو حکم و اختیار دیا جاتا ہے کہ ملزم متذکرہ بالا جہاں کہیں بھی اندر حدود یوٹی جموں و کشمیر دستیاب ہوں تو اسے فوراً گرفتار کر کے عدالت ہذا میں پیش کریں۔

دستخط: سٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول جموں



## जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड-136] जम्मू, बुधवार, 27 मार्च, 2024/7 चैत्र, 1946. [सं. 51-18

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

### भाग II-सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 27 मार्च, 2024

7 चैत्र, 1946 (शक)

### अधिसूचना

सं.56/2024/रा0दलअनु0-III.-यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2022/रा0द0अनु0-III, तारीख 15 मई, 2023 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है ।

- अतः, अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 15 मई, 2023 की,

अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2022/रा0द0अनु0-III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I(क) में, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता;
- (ख) सारणी-I(ख) में, सूची से हटाये गये पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता; और
- (ग) सारणी-I(ग) में, निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता ।

**सारणी-1(क)**  
**रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल**

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1	आबाद पार्टी	4-1/2, एससीबी नगर, रामावरम, मंडल: चुंचुपल्ली, जिला भद्राद्रि कोतागुडम, तेलंगाना - 507118
2	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
3	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, डिडवाड़ा रोड, सालवन, जिला - करनाल, हरियाणा
4	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा, जिला - समस्तीपुर, बिहार - 848115
5	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
6	आदर्शवादी काँग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा-गद्दोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
7	आधी आबादी पार्टी	डी-1385/7, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
8	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, इंसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058

1	2	3
9	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
10	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 - 84, ग्राम - मवैया कलां, पोस्ट - नारीबारी, शंकरगढ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
11	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रुपवेल, (निशाल, फलिया), ता0- वनसदा, जिला-नवसरी-396 321, गुजरात ।
12	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट - बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 - भीतरगांव, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
13	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
14	आम आदमी परिवर्तन पार्टी	सत्य साईं कालोनी, प्रीत विहार, नियर समर विला स्कूल, छपरौला, गौदम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-2001001
15	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्स्टेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
16	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, वार्ड नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
17	आम अवाम विकास मोर्चा	फ्लैट नं-डी. 202, गोकुल धाम अपार्टमेंट, रांची, झारखण्ड- 834008
18	आम भारत पार्टी	अरविंद कुमार दिक्षित नं.3, तीसरी मंजिल, दूसरी विल्डिंग, अम्बिका कम्पलेक्स, दामोदर रिया, तालुका- इंदर, जिला-साबरकांठा गुजरात- 383430.
19	आम भारतीय पार्टी	103-रेडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
20	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्कलेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
21	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.
22	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
23	आम जन नीति पार्टी	वार्ड नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
24	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार ।
25	आम जनता जागरूकता पार्टी	झापर बैठा मार्केट, डगरुआ, थाना जगरुआ, पोस्ट- डगरुआ, वाया-गुलाबबाग, जिला-पूर्णिया, बिहार-854326

1	2	3
26	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश
27	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, पलॉट नं0-9, जी - ब्लॉक, कम्यूनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली - 18
28	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट - भगीपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंगलिश स्कूल के पास, जिला - एटा, उत्तर प्रदेश - 207001
29	आम जनमत पार्टी	एच.आई.जी.फ्लैट नं0 7 एच.एफ.-25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना, बिहार- 800026
30	आम जनशक्ति पार्टी	डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
31	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश ।
32	आम जनता पार्टी (सोशलिस्ट)	ग्राम व पोस्ट-इंदईपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224129
33	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 441115
34	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	फ्लैट नं0-804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार - 800014
35	आम जनता प्रगति पार्टी	बी - 141, अमर ज्योति कॉलोनी, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110081
36	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब-141001
37	आम नागरिक पार्टी	ग्राम - बौल्ला मजूरपुर, पोस्ट - कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गौण्डा, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
38	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
39	आमजन एकता पार्टी	मोहल्ला-मुंशीपुरा, तहसील के पास-कस्बा-नकुड़, तहसील और थाना-नकुड़, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247342
40	अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम	1/47बी, जे.एस.एम. कैथेर्डल रोड, इट्टेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627007
41	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
42	आप की इंसाफ पार्टी	निवासी 62 A, अबू बाज़ार ऊँचा, घासीकटरा, नियर आइडियल मेरीज हाउस, थाना-तिवारीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001



1	2	3
43	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायका हाईट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
44	आपका गणतंत्र पार्टी	वेंकट वार्ड -13, गली नंबर 2, शास्त्री कॉलोनी, कटनी, मध्य प्रदेश-483501
45	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
46	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं० - 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव - सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा ।
47	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
48	आपकी आवाज पार्टी	206, चंद्र प्रकाश, रेसीडेंसी, सिदसर रोड, भावनगर, गुजरात-364002
49	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं० - 2442, फेज -II, सेक्टर - 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब ।
50	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गाँधीनगर, गुजरात-382721
51	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलपुर रोड, ग्राम-भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
52	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे.कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
53	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा ।
54	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम-कित्तुखेड़ी, पोस्ट- झारडा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला-मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553
55	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
56	आस पंजाब पार्टी	1901, 1902, चौक शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब-143001
57	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कॉलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001

1	2	3
58	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
59	अवामी पिछड़ा पार्टी	मकान संख्या 269, अराजी नं0-1, चक रशीद देहाती, अदिलाबाद, पावर हाउस मोहमदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233227
60	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)	मकान नं0 180, गली नं0 3/22, (खसरा नंबर- 265), गोकुल पुर गांव, हक्का शाहदरा दिल्ली-110094
61	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़ ।
62	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश ।
63	अभिनव भारत जनसेवा पक्ष	कामिनी हाउसिंग सोसाइटी, गली नं -1, महालक्ष्मी नगर, गैस गौड़ाऊन्च्या बाजूला, अंबरनाथ (पूर्व), जिला - ठाणे, महाराष्ट्र - 421501
64	अभिनव भारत पार्टी	आर बी -10, ब्लॉक आर बी, इंदरपुरी दिल्ली- 110012.
65	अभिनव लोकतंत्र पार्टी	एच.नं.97, ठाकुर पट्टी लीखली, पोस्ट- मरियादा, तहसील - सिकराय, जिला - दौसा, राजस्थान-303326.
66	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510
67	अबुआ झारखंड पार्टी	रोड न. 7, मिडिल दौंडनगर, डिबडीह, रांची, - 834002
68	ऐक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगवां, जनपद- लखीमपुर(खीरी), उत्तर प्रदेश।
69	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
70	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं0 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैंड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब ।
71	आदर्श जनकल्याण दल	ग्राम-चन्टुआरा, पोस्ट-जट डुमरी, थाना-पुनपुन, जिला- पटना, बिहार- 804453
72	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम - कुढ़ी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
73	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश) ।

1	2	3
74	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
75	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
76	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.
77	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०ई०सी०ओ० रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
78	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।
79	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
80	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।
81	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001
82	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001 ।
83	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं० – 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, वार्ड नं० – 10, तहसील – हुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश ।
84	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208016
85	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।
86	आदिवासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।
87	अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस	गुरुआईन वाड़ी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
88	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
89	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेंथूचेट्टीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008

1	2	3
90	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची	नं0 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
91	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी0 नं0 - 5/125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट - सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला - नामक्कल, तमिलनाडु - 637019
92	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं0 - 47, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
93	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
94	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं0 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
95	एम पॉलिटीकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं0 - 179, सीईएन नं0 -301, कॅप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
96	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010 ।
97	अखंड आर्यावर्त एक्सेस पार्टी	1/4961, बलबीर नगर एक्सटेंशन, गली न.4, शाहदरा, दिल्ली-110032
98	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साई कॉलोनी, भाईजान रिकशे वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
99	अखंड भारत एकता मंच	ए-204, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक क्रॉस रोड के पास, सी. जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380009.
100	अखंड भारत जनप्रिय पार्टी	गणेश शर्मा, रोड नं0-3, बजरंगपुरी, भगत सिंह पथ, गुलजारबाग, पटना बिहार-800007
101	अखण्ड भारत पार्टी	47 - रुकमिणी विहार, मण्डी समिति के सामने, बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
102	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्किट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086
103	अखण्ड भारत सम्राज्य पार्टी	एफ-305, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, अकबरपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
104	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
105	अखंड भारत विकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001

1	2	3
106	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच० एस० लिमिटेड, एम०जी० रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400067, महाराष्ट्र।
107	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
108	अखंड भारतीय युवा पार्टी	421/6, ब्लॉक -बी, लक्ष्मी विहार, बुरारी, नई दिल्ली-110005.
109	अखण्ड हिन्द पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
110	अखंड लोकतांत्रिक पार्टी	मुख्य मार्ग स्टेट बैंक के सामने, C/O सहेतरीन बाई साहू, वार्ड न.02, लवन, जिला- बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़-493526
111	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462044
112	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
113	अखंड राष्ट्रीय रक्षक पार्टी	बी-267, श्री जीवराज पार्क, नारायण नगर के पास, पोस्ट-खोडयार नगर, अहमदाबाद गुजरात- 382352
114	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाथ नारायण रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
115	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान-301019
116	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
117	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश ।
118	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
119	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर) ।	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।
120	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
121	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
122	अखिल भारतीय हिन्द क्रान्ति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश ।

1	2	3
123	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
124	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538, हडसन लाईन, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009
125	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।
126	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
127	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्ट्री (कोके), तहसील-सिन्देवाही, जिला-चन्दरपुर, महाराष्ट्र ।
128	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर) ।	खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
129	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश) ।
130	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
131	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
132	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र) ।
133	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब) ।
134	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
135	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाइपुरा, गाँव-गगवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
136	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
137	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
138	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मालिक मऊ आड़मा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229010
139	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
140	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।

1	2	3
141	अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी	सा-17/235.जी.पी. सारंग ताताब पहड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-221007
142	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462037.
143	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43, ग्राम-देल्हुआ नजदीक बेरुआरबारी, मेन रोड, सुखपुरा, बांसडीह रोड, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश- 277301
144	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
145	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
146	अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी	60, चौधराना, पोस्ट- जायस, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305
147	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड ।
148	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 मिर्दहान दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403
149	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर, तहसील-तिगांव, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा-121101
150	अखिल भारतीय क्रांति सेना पक्ष	महाराणा प्रताप चौक में दुकान नंबर 01, ओ.पी.पी., भगत सिंह स्कूल के सामने बजाज नगर, वालुज एम.इ.डी.सी., जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431001
151	अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी	शॉप नं0-9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
152	अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया(जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो0- मंझली मटिहानी, भाया - बेलहर, जिला - बांका, बिहार।
153	अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी	मकान नंबर 820, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, सेक्टर- 19 के पास, सर्वोदय अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002.
154	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	विलास राय कॉम्प्लेक्स, सीतामढ़ी रोड, एन.एच.-77, निकट एस.एस.बी. हैड क्वार्टर्स, रुसुलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार - 842004
155	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो0 कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241001

1	2	3
156	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
157	अखिल भारतीय परिवार पार्टी	ए-37,पाकेट-11,भूतल,जसोला जनता फ्लैट,नईदिल्ली- 110025.
158	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, इयोडियाबीर, भेलूपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
159	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर,महाराष्ट्र- 440027
160	अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी	448/986,मल्लाही टोला-1,नागरिया,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226003
161	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल0 आई0 सी0 सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208024
162	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली - 110009
163	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान न० 22/178, मांझखोर रमेड़ी तरौस चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
164	अखिल भारतीय विकास काँग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ- 226001 उत्तर प्रदेश ।
165	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वार्ड संख्या - 36, होल्डिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार – 800003
166	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
167	अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी	ब्लॉक-22, पहला तल, गणेश चेंबर, घंतोली, नागपुर महाराष्ट्र-440012
168	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं० 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135
169	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची ( डॉ इसाक) ।	नं० 171, कानन नगर, वींटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
170	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल – 695020
171	अखिला विजया पार्टी	डी.591,5 वीं मंजिल,हबडाउन मार्केट,गीता मंदिर,बस स्टोप,अहमदाबाद,गुजरात- 380022
172	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।



1	2	3
173	अकिला इन्थिया मक्कल मरुमलार्ची कझकम	144/82,मरीअम्मन कोविल स्ट्रीट ठुवाकुदी-पोस्ट,थिरुवरुम्बुर तालुक त्रिचिरापल्ली जिला,तमिलनाडु- 620015
174	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली - 110029 ।
175	ऑल भारत तोजिलालर काचि	नंबर 106/1, (ओल्ड नं. 19) थीरुवल्लुवर स्ट्रीट, करप्पाचावाडि, कृष्णनकुप्पम पोस्ट, कुरिनजेपडुडी, टीके कुललनचावडुडी वे, कुड्डालोर जिला, निकट श्रीदुलुकनाथम्मन कोइल, तमिलनाडु- 607302.
176	ऑल इंडिया आर्य महासभा	ग्राम-नाबा-हिम्मतपुर, कृष्णापुर, पी.एस. नलहटी, पोस्ट-कृष्णापुर, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल- 731237
177	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म0 नं0 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
178	ऑल इंडिया बैकवर्ड पीपुल सुनामी पार्टी	1-2-53, फ्लैट नं.302, ओडियन एन्वलेव, दोमालागुडा, (गगनमहल), हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500029
179	ऑल इंडिया बी० सी०, ओ० बी० सी० पार्टी	म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपड़ा, ई.सि.आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
180	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा-151505, पंजाब
181	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम0-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
182	ऑल इंडिया डिसेबल्ड पार्टी	प्लॉट नंबर 57, भगवान श्री शेषस्थिरी नगर, मालापट्टी रोड, डॉन बॉस्को कॉलेज बैकसाइड, बालकृष्णपुरम पंचायत, डिंडीगुल, तमिलनाडु- 624003.
183	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकापिल्ली पी.ओ., कूवाप्पडी, ऐरणाकूलं जिला, केरल- 683544
184	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
185	ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
186	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाड़ा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
187	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1बी/110ए, कृष्णा आपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1बी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063
188	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं0 - 1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501

1	2	3
189	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कालिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
190	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
191	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/वी.एस-17/1404/वी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोड्डाबल्लापुरा टाउन, बैंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक
192	ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी	हाउस नं0 2-221, ग्राम -जयपुरम, कुदैर मंडल, अनंतपुर, जिला - आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश- 515751
193	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब-152002
194	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी काँग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।
195	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
196	ऑल इण्डिया लीगल राइट्स पार्टी	डी.नं.-27, न्यु नं.-8 जे, कल्याणावायनागर कोयाल स्ट्रीट, पंडियन नगर, थीरुनगर, जिला- मदुरई तमिलनाडु- 625006.
197	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं0 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्टनम-530017, आन्ध्र प्रदेश
198	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं0 - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं0 - 35, सर्वे नं0 - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
199	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13, मोगलपुरा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500002
200	ऑल इण्डिया मजलूम अधिकार पार्टी	ग्राम-दुर्गापुर (ताजपुर फतेहपुर), पी.ओ.-जयनगर माजिलपुर, थाना-जयनगर, जिला-दक्षिण 24 परगना, पिन-743337, पश्चिम बंगाल
201	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु काँची	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619
202	ऑल इंडिया मक्कल राज्य कझगम	प्लॉट नंबर 6-7, शेख मोहम्मद नगर, अलुंदुर, श्रीरंगम-तालुक, जिला-तिरुचिरापल्ली, तमिल नाडु-620012
203	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - चोलापुर, तहसील व जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221101 ।

1	2	3
204	ऑल इण्डिया मांची पार्टी	फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेन्ट, काटूरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश ।
205	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं० - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
206	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कड़गम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्केड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
207	ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
208	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कड़गम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
209	ऑल इंडिया नैशनल रक्षा सेना	फ्लैट नं.503, पाँचना फ्लोर, सामानिस पार्क वियू, साईदाबाद, सरूरनगर, हैदराबाद
210	ऑल इंडिया न्याय पक्ष	मकान संख्या - 1106, सेक्टर-16-17, जिला - हिसार, हरियाणा- 125001
211	ऑल इंडिया पसुम्प्न मुननेत्र कड़गम	47बी/2, सोर्गावासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
212	ऑल इंडिया पट्टाली मुनेत्र काँची	नं० - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202
213	ऑल इंडिया पीपल डेवलेपमेंट पार्टी	डी नं.-1/119 बी, नार्थ स्ट्रीट, अनैकुत्तम(पोस्ट) थिरुथंगल, शिवकासी, जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु- 626130.
214	आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।
215	ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
216	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
217	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कड़गम	डी. नं. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु-625010
218	ऑल इण्डिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
219	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टॉउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फर्रुकोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
220	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काचची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।

1	2	3
221	ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी	ऑंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु - 621010.
222	ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट	फुरफुरा, पोस्ट- फुरफुरा, थाना-जंगीपाड़ा, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल- 712 706
223	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब) ।
224	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो० - ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल) ।
225	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं० 20-24, ज़फाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला - गुलबर्गा, कर्नाटक
226	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पत्तुर - 635601, तमिलनाडु ।
227	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099
228	ऑल इंडिया वीमेन यूनाइटेड पार्टी	कमरा नं० - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
229	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेन्ट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- वेल्लोर तमिलनाडु- 635752
230	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
231	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
232	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
233	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।
234	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।
235	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला ख्वाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड - 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
236	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं०-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु
237	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं० 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश ।
238	एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी	फ्लैट नं० 106, साई श्री टॉवर्स, 3-6-429/106, स्ट्रीट सं० 4, हिमायतनगर, हैदराबाद - 500029.

1	2	3
239	एलाइड मिलेनियल्स पार्टी ऑफ इंडिया	एटी-51, तीसरी स्ट्रीट, अन्नाई थेरेसा नगर, मदिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
240	आल-इन-वन पार्टी	प्लॉट नं०-4, ग्राम - साधूपुर, डी० डी० पुरम् कालोनी, पोस्ट - कमलाबाद बढौली, रैथा रोड, निकट नशा मुक्ति केंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201.
241	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खड़मात मरकज, के.पी.चौक, खन्नाबल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
242	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
243	अमन समाज पार्टी	वी-1452, गली नं०-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
244	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिम्माजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
245	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं० 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगशेत्यहल्ली मेन रोड बेंगलोर- 560092, कर्नाटक।
246	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
247	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु) ।
248	अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी	डी. नंबर 321/1 एस,एस मीनाक्षीपुरम, सोवदार्पति (पी.ओ.), थिरुमंगलम (टी.के.), मदुरई (डी.टी.), तमिलनाडु- 625704.
249	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
250	अम्बेडकर सेना पार्टी	ग्राम-कबरी, रविदास मंदिर के पास, तहसील व जिला- पानीपत, हरियाणा-132013
251	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता, इंदिरा आवास कॉलोनी, थाना-सदर बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश-282009
252	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
253	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकत्ता-700063. (पश्चिम बंगाल) ।
254	अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा - 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र ।

1	2	3
255	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	ए.पी.आई., सेंट्रल सेक्रेटेरियट, प्लॉट न.1672, नियर बुद्धा विहार, नारा रोड, इंदारा (वारपखड), नागपूर-440014, महाराष्ट्र
256	अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम	नया न.-15, पुराना न.8, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट कोट रोड, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
257	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल) ।
258	अनाईथिंडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेय्यर तालुक - 604 407, थिरुवन्नामला, जिला-तमिल नाडु।
259	अनैथिन्डिया उजैक्कुम पटैप्पाली वाज्जुरिमै कच्ची	नंबर 1, रेगुनाथपुरम ईस्ट स्ट्रीट, देवकोट्टई, शिवगंगई जिला, तमिलनाडु-630302
260	अनैतौन्डीया समुदाय मक्कल काची	80, कूलढाई वेलन लेन, मेन रोड, डिंडिगुल, तमिल नाडु - 624001
261	अनैथिनथिया अन्ना द्रविडा मक्कल सेयल काचि	15/28, पिल्लानल्लूर पुडूर, गुरुसामि पलायम पोस्ट, वेटेरिनरी हॉस्पिटल, गुरु सामि पलायम पोस्ट, रासीपूरम टीके, नामक्कल जिला, तमिलनाडु - 637403
262	अनैथिन्थितया तामिझागा मुन्नेत्र कडगम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।
263	अनैतु इंडिया मक्कल काँची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, होसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
264	अनैथु मक्कल अरासियल काची	नम्बर 1/111, ईस्ट कोस्ट रोड, इन्जाबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600115
265	अनैथु मक्कल काची	नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप, पेरम्बूर बेरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012
266	अनाईथू मक्कल मुन्नेत्र कडगम	डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
267	अनैथु मक्कल पुराची काँची	न.268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरुथाचलम्, (टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
268	अनैतु मरुथुवार मक्कल मुनेत्र कडगम	136/डी 3, अन्नाई आराधना अष्टलक्ष्मी नगर, गुदलूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, पिन कोड-603204
269	अनाइथू उलागा तमिलारगल मुनेत्रा कलगम	नं.17, एजहिल नगर, पेरुमालपुरम, पालयमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627007

1	2	3
270	अनैतुमक्कल नीति काँची	डी0 नं0 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
271	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं0-371, प्रथम तल, मोहल्ला - सधवाड़ा, कायमगंज, जिला - फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश ।
272	अन्बू उदयम कच्ची	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर - 625518, तमिलनाडु
273	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह -744103 ।
274	अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव और पीओ - रामकृष्णपुर, लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह - 744207
275	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुडू स्ट्रीट, भीमुनिपटनम, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 531163
276	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिति पार्टी	मकान नं0 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी - विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद - 500035, आन्ध्र प्रदेश ।
277	आंध्र पेंशनर्स पार्टी	म.न.8-6-666, प्लॉच नं. 64बी, श्री बालाजी नगर, बी.नं.रेड्डी नगर के पास, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना-500070
278	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंटूर, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
279	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर - 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
280	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
281	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
282	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
283	अन्ना डेमोक्रेटिक हूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी ऑफ इंडिया	अमल भवन, थिक्कन्नामंगल, कोट्टारकाश पीओ, कोल्लम, केरल- 691506.
284	अन्ना द्राविड कड़गम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713

1	2	3
285	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम, कीलावीथी, पटेश्वरम, कुम्बकोणम् तालुक, तंजावुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु - 612703
286	अन्ना मक्कल इयक्कम	नंबर 660, आर.के.जे.वल्लीवेलन नगर, पम्माथुकुलम, पोत्तुर ग्राम, अम्बात्तूर तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु-600052
287	अन्ना मक्कल काचि	20सी, रेलवे स्टेशन रोड, चिन्नासलेम विलूपूरम, तमिल नाडू-606201
288	अन्ना एमजीआर द्रविड़ा मक्कल कलगम	नं. 150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600087
289	अन्ना एमजीआर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	मकान नं0 - 176, वार्ड नं0 - 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उत्थमापलायम - तालुक, थेनी - जिला तमिलनाडु - 625526
290	अन्ना पुरुचि थलैवर अम्मा द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम	नं. 1/424, थोतडू पाल्यम, लक्ष्मी नगर, पुलुवापट्टी (पोस्ट), तिरुपुर, तमिलनाडु, तमिलनाडु- 641602.
291	अन्ना वार्डएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं0 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
292	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुबहा (वाया- जसरा), थाना- लालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
293	अन्नन तमिलगा राइजिंग कड़गम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
294	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैढन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886
295	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपटु- गांव, थिरुवेल्लार, तमिलनाडु- 602024
296	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
297	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार ।
298	अपना भारत विकास पार्टी	ग्राम - काशीपुर (मिश्रा नेवरी), जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश - 277001.
299	अपना भारतीय सनातन पार्टी	जय शेष मार्केट, ग्राम-किरतारतारा, पोस्ट- बिरशाहपुर, जिला-मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-231001
300	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
301	अपना दल (कमेरावादी)	126/17 बी.बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001



1	2	3
302	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो0-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274402
303	अपना देश पार्टी	मकान नं०-457, मेजरगंज, जिला - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
304	अपना हक पार्टी	म.नं.-244, विधायक विजय यादव आवास, वार्ड नं.- 1, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244601
305	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
306	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
307	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
308	अपना संघर्ष किसानी एकता पार्टी	2379/2, कृष्णा नगर, आरती बैंक, निकट अमन हॉस्पिटल, सूपर एक्सरे वाली गली, लुधियाना, पंजाब - 141001
309	अपनी एकता पार्टी	पुरानी तहसील परिसर के पास, झालूर रोड, ग्राम-शेरपुर, तहसील-धूरी, जिला-संगरूर, पंजाब - 148025
310	अपनी जनता पार्टी	735/4, (1286/60), गली नं० 13, सिद्धार्थ पुरम (चौहान पुरी), नई बस्ती, लल्लापुरा, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002
311	अपनी जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं० 234-के, संकट मोचन भवन, ग्राम व पोस्ट-अमरपुर औन, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209827
312	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- उँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
313	अपनी पार्टी इंडिया	एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
314	अपनी प्रजाहित पार्टी	प्लॉट नं 12, दिन प्रजाहित कॉलोनी, ऑपोजिट श्री कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र- 440015
315	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
316	अप्पाअम्मा मक्कल कड़कम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट - अम्मापाल्यम्, तालुक व जिला - पेराम्बलूर, तमिलनाडु - 621101
317	एरावोर मन्नेत्र कडगम	डी.नं.0 663, आगराबरम, राजालिपट्टी पोस्ट, थिआगासर अलै वाया, वीरालीमलई यूनियन, पुडुक्कोट्टायी जनपद तमिलनाडु-621312
318	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए, ब्लॉक-के, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011

1	2	3
319	अर्जुन भारत नेशनल पार्टी	जी-2,1-फ्लॉर,प्लॉट नं0-216,हस्तिनापुर, विस्तार,पांच्यावाला,जयपुर,राजस्थान-302034
320	अरूणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)
321	अरूणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी	एल.आर.बी. 09233/94 दि.टी-30/03/1995, ई-सेक्टर, पीओ/पीएस-ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा, जिला-पापुम पारे अरूणाचल प्रदेश-791111
322	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस - 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
323	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना - अहिरौली,जनपद - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश - 274207
324	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
325	असली भारत पार्टी	सी-48, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049
326	असली देशी पार्टी	शॉप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
327	असम जन मोर्चा	वार्ड नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा- निज सहर, थाना व जिला- नगाँओ, असम- 782002.
328	असम संग्रामी मंच(असम)	म.न.5 ए,राजगढ़ बाई लेन न. 4,गुवाहाटी, असम- 781003
329	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांव, पोस्ट ऑफिस- हंसारा, जिला- तिनसुकिया, असम- 786790.
330	असम जातिय परिषद्	मकान नं. 33 की पहली मंजिल,लैंब रोड, उज़ान बाज़ार, गुवाहाटी, पी.एस. लतासिल,पी.ओ. - उज़ान बाजार,जिला - कामरूप (M), असम - 781001.
331	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190
332	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली -110064.
333	अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी	ग्राम-खरैला, पोस्ट-सराय पलटू,ब्लॉक-ठेकमा,जिला- आजमगढ़,उत्तर प्रदेश-276302
334	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रोंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम) ।
335	अविरत नेशनल सेवा पार्टी	24, श्री लक्ष्मी निवास, प्रथम ब्लॉक, द्वितिय क्रॉस, अक्षय नगर, बैंगलोर, कर्नाटक - 560016.
336	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला - जालोर, राजस्थान ।

1	2	3
337	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017.
338	आवामी समता पार्टी	भवन संख्या - 631/135, पानी गांव, सेक्टर - 9, पोस्ट - इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
339	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चैंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400015
340	अयया मुन्नेटरा काजगम	डोर नं.180/128, थिरुगनानासम्बंदर रोड, रोसकोर्स, कोयम्बटोर तमिलनाडु- 641018
341	आजाद अधिकार सेना	5/426, विक्रम खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
342	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, स्मार्ट इन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
343	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
344	आजाद भारत पार्टी (यूनाइटेड)	डी-59/14ए/-1/ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
345	आजाद जनता पार्टी	208, दिल्लन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
346	आजाद क्रांति पार्टी	मकान नं. 559, ब्लॉक- जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208020
347	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-पपपए शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलोई, नई दिल्ली -110086.
348	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228132
349	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
350	आजाद शिवालिक भारत पार्टी	यूपी महल, गांव डांगोली, खेवत नंबर-58, खतौनी नंबर- 218, खसरा नंबर - 109, तहसील ऊना, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174303
351	अज़गु तमिल देसियम	टीआई, तीसरी मंजिल, लैंड मार्वल अपार्टमेंट 30, सदायप्पन स्ट्रीट, मंदावेली, चेन्नई तमिलनाडु - 600028
352	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद- 500017 आन्ध्र प्रदेश ।
353	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।

1	2	3
354	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
355	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
356	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
357	बहादुर इन्सान नागरिक दल	खाता न० 678, ग्राम टेमा जेड, शेरपुर, पोस्ट गौरा, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश-221404
358	बहुजन आन्दोलन पार्टी	शाहजीपुरा, सराजतरीन संभल, प्रथमा बैंक के पास, जिला-संभल, उत्तर प्रदेश- 244302.
359	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
360	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सगाम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
361	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
362	बहुजन भारत पार्टी	वत्सलाबाई मोहन कांबले, धारावी कुम्भारवाडा, 90 फुट रोड, वी.ओ.सी., मुंबई सिटी महाराष्ट्र- 400017
363	बहुजन चेतना विकास मोर्चा	म.न. सी-8, कचनार सिटी, तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001
364	बहुजन द्रविड पार्टी	मकान नं० 6659, ब्लॉक नं० 9, देव नगर, कारोल बाघ, नई दिल्ली- 110005
365	बहुजन गोंडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
366	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील-मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
367	बहुजन जनता दल (खोडावल)	सी-170, सेक्टर-1, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250103.
368	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)	ग्राम-धन्सुआ, पो० -सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
369	बहुजन लोक दल	नादरागंज रामसागर रोड, मस्जिद गली (बडी दाहा), गया, बिहार- 823001
370	बहुजन लोकराज्य पार्टी	मैत्र निवास, तेमभुरनी रोड, कुरदुवारी ताल - मधा, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र- 413208.
371	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्दावना अपार्टमेन्ट, मदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092 ।

1	2	3
372	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिक्रारी, तहसील- टूंडला, थाना- पचोखरा, जनपद/जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
373	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
374	बहुजन नेशनल पार्टी (अम्बेडकर)	आर.जेड-35 (तृतीय तल), सीता पूरी, पंखा रोड, निकट डाबरी मोड मेट्रो स्टेशन गेट न.3, नई दिल्ली-110045
375	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
376	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल0 आई0 जी0, बर्ग-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश ।
377	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001
378	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
379	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
380	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो0-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
381	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
382	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर- फुलै)	म०नं० वी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेन्ट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
383	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरुण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
384	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, साऊथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली - 110008.
385	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिठौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
386	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लशकर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश ।
387	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड़, पंजाब ।
388	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
389	बहुजन सेवा पार्टी	899, फूलबाग कॉलोनी, कुर्सी रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226021

1	2	3
390	बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी	डी.डी.ए. दुकान नंबर-16, प्रथम तल, सी.एस.सी. नं० वी.सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली- 110082
391	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।
392	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
393	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
394	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-वसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.
395	बहुजना देशम पार्टी	डोर नं. 4/32, गद्दामीदा हरिजना वाडा, सिंगारेडुडी पल्ली, पेनागलुर मंडल, वाई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127
396	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी वाडा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
397	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वैकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुड्डा, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500037
398	बहुजना राज्याधिकारा पार्टी	मकान नं० 8-1-77/9/बी, टीचर्स कॉलोनी, जिला महबुबनगर, तेलंगाना- 509001
399	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं० - 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500026
400	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर- 842002, बिहार ।
401	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
402	बंचित स्वराज पार्टी	सं० 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220, पश्चिम बंगाल ।
403	बंग भारत पार्टी	ग्राम घनश्यामपुर, पोस्ट-पुरंदरपुर, थाना-कांदी, जिला- मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल- 742140

1	2	3
404	बंगाली नवनिर्माण सेना	सी/ओ सुप्रिया दास, चेंगकुरी रोड, ईस्टर्न बाइलेन, पोस्ट- अम्बकापट्टी, थाना- सिलचर सदर, जिला-कछार, असम- 788004.
405	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
406	बेगलुरु नव निर्माण पार्टी	101, ब्रिगेड पैरामाउट, 5, ओल्ड मंद्रास रोड, सी.वी.रमन नगर, बेगलुरु - 560093
407	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
408	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपि - जिला, कर्नाटक- 574117
409	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना, ब्लॉक - सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226008
410	भागीदारी पार्टी(पी)	30/5बी/4, दक्षिण लोकपुर, नैनी, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211008
411	भापसे पार्टी	ग्राम - मस्सा (खं), तहसील - कलम, जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507 ।
412	अष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
413	भारत (इन्टिग्रेटिड) रक्षक पार्टी	मकान सं० - बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर - 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018 ।
414	भारत आदिवासी पार्टी	प्लॉट नं० 27ए, गामडी हाउस (कॉमर्स) कॉम्प्लेक्स, शास्त्री कॉलोनी, इंदूरपुर, राजस्थान- 314029
415	भारत भारती पार्टी	38, कौशलपुरी, गौमती नगर एक्सटेंशन, गली नं० 10, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
416	भारत भविष्य पार्टी	मकान सं०-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारुन, पोस्ट - चन्द्रिकागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
417	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील - पामगढ़, थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ -495553
418	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।

1	2	3
419	भारत एकता मिशन पार्टी	171/123,आराघर,जिला - देहरादून,उत्तराखण्ड-248001
420	भारत गौरव पार्टी (इण्डिया)	13/543,सेक्टर-13,इंदिरानगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226016
421	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्किट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
422	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व), महाराष्ट्र-400070
423	भारत जन चिकित्सा पार्टी	113, कामराज नगर वेस्ट, रेडियार, ऊथंगराई, जिला-कृष्णागिरी
424	भारत जन जागरण दल	वाई नं. 5,नारा परसौर्न,भैरोगंज,पश्चिम चंपारण बिहार-845108
425	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209861
426	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं0 – 366, अहिल्या, न्यू शांगनी नगर, पोस्ट-एच.वी.पी.एम. अमरावती,महाराष्ट्र-444605 ।
427	भारत जनता दल (तुगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लाक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
428	भारत जोडो पार्टी	मोहम्मद अली मार्ग, 786/1, जोगी नवादा, निकट बडखडी नाथ मंदिर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243006.
429	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट – बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार – 8415061 ।
430	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत – मेवली, तहसील - खैरागढ, जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश- 283115 ।
431	भारत कौमी दल	ग्राम –लाडुरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
432	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) ।
433	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला – कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
434	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश ।
435	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट, पुष्पांजली इन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
436	भारत महापरिवार पार्टी	1286, ग्राउंड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली- 110095



1	2	3
437	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कटका, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
438	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
439	भारत नमन पार्टी	ग्राम व पोस्ट - मंशापुर, ब्लॉक- कटेहरी, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224168.
440	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर - 23, राजस्थान ।
441	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश ।
442	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो० त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल - 852139, बिहार ।
443	भारत न्याय दल	एन० एच०-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म० नं०-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
444	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ० कड़च्छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407
445	भारत पीपुल्स सेना	प्लाट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र ।
446	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कड़ूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
447	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान ।
448	भारत स्वाभिमान पार्टी	55/1/228, ग्राउंड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
449	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बूर, मुम्बई-400071.
450	भारत उत्कर्ष पार्टी	17A/418, प्रेम नगर, लौलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
451	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
452	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लाट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
453	भारत वैभव पार्टी	सी-४, शिवधाम वेलफेयर सोसाइटी, नियर बी.एम.सी. कॉलोनी, एम.डी.नगर, नालासोपारा पूर्व, पालघर, महाराष्ट्र - 401209
454	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड ।

1	2	3
455	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी०डी० ए० फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067.
456	भारत युग जनता पार्टी	ग्राम-गफ्फरपुर, पोस्ट-गुलरिया, तहसील एवं जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244221
457	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरूणदेवपेट, दसवीं लेन, गुंटूर - 522002, आन्ध्र प्रदेश ।
458	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल ।
459	भारत धर्म जन सेना	इमारत सं०-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544
460	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न० - 2 - 42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
461	भारत समाज डेवलप पार्टी	डी. नं० 40-31-26, धर्म नगर, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश- 530008
462	भारता चैतन्या युवाजना पार्टी	2-35/एस.एफ-2, रामावारप्पदु, विजयवाडा रूरल, एन टी आर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश-521107
463	भारता मक्कल कच्ची	नियर डोर नं. 44व 45 (पुराना डोर नं. 38), एस.एस. कॉलोली, पोनमेनी नारायणन स्ट्रीट, जिला-मदुरै, तमिलनाडु- 625016
464	भारता प्रजाकीय पार्टी	म.न.-3-175/1, बोधमपल्ली (गांव), डब्बा (पोस्ट), कोतला (मंडल), कुमरभीम आसिफाबाद (जिला), तेलंगाना राज्य - 504299
465	भारत सेवाई कच्ची	नं. 1 व2, गूम्स रोड, पैरिस, चैन्नई, तमिलनाडु- 600001
466	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
467	भारतीय जवान किसान पार्टी	XL, VI/2694 (एसबी/एस/867एच), पी.ओ. सिविल स्टेशन, नियर सन्निधान टूरिस्ट होम एंड बेस्ट इंजीनियरिंग, कन्नूर, केरल - 670001
468	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं० 3/17, डोरासानी पल्ली, प्रोहतुर मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
469	भारतीय प्रजा सेवा पार्टी	6-3-360/1, श्री कृष्णा देवराय नगर, बडवेल टाउन, वाईएसआर कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516227
470	भारथ्या बेलाक् पार्टी	नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव- गोपनहाली, तालुका-मादुरु, जिला- मंड्य, बेंगलुरु, कर्नाटक- 571422

1	2	3
471	भारतीय प्रगनावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्ली, नगरमावी वार्ड, बैंगलोर, कर्नाटक- 560056
472	भारतीय आम जनता अधिकार पार्टी	101-डी,ईस्ट लक्ष्मी मार्केट,गली नं.-4,पटपरगंज रोड,दिल्ली-110092
473	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं0 ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
474	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
475	भारतीय आवाम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
476	भारतीय अग्रगामी दल	44,श्री कृष्णा नगर,रोड नं.1,पी.एस.बुध कॉलोनी,पटना,बिहार-800001
477	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर,जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
478	भारतीय अपना समाज पार्टी	LIG-A/LGF-03,यशोधरा कुंज आवासीय योजना,गोरखपुर,उत्तर प्रदेश- 273016
479	भारतीय आशा पार्टी	मकान नं0 590,गाँव-भरण,गवर्मेन्ट हाई स्कूल के पास,तहसील-मेहम,जिला-रोहतक,हरियाणा- 124111
480	भारतीय अवाम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा बादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
481	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना – 800001 (बिहार) ।
482	भारतीय बहुजन कॉंग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
483	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नं0 – 139/2, ग्राम – लखवाया रसूलपुर, रोहता रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
484	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
485	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर,जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
486	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- काँटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर,थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302
487	भारतीय विकास परिषद	बैंक कॉलोनी, प्रथम लाईन,रेडियो स्टेशन रोड,ब्रह्मपुर,गंजाम, ओडिशा-760001

1	2	3
488	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231 001 ।
489	भारतीय काँग्रेस पक्ष	कसबापेठ, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट - बार्षी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र ।
490	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वार्ड नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश ।
491	भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी	बिल्डिंग न. 14/54, एस.बी.बिल्डिंग, अपोजिट सरी कृष्णा टेम्पल, असरामम, कोल्लम, केरल-691002
492	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रास, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु - 560060 कर्नाटक ।
493	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो० - बेल्हार कलां, तहसील मेहडावल, जिला - संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।
494	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली - 57.
495	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
496	भारतीय गांव ताज दल	ग्राम - कुका, पो०ओ० मक्सूदपुर, जिला - कपूरथला, पंजाब ।
497	भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा	47/1, विक्टोरिया रोड, वार्ड नं. 17, डाक, थाना और जिला - दार्जीलिङ, पश्चिम बंगाल. - 734101.
498	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
499	भारतीय हिन्दू सेना	जी-17, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर-5, प्लॉट न.4, सन एण्ड मून टावर के पास, विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302023
500	भारतीय हितरक्षक पार्टी	नं० - 33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, बाबेन, नियर बाबेन प्राथमिक शाला, तालुक - बाराडोली, जिला - सूरत, गुजरात- 394601
501	भारतीय इन्कलाब पार्टी	ग्रा० राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० व थाना - इस्लामपुर, जिला - नालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
502	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
503	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर० टी०ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
504	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील - छाता, जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश)।
505	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
506	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
507	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश)।
508	भारतीय जनचेतना दल	नं.70, एलआईजी इंदिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208026
509	भारतीय जनक्रांति पार्टी	12/17, चक्खुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
510	भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी	ग्राम -पंडित पुर थाना एवं अंचल -पिप्राकोठी, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार - 845429
511	भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी (कांशीराम)	मकान नंबर। 198, पटौदी रोड, आई टी आई के पास, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401.
512	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा - 282010. उत्तर प्रदेश।
513	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद - 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
514	भारतीय किसान रोजनैतिक पार्टी	प्लॉट नं0 04, खसरा नं0 151/01, सेमरा गौड़ी, मडिगांव, सीता रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226021
515	भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक	मकान नं0 -392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
516	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्ट एक्स. कॉलोनी, घोड़-ली वार्ड, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
517	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं0-2, बिल्डिंग नं0-ए.- 212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं0- 1, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
518	भारतीय लोकशक्ति पार्टी	371-5, बेघर वसाहत, मेन रोड मजले, तालुका- हलकजंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416109
519	भारतीय लोकविकास पार्टी	साई कृपा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 404, दैवा भारती अस्पताल के पास, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, जिला. औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
520	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो0- कुकथरी(पिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123

1	2	3
521	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्केडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)।
522	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
523	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
524	भारतीय मुलनिवासी आजाद पार्टी	एट-रूम नंबर-601, बिल्डिंग नंबर-3, एवेन्यू-एच, रूस्तमजी एवरशाइन ग्लोबल सिटी, विरार पश्चिम, जिला-पालघर, महाराष्ट्र- 401303
525	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
526	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं०11, गांधीनगर, गुजरात-382010
527	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
528	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
529	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
530	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरबाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
531	भारतीय परिवर्तन काँग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
532	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
533	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।
534	भारतीय प्रगति पार्टी	C/o चंद्र प्रकाश, गांव और पोस्ट बेलसड, जिला - तापागौर, थाना - पैकोलिया, तहसील - हरैया, बस्ती - 272163 उत्तर प्रदेश ।
535	भारतीय प्रजा ऐक्यता पार्टी	नंबर 01, कोटे स्ट्रीट, वेंकटेश्वर मंदिर के पास, कोडिगेहल्ली एल, सहकारनगर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक -560092

1	2	3
536	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
537	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खांडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
538	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं0 - 23, फ्लैट नं0 - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
539	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
540	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
541	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.
542	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं0 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर- 302 013, राजस्थान
543	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
544	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं0 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्केड, वार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
545	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सर्पा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश) ।
546	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
547	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र) ।
548	भारतीय सभ्यता पार्टी	545क / अव -006, अवन्ती विहार, पुराना पारा थाना, हरदोई रिंग रोड, पोस्ट - राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017.
549	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
550	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
551	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी, पंजाब एंड सिंध बैंक लेन, सिविल लाइंस, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
552	भारतीय समतावादी पार्टी	संख्या 60, भाग संख्या 3, बिजलीनगर, चिंचवाड, पुणे, महाराष्ट्र - 411033.
553	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041

1	2	3
554	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
555	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला -लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
556	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्की, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
557	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33, ई. डब्लू. एस, विश्व बैंक कॉलोनी, ए.डी.ए. नैनी, तहसील-करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212301
558	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	साई ग्रीन सिटी, अटोर रोड, निकट मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017
559	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001
560	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट - नाहर, तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा ।
561	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राहू), पोस्ट- कोटवाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना- सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230136
562	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
563	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003, (उत्तर प्रदेश) ।
564	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश) ।
565	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितबड़ागांव, मकान नं0 - 885ख, वार्ड नं0 -8, इन्दिरा नगर, तहसील - बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
566	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एग्जिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार - 800001
567	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुरिहा, पोस्ट- रूद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रूद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।



1	2	3
568	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो०ओ० रघुनाथपुर, तहसील, वाडरुफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।
569	भारतीय युवा जन एकता पार्टी	261, केसर पैलेस, अबुपर्वत, ता० अबू रोड, जिला - सिरोही, राजस्थान - 307501
570	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वार्ड सं-54, सर्किल सं०-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हारार, पटना, बिहार-800007.
571	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान ।
572	भारतराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं० - 22, सी एस सी-11, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
573	भारतवासी पार्टी	अम्बेडकर नगर पूर्वी, रामकोला रोड, पोस्ट-पडरौना, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274304
574	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र) ।
575	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचाराम ग्राम पंचायत, घाटकेसर-मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
576	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ओ० हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208
577	भारती समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी० जी० आई०, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
578	भारतीय आम आदमी परिवार,	1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी०डी०ए०एल०आई०जी० फ्लैट्स, न्यू कॉडाली, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली-110096
579	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुबन मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार।
580	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
581	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
582	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट-औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
583	भारतीय अनार्य पार्टी	राजवंशी मार्केट बस स्टैंड राजगीर, थाना व पोस्ट-राजगीर, जिला- नालंदा, बिहार- 803116

1	2	3
584	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
585	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 474012
586	भारतीय आरक्षण मुक्ति दल	291, अग्निहोत्र नगर, मकड़ीखेड़ा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017
587	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कॉलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005
588	भारतीय अस्मिता पार्टी	मकान नं0 302, ग्राम-कतबाव, दहगांव रोड, पोस्ट- वाशिंद, तालुका-शाहपुर, महाराष्ट्र- 421602.
589	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौली, जिला- गया, बिहार- 823002
590	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं0-30 (बी0पी020), बेचूपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश । पिन कोड -232 101
591	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
592	भारतीय बहुजन क्रान्ति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 421201
593	भारतीय आईचारा पार्टी	मकान नं0 -61/3, गांव - छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर - 37, परगना व तहसील - दादरी, नोएडा, जनपद - गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
594	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली ।
595	भारतीय छत्रपती सेना	शगुन रो हाउस डी 3, उद्योग भवन के पीछे, अयोध्या नगर, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र - 422103
596	भारतीय चेतना पार्टी	सूरतगंज, वाई नं0 15, थाना नगर, मधुबनी, जिला मधुबनी बिहार- 847211
597	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001 ।
598	भारतीय दलित पार्टी	खाता सं0- 269, मौ0- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार ।
599	भारतीय दमितजन पार्टी	गाँव-गोविन्दपुर, पोस्ट-सिहारा, तहसील-धामपुर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246746.

1	2	3
600	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
601	भारतीय दृष्टिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - मौसंदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
602	भारतीय एकता मंच पार्टी	शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश ।
603	भारतीय गदर पार्टी (एस)	गांव-ओदेरा मठिया, पोस्ट-राऊतमऊ, जिला- आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276406
604	भारतीय गण वार्ता पार्टी	जी-18, ग्राउंड फ्लोर, साँची कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, नियर बोर्ड ऑफिस, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड- 462016
605	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश ।
606	भारतीय गणराज्य पार्टी	मकान नं0 1094, विकास शर्मा बी.टी.आई. रोड, बजाज एजेंसी के बगल में, मोहल्ला बेनी सागर, पन्ना मध्य प्रदेश-488001
607	भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी	रेफरल चिकित्सालय के सामने गुलाबपुरा तहसील हरदा जिला भीलवाड़ा राजस्थान-311021
608	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
609	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी0ओ0 -कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।
610	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं0 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
611	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251314
612	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर – बदलठोर, तहसील – देहरा, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 177105
613	भारतीय हिन्द फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201013
614	भारतीय हिन्द पार्टी	90, ईश्वरी दयाल बिल्डिंग, आर्य समाज रोड, गणेश गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226018
615	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंधौली, तहसील – पुवायॉ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।
616	भारतीय इण्डियन सैकुलर पार्टी	हमदर्द नगर-बी, जमालपुर, माफी, तहसील कोल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001.

1	2	3
617	भारतीय इंसान पार्टी	नं0 - 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली- 110025 ।
618	भारतीय इन्सान रक्षक दल	मकान नंबर 192/17, धरमपुर, गांम-गेवरबस्ती/गेवरा, पोस्ट ऑफिस, कुसमुंजा, वार्ड नं0 60, तहसील, कटघोरा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़-495454
619	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार ।
620	भारतीय जन अधिकार पार्टी	गाँव-भीम,हॉस्पिटल रोड,पोस्ट ऑफिस-भीम,जिला- राजसमन्द
621	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
622	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं0 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
623	भारतीय जन जागरूक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
624	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या - 8 व 9, द्वितीय तल, गौयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
625	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या - 262 घ, सरसर्वो, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
626	भारतीय जन मंच	361, गली नं0 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली -110093 ।
627	भारतीय जन नायक पार्टी	सी-17-18, सेक्टर-15, वसून्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012
628	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्पलेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, दहेगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
629	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
630	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208014
631	भारतीय जन समाधान पार्टी	411, स्पेक्ट्रम, नजदीक यशरीअन, स्वामी विवेकानंद सर्किल, मेम नगर, अहमदाबाद, गुजरात-380052

1	2	3
632	भारतीय जन समाज पार्टी	मोहल्ला ग्राम,अहमदपुर उर्फ कमलापुर परगना,बिजनौर तहसील व विधानसभा,सरोजनी नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226002
633	भारतीय जन सम्मान पार्टी	फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक बी.एच पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैटस, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली-110088
634	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
635	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081,विश्वकर्मा नगर,प्लॉट नं.80,वार्ड नं.14,द्वारकापुरी,रामेश्वरी रोड,राधा मंदिर के पास,पार्वती नगर,नागपुर,महाराष्ट्र-440027
636	भारतीय जन सम्राट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. X-9/10, ओल्ड नं. X-6/12, ग्राम- घोंडा गुजरन खादर, गली नं. 9, X- ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
637	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
638	भारतीय जन स्वराज पार्टी	एम.बी.-156 एस./एफ., मास्टर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
639	भारतीय जन विकास आघाडी	क्रांतीसूर्य नवजीवन नगर,जुना पेडगांव रोड,जिला- परभणी महाराष्ट्र- 431401.
640	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश - 474010
641	भारतीय जनता समाजसेवी पार्टी	हाउस न0 116 आरपीजी/844,वर्तमान म.116/839,रावतपुर-2,कल्यानपुर,कानपुर उत्तर प्रदेश-208019.
642	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
643	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
644	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली - 110042
645	भारतीय जनजागरण गाँधीवादी पार्टी	खाता नं. 112, खेसरा नं. 1196, ग्राम- हसमी, पी.एस- माण्डर, जिला- राँची झारखण्ड- 835214
646	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम - डुन्डुर, पोस्ट - लठेया, थाना - छतरपुर, जिला - पलामू, झारखण्ड - 822116
647	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वार्ड नं. 14, शिव नगर, नियर शिव मंदिर, हिसार, हरियाणा-125001

1	2	3
648	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं0 - 2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो0 - इज्जत नगर, जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
649	भारतीय जनसमूह दल	म.नं.-55/35,सी.वाई. चिंतामणि रोड,जॉर्ज टाउन,प्रयागराज,उत्तर प्रदेश - 211002
650	भारतीय जनसेवा कांग्रेस	कोठी नं. 768, वार्ड नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, झज्जर, हरियाणा- 124103
651	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
652	भारतीय जनता दल (इंटिग्रेटिड)	मकान नं0-62, गली नं0-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084 ।
653	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677
654	भारतीय जनतंत्र मोर्चा	खाता नम्बर-80, प्लॉट नम्बर-528, ग्राम-सिंदरौल, थाना- नामकुम, युगान्तर भारती परिसर, जिला-रांची, झारखण्ड- 834002
655	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र वन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
656	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001, बिहार ।
657	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम- चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, वाया- बगरू, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
658	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212402 ।
659	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
660	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं0 600, वार्ड नं0 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
661	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
662	भारतीय किसान पार्टी (सेक्युलर)	ग्राम-वियारा, अंचल-भगोडीयाँ, जिला-बडौदा, गुजरात- 391760
663	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी	मकान नं. 332एफ, वृन्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115
664	भारतीय किसान विकास पार्टी	ग्राम अमराई, पोस्ट लक्खारामपुर, विश्वेश्वरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
665	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार-802164.
666	भारतीय क्रांतिसंघ पार्टी	नं0 19/ जी-1, बृजेश्वरी एनेक्स, कनाडिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश -452016.
667	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश ।
668	भारतीय लोक चेतना पार्टी	जानकी निवास, ब्रह्मपुर, पोस्ट व थाना- फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, बिहार-811505
669	भारतीय लोक नायक पार्टी	ग्राम- नौवापाली, पोस्ट-चकरा, जिला सिवान, बिहार- 841226
670	भारतीय लोक सत्ता पार्टी	गली नं.6, वार्ड नं.47, गडोरा का पुरा, जिला-मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
671	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
672	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता0- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
673	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि0प0 प्राथमिक शाळे समोर, डी0पी0 भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता0 कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415501
674	भारतीय लोकवाणी पार्टी	प्लॉट नं0 6, ए ब्लॉक, एमिटी ग्रीन कॉलोनी, हासेमऊ, पोस्ट-लौलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
675	भारतीय महासंघ पार्टी	नं0 के-2413, नगर पालिका रोड, रोसड़ा समस्तीपुर, बिहार- 848210
676	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.
677	भारतीय मजबूत पार्टी	ग्राम व पोस्ट-तिगरी, ब्लॉक-गजरौला, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244235
678	भारतीय मल्लराष्ट्र पार्टी	333, ओ लच्छीपुर भाटी विहार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273007
679	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
680	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव व पोस्ट- ओड़ना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146.
681	भारतीय मानवता पार्टी	श्रीरामपुर टोला (बिहटा), पो.+थाना-बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103

1	2	3
682	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007.
683	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होल्डिंग सं0 -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
684	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001. (पंजाब)।
685	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13,न्यू केतन सोसाइटी,नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ,भ.भाग्योदय सोसाइटी,नरोदा,अहमदाबाद,गुजरात- 382325
686	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
687	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं0-4,सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014,महाराष्ट्र ।
688	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
689	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसराँव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार-841408
690	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम – सरबसी, पोस्ट – बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला – गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406 ।
691	भारतीय पंचायत पार्टी	डी – 15/674, गली नं0 – 5, गणेश नगर-2, शंकरपुर, दिल्ली – 110092
692	भारतीय पंचायती राज पार्टी (लोकतांत्रिक)	बी-247,तीसरी मंजिल,प्रियदर्शनी विहार दिल्ली- 110092.
693	भारतीय पंचशील पार्टी	बी-71,इंदिरी नगर,रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229001
694	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान – 332713
695	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
696	भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी	554 सी/118, दामोदर नगर, नियर राज चंद्र अस्पताल, वीआईपी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226005.
697	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.
698	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।
699	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं0 -1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान – 305001



1	2	3
700	भारतीय रणवीर पार्टी	एस -498,भूतल,स्कूल ब्लॉक,शकरपुर,दिल्ली-110092
701	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14,खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
702	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
703	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल	10/10,मोहल्ला कैतवाड़ा,निकट अम्बेडकर चौक,जवालापुर,जिला हरिद्वार,उत्तराखंड - 249407
704	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 ।
705	भारतीय राष्ट्रीय जगसेवा पार्टी	यूनिट नंबर 208,दूसरी मंजिल,सनराइज टॉवर,शिव मार्केट,वजीरपुर,अशोक विहार,दिल्ली-110052
706	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
707	भारतीय राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी	प्लॉट नं०. 2, गली नं० - 2, चौहान पट्टी, निकट मंगल बाजार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
708	भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी	एन. 502,मधुवन ग्लोरी,सेन्टमेरी स्कूल के नजदीक,नरोडा,अहमदाबाद,गुजरात-382330
709	भारतीय रिफ्लेक्शन पार्टी	एल.आई.जी.-11- जी,पाकेट ए-2,,मयूर विहार,फेज-3,दिल्ली-110096
710	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम - महुआरी, पो० जंगीगंज, जिला - सं० र० न० भदोही, उत्तर प्रदेश ।
711	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रो पिलर नं०-141, जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली-110025 ।
712	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
713	भारतीय सबलोग पार्टी	मौजा दीघा,राजीव नगर,रोड सं० 25 ई,पो०- केसरीनगर,थाना-फूलवारी,पटना बिहार-800024
714	भारतीय साक्षर पार्टी	खसरा न.78/4,धरमपुरा अटल बिहारी बाजपाई वार्ड नो.38,जगदलपुर, तहसील जगदलपुर,जिला बस्तर,छत्तीसगढ़-490001.
715	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं० - 1, ग्राम - वनुपुर पुख्ता, पोस्ट - मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश ।
716	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990
717	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
718	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव व डाकखाना - सेरसा, तहसील व जिला - सोनीपत, हरियाणा ।
719	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887
720	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल, पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
721	भारतीय समानता पार्टी	चित्रकूट धाम, तीसरी मंजिल, 60-बी, पनकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017.
722	भारतीय समृद्धि कल्याण पार्टी	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गोयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071.
723	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
724	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो0 - तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.
725	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं. 4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून रोड, सांगवान, बुलढाणा, महाराष्ट्र- 443001
726	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम व पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
727	भारतीय संयुक्त किसान पार्टी	भुसाही बाजार, यादव मार्केट, कमले बलिया, भुसाही, बोछहा, मुजफ्फरपुर बिहार- 843103
728	भारतीय सार्थक पार्टी	शिवशंकर पथ, मिठनपुरा, पोस्ट-रमना, थाना- मिठनपुरा, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842002
729	भारतीय सर्वधर्म पार्टी	विलास मार्केट, शॉप नं. 5, खदरी, थाना, माडियाँव, सीतापुर रोड, लखनऊ 226013
730	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
731	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला- देवरिया- 274202, उत्तर प्रदेश।
732	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून- 248001, उत्तराखण्ड ।
733	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
734	भारतीय सेवक पार्टी	उत्तराखण्ड ग्रामिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट), हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247662
735	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वार्ड नं० 18, ग्राम - खामदार, पो० मोउ, तहसील-व्यौहारी, जिला - शहडोल, मध्य प्रदेश

1	2	3
736	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
737	भारतीय सुवर्णयुग पार्टी	कार्यालय ऐ/33, कैपिटल कॉमर्सियल सेंटर, निकट संन्यास आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात-380009
738	भारतीय स्वदेशी कांग्रेस	12/303, मैक्स सिटी पार्क सफायर, रामप्रस्था ग्रीन्स, सेक्टर-9, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010.
739	भारतीय स्वराज जन सेवा संगठन	एच. नं. 647, कल्याणपुर माजरा, खेलिया कल्याणपुर, पी.एस. - अहमदगढ़, तहसील - शिकारपुर, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203391.
740	भारतीय स्वराज्य क्रांती पार्टी	तूमबोलीनगर, कसबा-बावडा जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-431124.
741	भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी	40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश-457001
742	भारतीय स्वतन्त्र पंच पार्टी	नोरगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग, पोस्ट-कोनी, नोहरू चौक खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश-272175
743	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए बिनौली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
744	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- वालिया, जिला- भरूच, गुजरात
745	भारतीय उदय निर्माण पार्टी	एच. नंबर-431/955एन, वार्ड गंज (132), नेवती टोला, एलाफ पैलेस के पास, मोमिन नगर, कैम्पवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226003
746	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम - भुड़िया (फगुहा), तह० व जिला - कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
747	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुड़ासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
748	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
749	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामुर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।
750	भारतीय विकास दल यूनाईटेड	मकान नं. एसएम.011-0425, ग्राम- छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छतौनी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार- 845401
751	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो० - दुगरेई, जिला - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
752	भारतीय योजना रायथु पार्टी	डी.न०.27-1-148/H, अत्ताराताय स्ट्रीट, नियर चल्लापल्ली बंगला गवर्नर पेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-520002.
753	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी	मकान सं.-63, रामपुर रोड, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139
754	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
755	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
756	भारतीय युवा पार्टी	एवरशाइन आपार्टमेंट जलाराम सोसायटी के निकट, रॉयल पार्क के सामने, पार्क एवेन्यू के निकट, जानागढ़, गुजरात- 362001
757	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
758	भारतीय युवा सेना	मकान नं० - 1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक - धारूर, जिला - बीड, महाराष्ट्र - 431124 ।
759	भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला - नारायणपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206122
760	भारतीय मानवता निर्माण पार्टी	लाला लाजपत नगर, पोस्ट-पुण्डाग, थाना- जगन्नाथपुर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834004.
761	भीम ट्राइबल कॉंग्रेस	14-ई/जे/804, मारवाड अपार्टमेंट, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान- 342008
762	भीम सेना	स्वराज नगर, स्वराज अपार्टमेंट, 66/7/बी-134/102, मानेवाड़ा, रिंग रोड, नागपुर-440024
763	भोजपुरिया जन मोर्चा	सहयोगी नगर, पोस्ट -बहिरो, थाना + जिला भोजपुर, आरा, बिहार-802301
764	अष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
765	अष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानगलोई), दिल्ली-110041
766	अष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गड़रिया मोहाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
767	भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी	ग्राम-इटाहर, पावर हाउस गेट के पास, पोस्ट-इटाहार, पुलिस स्टेशन-इटाहार जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल-733128

1	2	3
768	भूमिसन्तान अधिकार पार्टी	ग्राम-तलूक रानाघाट,पो.-पूर्व रानाघाट,थाना-मथुरापुर,जिला-दक्षिण24 परगना पश्चिम बंगाल-743338
769	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
770	बिहार जस्टिस पार्टी	प्लॉट नम्बर 2251,यदुवंशी नगर दीघा,आशियाना रोड,पटना बिहार-800011
771	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोला, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
772	बिजु स्वाभिमान दल	प्लॉट नं0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कर्लिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओडिसा - 755020
773	बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत - श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ. -मधुपटना, कटक - 10 (उडिसा) ।
774	ब्यू इंडिया पार्टी	मकान नंबर 2-8, गांव और मंडल-बचुपल्ली, जिला- मेडचल, मल्काजगिरी, तेलंगाना-500090
775	बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
776	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं0 - 698, ग्राम - अर्नियावाली, तहसील - नत्थुसारी चोपटा, जिला - सिरसा, हरियाणा - 125055
777	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट - बेसवां, ग्राम पंचायत - नयाबाँस, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202145
778	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस - II, आगरा - 286002, उत्तर प्रदेश ।
779	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
780	ब्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा - 5, उत्तर प्रदेश ।
781	ब्रहत भारतीय कल्याण पक्ष	2484/एफ, एईसीएस लेआउट, कूडलू, एईसीएस लेआउट, ए-ब्लॉक, बैंगलोर, कर्नाटक- 560068
782	बुलंद भारत पार्टी	दुकान नंबर 8, पहली मंजिल, एस.सी.ओ.नंबर-84-85, सेक्टर-16, सागर सिनेमा के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

1	2	3
783	बुन्देलखण्ड काँग्रेस	56, ज्वाला हेडी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली - 110063.
784	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
785	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210426
786	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काउलबाजार, बेल्लारी, कर्नाटक - 583102 ।
787	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्रांड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
788	चेन्नई यूथ पार्टी	एच नं0 2595, टी.एन.एच.बी., अयप्पक्कम, प्रथम तल, चेन्नई, तमिलनाडु- 600077
789	छात्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी	ग्राम-फतेहपुर (खौदा), पोस्ट-कटोना, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221208
790	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
791	छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी	एलआईजी 76, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन-492007
792	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला - दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
793	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ - 497001
794	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
795	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि० - दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।
796	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ - 497447
797	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फ्लाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
798	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर - 492001. (छत्तीसगढ़)।
799	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०नं०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ - 495450

1	2	3
800	छावा दल	सर्वे नं0 11-2, प्लॉट नं0 01, सीताराम नगरी, मल्हारवाडी, पोस्ट-हिंगोली, तालुका - हिंगोली, जिला-हिंगोली, महाराष्ट्र- 431513.
801	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई - (तमिलनाडु) ।
802	सिटिजन एक्सन पार्टी-सिक्किम	पार्टी प्रमुख क्यूटीआर, लोअर लुम्से, एडमपूल से रेष्टिथाग रोड, गंगटोक, सिक्किम-737128
803	सिटिज़न पार्टी	मकान. नं. 53, सर्वे नं. - 620, बजनाईकोइल स्ट्रीट, मधननकुप्पम, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099.
804	सिविल राईट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्राउड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजोत इन्कलेव, खरड एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
805	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुन्नुकुड्डी, त्रिवेन्द्रम - 695037, (केरल) ।
806	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059 ।
807	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना (मार्क्सिस्ट-अंबेडकरिस्ट) सीपीटी(एमए)	मं. नं0-2-2- 1106/बी/एसबीके1, शान्तिनगर, अम्बरपेट, हैदराबाद- 500013
808	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन - 16 (केरल) ।
809	करप्शन एबोलिशन पार्टी	मकान नं0 - 219, गाँव व डाकखाना - शेरिया, तहसील - बेरी, जिला - झज्जर, हरियाणा
810	कण्ट्री सिटीजन पार्टी	#5, 'पद्मावती' माराम्मा मंदिर के पीछे, चिक्कालासंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560061.
811	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा विस्टा, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072
812	दलित कान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट - धौलीपाल, तहसील व जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान) ।
813	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017.
814	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205
815	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट - घुनवारा, तहसील -मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।

1	2	3
816	दलित बहुजन पार्टी	म.स. 1-7-186/303, श्रीनिवास निलयम चैतन्यपुरी,दिलसुखनगर, हैदराबाद- 500060
817	दिल्ली जनता पार्टी	वाई - 200, कैप नं0-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
818	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं0-7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।
819	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड़, अमृतसर (पंजाब) ।
820	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट	2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004
821	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारामूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
822	डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	डोर न0.3/78, पी.ओ-एलामकुन्नपुझा, ज़िला- एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल- 682511
823	डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स	नंबर 6, राजावेलु स्ट्रीट, एरुक्कनचेरी, चेन्नई- 600118, तमिलनाडु
824	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ सोसिओ-इकॉनॉमिक ट्रांसफोरमेशन ऑफ इंडिया पार्टी	प्लॉट नंबर -749, बेसमेंट, सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा- 122011
825	डेमोक्रेटिक ऑरगनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	मन्नारायथु, थेक्केथिल वीतिल, पल्लीसेरीकल, पोस्ट - सष्ठमकोट्टा, कोल्लम, केरल- 690521.
826	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर - 17, (महाराष्ट्र) ।
827	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला - ताजपुरा, राहों, तहसील - नवांशहर, जिला - शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
828	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक - 571105
829	डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी	राष्ट्रीय उच्च सोनवार, अमर सिंह क्लब के सामने, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर- 190001
830	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर - 24, महाराष्ट्र ।
831	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए.140, नीराझी लैन (नं.7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ऑ-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
832	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।



1	2	3
833	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना - घोला, जिला - उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700131
834	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ - सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308
835	देस मक्कल मुनेट्र कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया), तालुक एवं जिला- विरुधूनगर, तमिलनाडु - 626005
836	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर - नेमॉम, तिरुवनन्तपुरम - 695020, केरल ।
837	देश बचाओ जन मोर्चा	डी - 6/171, सेक्टर - 31, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) ।
838	देश बचाओ पार्टी	223/ए, केवलपुरी, अहिल्याबाई रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
839	देश हित पार्टी	प्लॉट नं० - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
840	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को० हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं० - 4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर - 30 महाराष्ट्र ।
841	देश प्रेम पार्टी	वार्ड नंबर-19, (पुराना वार्ड नंबर-17), दरवाजा नंबर 143(2), विपक्ष पुराना के. एस.आर.टी.सी बस स्टैंड, कोलाचलम कंपाउंड, जनताकल कॉम्प्लेक्स बल्लारी, कर्नाटक- 583101
842	देश सेवा पार्टी	नं. ए-2, अधाना भवन, ग्राम- मोरना, सेक्टर- 35, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201303.
843	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
844	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं. 466/90, तहसील नं. 198, आनंद विहार, सर्वहल, हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा, जिला- झारसुगुडा, ओडिशा-768201
845	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो० - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
846	देशभक्त जगत पार्टी	638/111, चेतना विहार, सेक्टर-14, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016.

1	2	3
847	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर बारहगाँवा,पोस्ट व तहसील - मधुबन,जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश
848	देशी किसान पार्टी	मकान सं0 - 1624, वार्ड सं0 - 52, लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
849	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
850	देसिया जननयागा काची	डी. नं. 4/133ई, अन्ना नगर, रेड्डीपट्टी पोस्ट, नमक्कल जिला, तमिलनाडु-637002
851	देसिया मक्कल पेरियक्कम	प्लाट नं. 19, के.के. नगर,नन्निलम 61010,नन्निलम-पोस्ट,तिरुवारूर,जिला तमिलनाडु- 610105.
852	देसिया मक्कल शक्ति काँची	न्यू न - 21, ओल्ड नं0 - 11,वैक्टरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079
853	देसिया सिरुपनमयिनर मक्कल इयक्कम	एस जॉन, नं. 7, पवुन्जुर, मेन रोड, कीरल्लादी- गांव, पुलियारानन कॉट्टुड़, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर- पोस्ट, मदुरंताकम- तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311
854	देशिया उझवर उझड़पलर कझगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीपट्टु गांव, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
855	धनवान भारत पार्टी	फ्लैट नं. 002, डी विंग, श्री गणेश सी.एच.एस., शांति विद्यानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 401107
856	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
857	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं0 7, शुभारम्भ फेस - 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।
858	धर्म समाज पार्टी	डोर नं. 8-17-90 / बी42, नन्दनवनम, कर्मनघाट विलेज, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना- 500079.
859	धरतीपुत्र विकास पार्टी	29,विद्युत अभियन्ता कॉलोनी,मालवीय नगर,जयपुर,राजस्थान-302017
860	देशिया एलिया मक्कल नालाकाची	संख्या- 8 / 166,मारुथम्पट्टी कॉलोनी,कठालपट्टी (पीओ) करूर,तमिलनाडु- 639007.
861	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं0 - 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेडुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला - सलेम, तमिलनाडु - 636455

1	2	3
862	धू सेना	25/549,श्री शीतला माता मंदिर मार्ग,नवभारत चौक के पास,पुरानीबस्ती,रायपुर,छत्तीसगढ़-492001
863	डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	वार्ड नं. 25,मालमत्ता क्रमांक 35,प्लॉट नं. 3776,मोतीनगर पुसद,तालुका- पुसद,जिला- यवतमाल,महाराष्ट्र- 445204
864	दिविजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560040
865	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना - आसन, तहसील व जिला - रोहतक, हरियाणा
866	डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी	नं0 9 और 10, ब्लॉक - डी, सेक्टर - सी, गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
867	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं0 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु ।
868	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26 कर्नाटक
869	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कतैअहन चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक ।
870	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश ।
871	डॉ. एमजीआर डेमोक्रेटिक पार्टी	नया नंबर 2 और पुराना नंबर 2/75, पडवेट्टम्मन कोयिल स्ट्रीच, शेनबाक्कम, वैल्लोर-632008
872	द्रविड जननायगा मक्कल काची	नंबर-6, इम्मानुएल 2 <sup>nd</sup> क्रॉस स्ट्रीट, पल्लिकरानी, चेन्नई, तमिल नाडु- 600100
873	द्रविड जनशक्ति पार्टी	नंबर 4 / 87, ओथावीडु, अलीनगरम (पी.ओ.), थिरुप्पुवनम, शिवगंगई जिला, तमिल नाडु -630611
874	द्रविड मक्कल पाथुकप्पु कझगम	नंबर 2, पहली लेन, पी.वी.कोविल स्ट्रीट, रायपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600013
875	द्रविड मुरपोक्कु मक्कल काची	कार्यालय नं0 5/762, सबरई रोड, मडिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
876	द्रविड पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी - 605001.
877	डुगर प्रदेश पार्टी	ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लिक्स, जानीपुर जम्मू - 180007, जम्मू और कश्मीर ।
878	एकम सनातन भारत दल	20 बी/बी, गांधी नगर, जम्मू-180004

1	2	3
879	एकजुट अधिकार पार्टी	सी- 1037/2,इंदिरा नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226016
880	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251001.
881	एकता निर्माण नेशनल पार्टी	नियर दुर्गा माता मंदिर,41-बी वदना नगर तिलक नगर,इंदौर,मध्य प्रदेश-452018
882	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली - 110006.
883	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पो०-भैनी खुर्द, तहसील - नीलोखेडी, जिला - करनाल, हरियाणा।
884	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ, सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
885	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
886	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हूसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला - मंड्या, कर्नाटक- 571403
887	इक्वालिटी पार्टी ऑफ इंडिया	मिथुनम, 15/818/81ए, भद्रा नगर, उलियाकोविल (P.O), कोल्लम, केरल - 691019.
888	एज़हुची तमिझारगल मुनेत्र कझगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु - 625107
889	फौजी जनता पार्टी	मकान नं०-104, गाँव - मनोबास, डाकखाना - बराल, तहसील - सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
890	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, वाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103
891	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोड़वा, पोस्ट - मदैनिया, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224147
892	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मिर्तल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।
893	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
894	फ्रीडम पार्टी	एफ-2/260, टॉप फ्लोर, सुंदर नगरी, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093

1	2	3
895	फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओड़िसा - 751030
896	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर - 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर ।
897	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दूगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
898	गद्दार प्रजा पार्टी	प्लॉट नं. 26, मकान नं. 1-23-125/1, मदेवी नगर, मंडल, अलवल, पोस्ट-थिरुमालागिरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500015
899	गणा सुरक्षा पार्टी	ग्राम-दिघलीपुर, तमूलपुर, थाना-तमुलपुर सब डिविजन-बक्सा, जिला-बक्शा असम- 781367.
900	गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001
901	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
902	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम-सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना - भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार ।
903	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी - 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016, उत्तर प्रदेश ।
904	गणतांत्रिक जनहित पार्टी	द्वारा वेदवती देवी, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुँआ, पटना बिहार-800003
905	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059
906	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड - 12, होल्डिंग संख्या - 747/642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
907	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701
908	गरीब समाज स्वराज पार्टी	शाहपुर तिगरी, पोस्ट और थाना- मझोला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
909	गरीब सामना पार्टी	म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर - 231001 उत्तर प्रदेश ।
910	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ऑ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402

1	2	3
911	गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी	132 बृंद लामर मैदान, गुर्जर बस्ती, दा देवसर, कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर-192231
912	गरीब एकता पार्टी	ए-71 ग्रुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली - 110052.
913	गरीब जनशक्ति पार्टी	कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होल्डिंग नंबर -17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट ढलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
914	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
915	गरीब कल्याण पार्टी	नं.-सी/ 268, शाप नं.-2, प्रभाकर टेन्ट, नियर सेजल नगर सो., नियर जी.डी.हाई स्कूल, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
916	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
917	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
918	गरवी गुजरात पार्टी	नं. 112, घीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016
919	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी बंगाल - 741245
920	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 442, चिंचमाला, वाडा पार्ये, सत्तारी, गोवा - 403505।
921	गोवा प्रजा पार्टी	क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं0 - 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाड़ी, नॉर्थ गोवा, गोवा - 403402
922	गोवा सु-राज पार्टी	383 - ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
923	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं0 - 644/1, वार्ड नं0 - 4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरें, पोंडा-गोवा ।
924	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरवोरिम, गोवा - 403507.
925	गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो	मकान नं0 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ ।
926	गोयंचो स्वाभिमान पार्टी	घ.क्र.12/678, सेंट जोकिम चॅपल के पीछे, मडगांव, गोवा- 403601
927	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वैक्टरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018

1	2	3
928	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेर्थ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
929	गोंडवाना काँग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
930	गोंडवाना दंडकारण्य पार्टी	H.No.4-4-24/2/308/8/1, ग्रीन किराना शाप के पास, रिकशा कॉलोनी के बगल में, संजय नगर, आदलाबाद, तेलंगाना राज्य-504001
931	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल-462021, मध्य प्रदेश।
932	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डॉ० जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)।
933	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
934	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.बी. रोड, पोस्ट-धूम, थाना -जोरबंगला, जिला - दारजीलिंग, पश्चिम बंगाल।
935	ग्रेजुएट इंडिया पार्टी	नंबर 443, काथा नंबर 1200, एजीबी लेआउट, बीबीएमपी वार्ड नंबर 12, चिक्कासंद्रा, बैंगलोर, कर्नाटक - 560090.
936	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम विहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा-122017
937	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्टूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
938	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
939	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
940	गुजरात किसान मजदूर लोकशासन पार्टी	710/32, ग्रीन सिटी, गली नंबर 5, लालपुर रोड, जामनगर, गुजरात- 361005.
941	गुजरात क्रांतिकारी पार्टी	दुकान नंबर 1, मधुर कॉम्प्लेक्स, बडगाम, डाकघर, वडगाम, बस स्टैंड के पास, जिला- बनावसकांठा गुजरात-385421
942	गुजरात लोकतंत्र पार्टी	बी-2, सहकार विकास फ्लैट्स मोना नगर के सामने, नेहरु नगर, एस एम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380015

1	2	3
943	गुजरात नव निर्माण सेना	C-19, जयराज फ्लैट, सोनी नी चली, ओधव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
944	गुजरात सर्व समाज पार्टी	प्लॉट नंबर-20, सर्वे नंबर-133/3, निर्मल नगर, किदानी, तहसील-गांधीधाम, जिला-कच्छ, गुजरात-370205
945	गुंज सत्या नी जनता पार्टी	कार्यालय संख्या सी/442, सुमेल - 7, सोनी नी चावल क्रॉस रोड, एन एच नं० 8, रखियाल, अहमदाबाद - 380023
946	गुड़गाँवा रिसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुड़गाँव -122 002, हरियाणा।
947	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरूणा नगर, मजनू का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054
948	गुरुचंद सेना दल	106, पुरवा पनाचन्ना, ग्राम साउथ, पोस्ट-वी.आई.पी. नगर, पी.एस.-अनंदापुर, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700100
949	हाकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खाँ, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला - सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302।
950	हमर राज पार्टी	के-19, गोमती इण्डस्ट्री के सामने, लक्ष्मी नगर. रायपुर, छत्तीसगढ़ -492001
951	हमारा काम धन्धा और बेरोजगार पार्टी	म0न0.652, इरेगा प्रोजेक्ट, पोस्ट-रालेगन सिद्धि, स्वराज हिन्द ट्रस्ट रोड, ताल-पारनेर, डिस्ट्रिक्ट-अहमदनगर, महाराष्ट्र-414302.
952	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट - मसौदा, थाना - पालीगंज, जिला - पटना, बिहार - 801110
953	हमारा सही विकल्प पार्टी	फ्लैट नंबर 303, के.एच। क्रमांक 167, लाल झोरा, ग्राम-कापसहेडा नई दिल्ली-110034
954	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी विहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047
955	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
956	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर-गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
957	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130
958	हमरो सिक्किम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर मरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिक्किम, सिक्किम - 737135
959	हक इंसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
960	हरदम मानवतावादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पट्टाभिपुरम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006



1	2	3
961	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622
962	हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 549, मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, हरियाणा- 134003
963	हरियाणा डेवलपमेंट पार्टी	नं0 2079, सेक्टर-4, (नियर कम्युनिटी सेंटर), रेवाड़ी, हरियाणा-123401
964	हरियाणा हितकारी दल	गाँव-ब्राहमण माजरा, पोस्ट -भदौर, तहसील-पानीपत, जिला - पानीपत हरियाणा- 132103
965	हरियाणा इंसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
966	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं0 - 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा - 134003
967	हरियाणा जन सेवक पार्टी	32ए/34, आशीष कूटीर, नीयर शिव पार्क, जनता कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001
968	हरियाणा जनहित विकास पार्टी	531ए, सैक्टर-4, रोहतक, हरियाणा- 124001
969	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
970	हरियाणा जनसेना पार्टी	मकान नंबर 633, भूतल, न्यू जनता कॉलोनी, ऑपोजिट सारण थाना, फरीदाबाद, हरियाणा-121005
971	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाड़वा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
972	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं0-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
973	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001. हरियाणा ।
974	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
975	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।
976	हेल्पिंग हैंड पार्टी	बी - 203, श्री राम हाइट्स, समोर रेजीडेंसी, टोल टैक्स मुठिया के पास, नरोदा, अहमदाबाद - 382330, गुजरात
977	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, वार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176215
978	हिमाचल जनता पार्टी	पवन कटोच C/o उर्मिला देवी, 88, महाल विहार, मं नं. 248 गाँव बण्ड विहार, डाकघर दियोग्रा, तहसील पालमपुर, जिला-काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176061.

1	2	3
979	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।
980	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी0 टी0 रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
981	हिन्द हितैषी हिन्द मां सेना	1-विराट नगर,सावन पार्क,परशुराम चौक,फेज़-II,कनाल बाईपास,मॉडल टाउन,नियर होटल विराट पैलेस,पानीपत,हरियाणा-132103
982	हिंद जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
983	हिन्द जन स्वराज पार्टी	ग्राम-किशनपुर,पोस्ट-बेनीपुर,पुलिस स्टेशन-बहेडा,ज़िला-दरभंगा,बिहार-847208
984	हिन्द समर्पित पार्टी	156,शाहबिसवा जलालपुर,रघुनाथपुर,मुरादनगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश- 201206.
985	हिन्द समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगांव, हरियाणा-122002
986	हिन्द साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, वाल्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
987	हिन्द यूनाईटेड मोर्चा	नंबर जे-1, शिवालिक टावर्स,शिवालिक सिटी, सेक्टर-27, खरार, एस.ए.एस. नगर, पंजाब-140301
988	हिन्द विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद ( उत्तर प्रदेश) ।
989	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
990	हिन्दु समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुर्शिदाबाद,लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
991	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं० 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी० चण्डीगढ़ - 160047
992	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
993	हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी	महेश प्रसाद मंडल,गाँव-झिटकी,पोस्ट-हिसार,थना नंबर-32,ब्लॉक-हरलाकी,बजरंग बाजार झिटकी,जिला-मधुबनी बिहार-847230
994	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं० - 1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182 ।

1	2	3
995	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद ( महाराष्ट्र ) ।
996	हिन्दुस्तान जनता पार्टी सेक्युलर	ग्राम गरौना, डाकघर-सिरसविरण, थाना लालगंज, जिला वैशाली, बिहार-844123
997	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला - मेवात (नूँह), हरियाणा ।
998	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
999	हिन्दुस्तान पीपल्स पार्टी	एच. न. 57, (स्काई सदाम) प्लॉट न. 34/392/बी/8/सी, ग्राम-पालबागन, वार्ड-4, मिहिजाम जामताड़ा झारखण्ड - 815354.
1000	हिंदुस्तान राष्ट्रीय पार्टी	डोर नं. 64-8/1/1, रूघवनगर, पटमाता लंका, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1001	हिन्दुस्तान समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जगदीशपुर, डीह- रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229310.
1002	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम - सेन्दूआरी पुरुषोत्तम वार्ड नं. 8, पोस्ट-बखरी, थाना+अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार - 843111
1003	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म0 नं0 - 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
1004	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र
1005	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाड़ी नाका बहार भुज, तहीसल-भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
1006	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं. 438, ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
1007	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार ।
1008	हिंदुस्तान जिंदाबाद पार्टी	नंबर सी-33, हरि कृष्णा पार्क, कैडिला रोड, घोडेसेयर क्रॉसिंग पास, अहमदाबाद, गुजरात -380050
1009	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं0 नं0 - 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001
1010	हिन्दुस्तानी अवाम मंच (युनाईटेड)	मौ. ग्राम-दखनेर, पोस्ट- परैया, थाना-परैया, जिला- गया, बिहार- 824209
1011	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना - रामपुर, जिला - गया, बिहार - 823001

1	2	3
1012	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं.102,ग्राम-रमदत्तपुर,पोस्ट- पाण्डेयपुर,थाना-कैण्ट,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221007
1013	हिंदुस्थान जनसेवा पक्ष	33,अण्णाभऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.),मुंबई,महाराष्ट्र-400084
1014	हिन्दुस्थान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली न० 5, कृष्णा नगर,सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।
1015	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7,कामोठे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र ।
1016	हिन्दवी स्वराज्य दल	नं. 167,अम्बिकानगर,भचाऊ-7,तालुका-भचाऊ,जिला-कच्छ गुजरात- 370140
1017	हाईटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।
1018	हमार पिपुल्स कन्वेन्शन	द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56,बावंगकाउन चिमवेंग एजल- 796014, मिजोरम ।
1019	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बाशीं रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1020	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212,खसरा नं.15/21,रशीद नगर,नाल साहब रोड,नागपुर,महाराष्ट्र-440018
1021	हम किसान पार्टी	मकान नं० - 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड न० - 1, हरमु, राँची, झारखण्ड - 834002
1022	हम लोग पार्टी	803-बी, बेवर्ली पार्क 1, एमजी रोड 1, एमजी रोड डीएलएफ फेज़-2, सेक्टर-25, चकरपुर (74), गुडगांव, हरियाणा-122002
1023	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश - 222136
1024	हयूमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं.2/42,वूसिपल्ली गांव,थेनेपल्ली पोस्ट,वेपनपल्ली पंचायती,पूतलपट्टू मंडल,चित्तूर-जिला,आन्ध्र प्रदेश-517124
1025	हयूमैनिटी फॉर पीस पार्टी	1- ए,ए.आर.रहमन नगर,जेएमएस कंपाउंड,क.न.विल्कू,औदित्तित तालुक,थेनी जिला,तमिलनाडु-625512
1026	हूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन पार्टी	c/o शमिक बनर्जी,# होलडिंग नं. 84/1,इंदा रबिन्द्रापल्ली,वार्ड नं.-02,प्रातिक क्लब के पास,खडगपुर,जिला-पश्चिम मेदिनीपुर,पश्चिम बंगाल- 721305

1	2	3
1027	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुसुलम, चेन्नई, तमिलनाडु-600043
1028	इन्डिपेंडेंट इन्डियन काँग्रेस	मु0 पो0 पिंपलगांव तर्फे महालुंगे, ता0 आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410503
1029	इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट फ्रंट	89 सथनगडू विलेज स्ट्रीट, सथनगडू तिरुवोत्तरियुर, तमिलनाडु-606104
1030	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं0 - 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1031	इन्धिया कुडियारासु काचची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
1032	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं0 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला-चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
1033	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची	द्वार सं0 15/1, वार्ड नं0 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
1034	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एलएससी, सविता विहार, दिल्ली-110092
1035	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
1036	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
1037	इंडिया मानुस पार्टी	प्लॉट नंबर 2308, खतियान नंबर 1505. विला. और पोस्ट तलबंगुरुआ। मेहर अली टोला, पी.एस.-हरिश्चंद्रपुर, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल-732125
1038	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
1039	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
1040	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं.- 129, ग्राम व पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
1041	भारत सुराज्य पार्टी	नं0 48, चोला स्ट्रीट, प्रकाश नगर, अंबात्तुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600053
1042	इंडियन पीपल एसोसियेशन पार्टी	2-74, गांव- वैकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल- वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311

1	2	3
1043	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं०-1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
1044	इंडियन एलाऐंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
1045	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश ) ।
1046	इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी)	पुराना एच.नं.केंद्रीय कार्यालय 8-3-168, फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, भानु टावर्स, ईएसआई अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, एस.आर.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500038
1047	इंडियन बिजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008
1048	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैल्नकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु ।
1049	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश ।
1050	इंडियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट- अभिनवा बिदानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।
1051	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव - बाबू शंकर नगर, मौजा - भालुकसुंदी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट - अलीगढ़, थाना - राजनगर, जिला - वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130 ।
1052	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054 ।
1053	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपड़ा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
1054	इंडियन गाँधीयन पार्टी	कुरियाकोट्ट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर श्रीसूर जनपद, केरल - 680 509
1055	इंडियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
1056	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीबीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कोविल रोड, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695001
1057	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला - फरीदकोट, पंजाब ।
1058	इंडियन लेबर पार्टी ( आंबेडकर फुले)	डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004

1	2	3
1059	इंडियन लवर्स पार्टी	नं0 - 23, बी - ब्लॉक, द्वितीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1060	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं0-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी0 नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
1061	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
1062	इंडियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी,	डी0 नं0 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद- 500008, आन्ध्र प्रदेश ।
1063	इंडियन मुवमेन्ट पार्टी	65, मनतप्पाविलेज, बन्नरेगाटारोड, जिगानी हुबली, अनेकल तालुक, बैंगलोर कर्नाटक- 560083
1064	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली - 110001.
1065	इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी	प्लॉट नं0 - 429/(आर), राणी दुर्गावती चौक, एन. आय. टी. कॉम्प्लेक्स बिनाकी ले-आऊट, नागपुर, महाराष्ट्र- 440017.
1066	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703
1067	इंडियन नेशनल समाज पार्टी	डी-64/52, ई-1 ख, माधोपुर, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221010
1068	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विक फार्म, बड़ी नहर के पास, वैरोवाल रोड, जण्डियाला गुरु, जिला-अमृतसर, पंजाब-143115
1069	इंडियन नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोर्स	अमुआ, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन- सैंथिया, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731234.
1070	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं.68-बी, देवासंद्रा, के.आर.पूरा, बैंगलुरु, कर्नाटक-560036
1071	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं.9-14, प्रशांत नगर, बोडउप्पल, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500092
1072	इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (इंडिया)	सी/1061/5, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1073	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं0 - 107, द्वितीय तल, 1st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौंसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक - 570 019
1074	इंडियन पीपुल्स कॉफ्रेंस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं0 -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1075	इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी	544, नरसिंह वार्ड, मदन महल, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482001

1	2	3
1076	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
1077	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
1078	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुदेवोभवा, शॉप नं. 1, गाउंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
1079	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, महेन्दु एन्क्लेव के सामने, जी.टी.करनाल रोड, दिल्ली- 110033
1080	इन्डियन पब्लिक पार्टी	बी-1, राज कम्पलेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर - 364002, गुजरात
1081	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
1082	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025
1083	इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या - 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1084	इंडियन यूनाइटेड पीपल्स पार्टी	वार्ड नं० 18, इंदिरा चौक, सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश- 484001
1085	इंडियन युनिटि सेंटर	गाँव तथा पो.ओ.सोमरुक, पो.स.उलुबेरिया, जिला-हावड़ा- 711316, पश्चिम बंगाल)
1086	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोड़ा हजारी, बुटेश्वर बगौची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
1087	इंडियन युथ प्रोग्रेसिव पार्टी	चितरंगी मार्ग, इटार रोड, देवसर, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486881
1088	इंडियन्स विकट्री पार्टी	3/261-2, आन्नदन नगर, असरीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
1089	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा ।
1090	इण्डिया जननायक काचची	स० 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई- 600083 तमिलनाडु ।
1091	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
1092	इन्साफ दी आवाज़ पार्टी	एमसी नं. 9/128डी, 9/128/ई, गली नं. 10, वार्ड नं. 9, नियर कंसल गैस एजेन्सी, रमन मण्डी, तहसील- तलवंडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
1093	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104



1	2	3
1094	इंसानियत लोक विकास पार्टी	प्लॉट नं.1938/447/2,केयर ऑफ हिन्द स्कैप स्टोर,स्ट्रीट 0-2,जनता नगर,निकट पी.एन.बी.,लुधियाना,पंजाब-141003
1095	इंसानियत पार्टी	मकान नं0 - 262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
1096	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली-110053
1097	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1098	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1099	जे एन्ड के पीपुल्स मूवमेन्ट	शेखपुरा,हम्हामा,तहसील व जिला-बडगाम,जम्मू और काश्मीर- 191111
1100	जे एंड के यूनाइटेड पीस एंड डिवैल्पमेंट पार्टी	बगांदर,लासजन-बी,बंड रोड के पास,श्रीनगर-191101,जम्मू एवं कश्मीर
1101	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
1102	जातीया चेती वृताला ऐक्य वेदीका पार्टी	दरवाज़ा नं. 12-494,सप्तगिरी कॉलोनी,9वीं लाइन बस स्टॉप, थिम्मलानैडु पालेम (पोस्ट),तिरुपति अरबन मंडल, चित्तूर जिला,आंध्र प्रदेश-517507
1103	जबरो देस म्हारो	149, कल्याण कुंज,झोटवाडा पोस्ट ऑफिस के सामने,झोटवाडा,जयपुर,राजस्थान-302012
1104	जगत कल्याण मोर्चा	गाँव-नानी,डाकघर-मतियाना,तहसील-ठियोग,ज़िला-शिमला,हिमाचल प्रदेश-171212
1105	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली - 110005
1106	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
1107	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाऊंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश ।
1108	जागरूक जनता पार्टी	ग्राम- दिलावरपुर, पोस्ट व थाना- बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
1109	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात ।
1110	जय आन्धा पार्टी	डी. नं0 -14-71, चंगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुंड्री, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश

1	2	3
1111	जय भारत नेशनल पार्टी	12-4-27, विजयवाड़ा नगर निगम, राजस्व वार्ड 40, विजयवाड़ा-520001, आन्ध्र प्रदेश
1112	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
1113	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-वी-1, समानता शक्ती भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1114	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर, एम.के. बैग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाड़ा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
1115	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
1116	जय हिन्द जय भारत राष्ट्रीय पार्टी	बी.के.नम्बर-1366, रूम नम्बर-10, मराठा सैक्सन-32, स्टेशन रोड, नियर उल्हास विद्यालय, प्रदीप वाडापाव सेन्टर से आगे, उल्हास नगर, थाने, महाराष्ट्र-421004
1117	जय हिन्द नेशनल पार्टी	ए2/135, दर्शनम एंटिका, दंतेश्वर, वडोदरा, गुजरात-390004
1118	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार
1119	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खड़हरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1120	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
1121	जय जना संगम पार्टी	म0 नं.6-282, अपोजिट चन्द्रिका राईस मिल, (पोल्डम्मा पुट्टा), ग्राम-रायावरम, मंडल-रायावरम, जिला-बी.आर.अम्बेडकर, कोनासीमा, आन्ध्र प्रदेश-533346
1122	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416115 ।
1123	जय जनता पार्टी	वार्ड नं0 - 18, होल्डिंग नं0 - 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, बिहार-821101 ।
1124	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं0 - 60, गली नं0 - 7, विर्क कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू पटियाला, पंजाब - 147001
1125	जय जवान किसान नौजवान संविधान पार्टी	खसरा न.101/3, मौजा वाहनपुर, पोस्ट-कैलोरा, हाथरस जंक्सन, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-204102
1126	जय किसान जय मजदूर पार्टी	हाउस नंबर 77, खरसा नंबर 374, गांव और पोस्ट - बालाकोट, मंदिर दरवाजा के पास, पानी टंकी के पास, तहसील - दमोह, जिला - दमोह, म.प्र. - 470672
1127	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023

1	2	3
1128	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव- बुक्कापुरम, तह० आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश, पिन-509652.
1129	जय मानवता पार्टी	मकान नं०-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1130	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
1131	जय समाख्या आंध्रा पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत लिमिट्स, रायावरम मंडल, जिला - पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश - 533 214
1132	जय समता पार्टी	रकबा शेर नगर बीबीपुर, कल्लरपुर, जानसठ रोड, तहसील- सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
1133	जय सेवालाल बहुजन विकास पार्टी	मकान न० 2, प्लॉट न० 31, हिमालयपुष्पा बिल्डिंग, स्वपननगरी, गारखेडा एरिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431005.
1134	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
1135	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोटीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
1136	जयभीमराव भारत पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावन्या अपार्टमेन्ट्स, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपूरम, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1137	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट - छोटा सुजापुर, थाना - कलियाचाक, जिला - मालदा, पश्चिम बंगाल - 732206
1138	जम्मू और कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी	हरको हाउस मस्जिद नूर लेन, राजबाग, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190008
1139	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल काँफ्रेंस	3-आर सी क्वाटर्स, प्रेस एन्कलेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
1140	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स काँफ्रेंस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
1141	जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर
1142	जम्मू एण्ड कश्मीर अपनी पार्टी	कोहिनूर हाउस, 7 शेख बाग, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर- 190001
1143	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
1144	जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट	बादशाह फ्लैट्स 7-बी, जहांगीर चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर- 190001

1	2	3
1145	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्यूलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
1146	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर
1147	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव) ।	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू - 180001, जम्मू व कश्मीर
1148	जन आवाज पार्टी	झींझक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
1149	जन अभियान पार्टी	27/3, बिरहाना रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
1150	जन आदेश अक्षुणी सेना	मकान सं० - 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
1151	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
1152	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के० हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार - 854301
1153	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1154	जन आसरा पार्टी	सी/ओ रावल सिंह भिंडर, खसरा नं० 12/1, ग्राउण्ड फ्लॉर, कलवानु रोड के पास, अतालन, तहसील- पटरन, जिला-पटियाला पंजाब-147102
1155	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं० - 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।
1156	जन चेतना क्रांति मंच	खेमनीचक, जकरियापुर, कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, थाना-आलमगंज, अगमकुआं, जिला-पटना बिहार- 800007
1157	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली - 110054.
1158	जन कांग्रेस पार्टी	वार्ड नं०- 1, मकान नं०- 395, बोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट, असम- 785612
1159	जन हित पार्टी प्रगतिशील	ग्राम-भादुरपुर, पोस्ट-मोर्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, पुलिस चौकी के पास, उत्तर प्रदेश-201003
1160	जन जागरण युवा मंच	नम्बर 2528/2649, रतनदीप हॉस्पिटल, नगर रोड, जामखेड, तालुका-जामखेड, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र-413201
1161	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तीपुरम, फाफामऊ, आपोजिट - बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013

1	2	3
1162	जन जन पार्टी	गली सं०- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1163	जन जनवादी पार्टी	गाटा नं० 88, ग्राम बडहारा, पोस्ट-तुरना, तहसील- सैदपुर, थाना-नंदगंज, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233306
1164	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1165	जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, राँची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर-744103 ।
1166	जन मन पार्टी	डी-409, प्रतिक मौल, रायसन, गाँधीनगर, गुजरात- 382007
1167	जन मिथिला विकास पार्टी	ग्राम-सम्धिनिया, पास्ट-गरी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा बिहार-847303
1168	जन प्रगति पार्टी	544/2395, मरी माता मंदिर, निकट विकास पब्लिक स्कूल, ब्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226003
1169	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद- 211001, उत्तर प्रदेश
1170	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226020, उत्तर प्रदेश ।
1171	जन राष्ट्रवादी संगठन	356/340/1331, अशोक विहार, आलम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
1172	जन साधारण पार्टी	मकान नं० – 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, राँची, झारखण्ड- 834001
1173	जन सहारा पार्टी	फ्लैट नं.2, युजी फ्लोर, ए-1/बी, एडवोकेट कम्पाउंड, औल्ड जसोला विलेज, दिल्ली-110025
1174	जन समाज एकता पार्टी	530ए, के-ब्लॉक, यशोदा नगर, माँ दूर्गा इंटर कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
1175	जन समानता पार्टी	बी – 125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
1176	जन समर्पण पार्टी	मकान नंबर 189 I, जटेपुर उत्तर, लोहिया नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273015
1177	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली –110094
1178	जन समूह पार्टी	मकान न० 366/ए, ग्राउंड फ्लोर, गली न० 12, खसरा न० 18/14, माता वाली गली, जौहरी पुर, दिल्ली-110094

1	2	3
1179	जन संवाद पार्टी	319, अमखेरा रोड, गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482004
1180	जन संदेश पार्टी	72/76/3, स्टेनली रोड, (म्योराबाद क्रॉसिंग), मम्फोर्डगंज, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश - 211002.
1181	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर - 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201301, उत्तर प्रदेश ।
1182	जन संघर्ष दल	छोटी मस्जिद के पास, मेन रोड लौरिया, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845453
1183	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली नं0-2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1184	जन संतोष पार्टी	गांव + पोस्ट, लालपुर, पुलिस चौकी-कमर, थाना- कोसकला, ब्लॉक-नंदगाव, तहसील-छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281403
1185	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉम्प्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने, रायपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380022
1186	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर, जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश
1187	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भड्ड कलाँ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा - 125053 ।
1188	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1189	जन सेवा ड्राइवर पार्टी	प्लैट एफ-201, कृष एक्सोटिका, ऑपोजिट रजीपा ग्रीट लैंड, बी/एच, श्यामवेद रेजीडेंसी, निकोल, अहमदाबाद, गुजरात- 382350
1190	जन सेवक क्रांति पार्टी	ए टी-772, भीमनगर नया रेलवे रोड, गुरुग्राम-122001
1191	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं0 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार, मुरादाबाद - 244 001, उत्तर प्रदेश ।
1192	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट -मीरगंज, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243504 ।
1193	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं0.3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब-141010
1194	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
1195	जन सुराज पार्टी	सूट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर भवन, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001
1196	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वारानानगर, ता0 - पनहाला, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.
1197	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1198	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1199	जन ध्वनि पार्टी	डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेट्स, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500049
1200	जना राज्यम पार्टी	मकान नं.8-217/16, धर्मा रेड्डी आर्कट, फ्लैट-टी 1, गायत्री नगर, लक्ष्मीनगर कॉलोनी, रोड नं.3, जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटी, बालापुर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500097
1201	जन सहायका सक्ति	दरवाजा नंबर 27-85/1, कोबाल्डपेट, 4 लेन, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006.
1202	जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक - 572102
1203	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- केंदुझरगढ़, थाना- टाउन, जिला- केन्दुझर, ओडिशा- 758001.
1204	जना शंखारावम पार्टी	मकान नं.4-1-216/54/502, कार्तिकेय नगर, नाचारम, उप्पल, मेड्चल मल्कजगिरि जिला, तेलंगाना-500076
1205	जना स्पन्दना पार्टी	नं.-60, फर्स्ट फ्लोर, वीरापिल्लय स्ट्रीट, शिवाजी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560001
1206	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वार्ड, कलम्मा बाजार, सन्दूर-583119, कर्नाटक ।
1207	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.
1208	जनाधार नेशनल पार्टी	63, आर.आर.एवेन्यु, तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश- 452010
1209	जनाधार शक्ति पार्टी	ग्राम 162512, देवरख रोड, अरेल, नैनी, तहसील करचना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211008
1210	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं0 - 641, वार्ड नं0 - 21, कोट्टयम म्यूनिसिपलिटी, जिला - कोट्टयम, केरल ।

1	2	3
1211	जनाधिपथ्या समक्षणा समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी - 688011, केरल ।
1212	जनहित पक्ष	डी0 नं0 109, सेकेंड वार्ड, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी, कर्नाटक - 583101
1213	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1214	जनम राष्ट्रीय पार्टी	भवन संख्या 582, इवरकला वार्ड 5, कुन्नुतूर पंचायत, इवरकला ईस्ट पीओ, कोल्लम-691507, केरल
1215	जननायक मक्कल रज्जियम	20/86ए, कृष्णा नगर वेस्ट, अम्मापेट (पी ओ), जिला - सेलम, तमिलनाडु - 636003.
1216	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -500034
1217	जनसेना पार्टी	डी.नं. 11-1903, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कॉलोनी, मंगलगिरि, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522503
1218	जनता कैबिनेट पार्टी	16/ए (16/1), लिटन रोड, सुभाष रोड, देहरादून न्यू नगर निगम, नं0-184/4, पिन - 248001 उत्तराखण्ड
1219	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्पलेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
1220	जनता कांग्रेस नेशनल मोवमेंट पार्टी	नं. 8-2-293/82/जे/III, रोड नं0 - 79, जुबलीहिल्स, हैदराबाद तेलंगाना - 500033
1221	जनता दल (अहिंसावादी)	201, भेल एक्सटेंशन, 9 वॉ क्रॉस, स्टेज-2, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098
1222	जनता पार्टी	जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091
1223	जनता उदय पार्टी	860. गली नं0-4, संजय इन्क्लेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन0 आई0 टी0 फरिदाबाद, हरियाणा
1224	जनता उन्नती पार्टी	ग्राम-पाल्हीपार, पोस्ट ऑफिस-पकडी दूबे, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273413
1225	जनता विकास पार्टी	अबषेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश) ।
1226	जनहित भारत पार्टी	730, अर्ली नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
1227	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना- 20, बिहार ।
1228	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद - महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज - 273303, उत्तर प्रदेश ।



1	2	3
1229	जनहित क्रांतिकारी पार्टी	पन्ना लाल के पुत्र शिवाजी,मकान नंबर 47/1,गांव और पोस्ट-नयाबांस,परगना-मरहेरा,थाना-मिर्हाची,तहसील-एटा,जिला-एटा,उत्तरप्रदेश-207125
1230	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं0 - 41/3,गाँवदेवी रोड, पावणे गाँव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400705
1231	जनहित संकल्प पार्टी	शिव 15/52 वी-6-2-एस, उसरपुरवा,भरलाई, शिवपुर,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221003
1232	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111
1233	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, नोएडा,गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
1234	जनलोक विकास पार्टी	हाउस संख्या-124,वार्ड संख्या-22,कसाई टोला,गोरया स्थान,पोस्ट ऑफिस-रसडा,जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-221712
1235	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट - 360002, (गुजरात) ।
1236	जनमत पार्टी	सी2ए/107, पाकेट-16, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
1237	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससवाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301
1238	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20,खासा चौक के पास,रामेश्वर पुरम कॉलोनी,कबीरपुर,सोनीपत,हरियाणा-131001
1239	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा - काम्पलेक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1240	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब ।
1241	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 ।
1242	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1243	जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी	श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री हरिवंश सिंह, ग्राम गढी, मजरे-खसपरिया, पोस्ट- बस्ती, तहसील - नवाबगंज, ब्लाक - बंकी, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225003.
1244	जनसेवा गोंडवाना पार्टी	प्लॉट नं. 36,जायसवाल ले आउट,भोयर गल्स हॉस्टल के पास,नालवाडी,वर्धा,तह और जिला वर्धा महाराष्ट्र-442001
1245	जनशक्ति जनता दल	रजनी कॉम्पलेक्स,खगौल रोड,दयानंद बालिका उच्च विधालय के नजदीक,मीठापुर,पटना,बिहार-800001

1	2	3
1246	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0-38, भू-तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फज़लपुर, दिल्ली - 110092
1247	जनशक्ति समता पार्टी	तहसील कैपस पोस्ट - सलोन, जनपद - रायबरेली, उत्तर प्रदेश - 229127
1248	जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पो0 - नुमर, थाना-बरहट, जिला-जमुई बिहार-811313
1249	जनता ब्रिगेड पार्टी	आर.-142, ज्वालापुरी, कैम्प नं0-5, नई दिल्ली- 110087.
1250	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं.838,839,744,745, थाना नं. 314, ग्राम- आबिगला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार-823003
1251	जनता दल राष्ट्रवादी	म0 न0 - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार - 801505
1252	जनता दरबार पार्टी	एमआईजी-11, 70/1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीओ/पीएस-चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, जिला-खोर्दा, ओडिशा-751016
1253	जनता कल्याण मोर्चा	खेवट सं0-184, खाता सं0 188, कीला नं0-51/16/3 खेडी दमकन, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा - 131301.
1254	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत विहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
1255	जनता क्रान्ति पार्टी (राष्ट्रवादी)	न. 29, कान्तीपुरम पार्ट-2, शिवपुरी बिजली हाउस के पीछे, गणेशपुर, रहमानपुर, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1256	जनता राज पार्टी	मकान नं0 43, ग्राम - तेजपुरा, पोस्ट - इन्दौर, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 233226
1257	जनता राज विकास पार्टी	ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843114
1258	जनता रक्षक पार्टी	वार्ड नंबर 1, मोहल्ला कमलापुर, डॉ भीम राव अम्बेडकर इंटर कॉलेज के पास, पोस्ट- उदयपुर महेवा, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701
1259	जनता समाजवादी पार्टी (विवेक राज)	72, रतन नगर, प्रदर्शनी पंडाल मार्ग, शहर व जनपद- इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1260	जनता समता पार्टी	ग्राम-डुमरी एखलास, पोस्ट-हेतिमपुर, थाना-रामपुर कारखाना, तहसील एवं जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश-274206.

1	2	3
1261	जनता सरकार पार्टी	I-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर - 16, रोहिणी, दिल्ली-110089
1262	जनता सेना राजस्थान	मुकाम पोस्ट: वल्लभनगर, जिला - उदयपुर, राजस्थान - 313601
1263	जनता शासन पार्टी	4ए / केशव पार्क, सरस्वतीपुरम रायबरेली रोड, लखनऊ उत्तरप्रदेश - 226014
1264	जनता स्वाभिमान पार्टी	कटघरा देहाती, हवेली, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222002
1265	जनतंत्र आवाज पार्टी	पूर्वी गुमटी लख नं0 11, पोस्ट-आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301
1266	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी - 221002, उत्तर प्रदेश ।
1267	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	सुषमा नवल कुंज, एन.टी.पी.सी. कॉलोनी, आर.के.नगर, वार्ड नंबर 32, सर्कल नं. 8, पो.ओ. नाऊ जगनपुरा, पी.एस.-राक नगर, जिला - पटना, बिहार - 800027
1268	जनतांत्रिक समता पार्टी	मकान नं. 100, वार्ड नं. 4, लुधुपारा, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206245
1269	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मॉल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला-पटना, बिहार- 801503
1270	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई- 400037, महाराष्ट्र
1271	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1272	जातिया समा समाजम पार्टी	1-24, दिन्नादेवारापडू गांव, कुरनूल मण्डल, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518002
1273	जातिया जना सेना पार्टी	डोर नं. 1-9-290/बी/ए, अदिकमेट, रामनगर गुंडू, ललिता नगर, न्यू नल्लाकुंता, हैदराबाद, तेलंगाना- 500044.
1274	जातिय महिला पार्टी	6-3-बी-922, एन.जी.ओ. कॉलोनी, वनास्थालिपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना- 500070
1275	जवान किसान आवाम पार्टी	नई बस्ती, बहादुरपुर, मांझेलपुर, थाना-थाना-जहंगीराबाद, पोस्ट-सोमैया नगर, बाराबनाकी, उत्तर प्रदेश-225002
1276	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं0 एल0 आई0 जी0, एच0 - 1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार - 802312.
1277	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन-106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
1278	जय विदर्भ पार्टी	302, कोलबास्वामी रेजीडेंसी, विठ्ठल नगर, न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, उदय नगर स्कवायर, मानेवाडा रिंग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1279	जेबामणि जनता	नं0 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
1280	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा0 व पो0 आफिस झिलीमिली थाना - बरीकुल, जिला - बाकुंडा पश्चिम बंगाल - 722135
1281	झारखण्ड आजाद पार्टी	झालेश्वर करमली मकान संख्या- 153 ए, खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 293, मौज होम्बई, विलेज-होम्बई पोस्ट-निवरी विकास, थाना-सदर राँची, जिला - राँची, झारखण्ड - 835217.
1282	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं0 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर - 831005, झारखण्ड ।
1283	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं0 - 36, दिनकर नगर, पो0 - हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना - जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।
1284	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, रांची - 834001, झारखण्ड ।
1285	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची - 1 (झारखण्ड) ।
1286	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकुम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001
1287	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड - 834002.
1288	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान - रघुनाथपुर, पो. ऑ. - झाड़ग्राम, जिला - मिदनापुर - 721507, (पश्चिम बंगाल) ।
1289	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट - राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1290	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु0 स्टे0 - गोविन्दपुर, जिला - सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।
1291	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड
1292	जिन्दाबाद क्रान्ति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं.5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1293	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- रांची, झारखण्ड- 835301

1	2	3
1294	जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 ।
1295	जस्टिस अण्ड डेवलपमेंट पार्टी	गाँव+पोस्ट-ऑफिस अहिरन, पी.एस.-सुति, जिला-मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 742223.
1296	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश -229303 ।
1297	ज्वाला दल	मकान संख्या - 247 बी, मु0 - जंगल तुलसीराम, पो0 - बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना - शाहपुर, जिला - गोरखपुर - 273014 उत्तर प्रदेश ।
1298	कलींग नेसनाल फ्रंट	स्थान - परबील, पो0 ऑ0 - कन्दरपुर, जिला - कटक - 754100, ओडिशा ।
1299	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट - 4, भूवनेश्वर - 751001, खुर्दा, उड़ीसा ।
1300	कल्याण कर्नाटक पार्टी	सीटीएस नं.4589/ए, पहली मंजिल, शेटी गल्ली, बेलगावी, कर्नाटक- 590002
1301	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दुसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
1302	कल्याणा राज्य प्रगती पक्ष	49/48, कायालासनाहल्ली, कोठानूर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक - 560077.
1303	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035 ।
1304	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश - 261203
1305	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-वेलायुधा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई - 600028 (तमिलनाडु) ।
1306	कामराजार मक्कल काची	52/6, गांधी सलाई, चेन्नई - 600042
1307	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गांव एवं पोस्ट- भंदानी, पुलिस स्टेशन- धुपगुड़ी, जिला- जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल- 735210.
1308	कमेरा समाज पार्टी	वाई न. -3, लाला का पुरवा शंकरगढ़ (पन्ती देवी स्कूल के पास), पो0-शंकरगढ़, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212108.
1309	कामगार किसान पार्टी	राहुल भवन, मकान नं०00-51, मानस नगर, जियामऊ, हजरतगंज, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001

1	2	3
1310	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव - बिधानपल्ली, डाक घर - कदमताला, जिला - दार्जिलिंग - 734433, पश्चिम बंगाल ।
1311	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक) ।
1312	कन्नडा देशदा पक्षा	नं. 20, बन्दारलाहल्ली विलेज, कामसमुद्रम होबली, बंगारपेट तालुक, जिला-कोलार कर्नाटक- 563129
1313	कन्नड़ पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक) ।
1314	कानून राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं. 27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली- 110093
1315	काशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
1316	काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी	मकान नं० ए-62/1-153, ओ ब्लॉक ओमेक्स सिटी, औरंगाबाद खालसा जनपद, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226025
1317	कर्मा पार्टी	शॉप नं० -1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर - 29, गुडगांव, हरियाणा - 122002
1318	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं. 36, खाता नं. 151, सर्वे नं. 42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं. 587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560079
1319	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रॉस, मालेश्वरम, बैंगलूरु-560055, कर्नाटक
1320	कर्नाटक कार्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बैंगलोर, कर्नाटक - 560005
1321	कर्नाटका मक्कला पक्क्षा	एच० ओ० नं० 09, ब्लॉक - 4 जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1322	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं० -23, दूसरी "ए" मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560091
1323	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैयथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.

1	2	3
1324	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं0 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बैंगलुरु नॉर्थ ता0, बैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1325	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर - 560098 (कर्नाटक)
1326	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2,8वा इ मेन,चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर,बैंगलुरु,कर्नाटक-560011
1327	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
1328	कर्नाटका स्वाभिमानि रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता ऐसेसमेंन्ट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चित्रादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1329	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं0 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317
1330	कर्पूरी जनता दल	राजीव नगर, रोड नंबर 15ए, पोस्ट केशरी नगर, पटना, बिहार-800024
1331	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं0 - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1332	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं0 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर- 560056 कर्नाटक ।
1333	करुनाडा सेवाकरा पार्टी	डोर न. 2-6, करोडी हाउस, केन्जर विलेज एवं पोस्ट, मंगलोर तालुक, डी. के डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 574142
1334	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15,निदरसनम,जेवी.शेट्टी,रामासामी पाल्या,एम.एस नगर पोस्ट,बैंगलुरु,कर्नाटक-560033
1335	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट(जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1336	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701 ।
1337	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024 ।
1338	केरल काँग्रेस	67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ऑ0 एरनाकुलम, केरल ।
1339	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल) ।
1340	केरल काँग्रेस (जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कोट्टायम, (केरल) - 686001

1	2	3
1341	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला- कोट्टयम, केरल
1342	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टयम - 1, केरल ।
1343	केरला डेमोक्रेटिक पार्टी	6/341, पिनाकट्ट, भारनागरम, चुन्दाचेरी, पोस्ट पाला, कोट्टयम जिला, कोट्टयम-686579, केरला
1344	केरला जनापक्षम (सेक्युलर)	टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल- 695014
1345	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूड़ीकोल पो.ऑ, कडुथुरुती केरल- 686604
1346	केरला कामराज कांग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XII/342डी, नेय्याट्टिकारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695121.
1347	केरला प्रवासी एसोसिएशन	कांजीरामात्तिल (हाउस), नंबर 11/585पी, मलोथ, डार्कहास कासरगोड, केरल-671533
1348	केरला रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी - (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कोल्लम, केरल- 690521
1349	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1350	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1351	खत्यानी झारखंडी पार्टी	गांव-होम्बाई पोस्ट-नियोरी विकास, पी.एस.सदर, ओपी-मेसरी, राँची, झारखण्ड-835217
1352	खुन हिन्दूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लैंसोनालेन, हाउस न. 32 एवं वार्ड न. 14 एवं होल्डिंग न. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1353	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203
1354	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1355	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेसिडेन्सी, संसकार रेसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1356	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलेंसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।
1357	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश ।



1	2	3
1358	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1359	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खेड़िया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001
1360	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौँदा, ब्लॉक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1361	किसान पार्टी (लोकतान्त्रिक)	श्रीकृष्णा चिकिस्तालय, सीडा, सतहरिया, पोस्ट- पर्वारा, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202.
1362	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार -843320
1363	किसान राज पार्टी	जूनियर एल.आई.जी. 358, विंध्य विहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1364	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1365	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0 - पतरिया, तह0 - गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
1366	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निघासन, जिला -लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
1367	किसान संघर्ष समिति	छरियारी, मखदुसपुर, जहानाबाद, जिला-जहानाबाद बिहार- 804422
1368	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
1369	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1370	किसान विश्व पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सफिपुर, थाना-देवां, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225301
1371	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1372	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची	नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1373	कोगुनाडू इलैगनर पड़ाई काची	डो.नं.2/38, जननी गार्डन, अल्लीकुलम, नागम्मा पुत्तूर (डाकघर), साथी रोड, अन्नूर, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु- 641653
1374	कौगुनाडु मक्कल देसीय कच्ची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - दू कॉकरायंपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007

1	2	3
1375	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छैंद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा-769015
1376	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाड़ा, बालेनगिर - 767001, उड़ीसा ।
1377	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिशा ।
1378	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं० - 34, जोन नं० - 8, तहसील - हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1379	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
1380	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे० के० रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।
1381	क्रांतिकारी परिवर्तन पार्टी	देवयानी मार्ग, निकट सिक्सवे बाईपास, अशोक नगर(पूर्वी), इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1382	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1383	क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं.20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका- नेवासा, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105
1384	क्रांतिकारी स्वराज दल	ग्राम मवैया कलां, पोस्ट नारीबारी, थाना शंकरगढ़, तहसील बार, जिला प्रयागराज, पिन कोड नं० 212106 (3090)
1385	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ० - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।
1386	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1387	कृषक भारती पार्टी	दुकान नं. 841, गली नं. 11, हरिपुर सैक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134112
1388	कृपा पार्टी	प्लॉट नं.452, खाता सं. 69, शांति भवन, ग्राम- पहाणा, पो.ऑ-तिकनपुर, जी.पी.- रामचन्द्रपुर, पी.एस- पाटकुरा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-754153
1389	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)

1	2	3
1390	कुकी पीपुल्स एलायंस	लीटल वुड्स, रैंग्काई रोड, जेनहांग लामका, चुराचंदपुर, मणिपुर भारत- 795128
1391	कुनबी बहुजन सवराज्य पार्टी	एच. नं. 114, ए-2, गाँव और पोस्ट खादी लोलवन, तातुका-संगमेश्वर, जिला-रत्नागिरी, महाराष्ट्र- 415801
1392	कुशल जनता पार्टी	पुपरी, वार्ड नं०-2, पोस्ट- जनकपुर रोड, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843320
1393	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली- 110009.
1394	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	म.न.ए-63, न्यू गोपाल नगर एक्सटेंशन, नानक प्याऊ, रामा पब्लिक स्कूल रोड, गली न.4, नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043
1395	लक्ष्यधर गणतांत्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो० ओ० के० एम० रोड, झारसुगुड़ा-2, जिला - झारसुगुड़ा, ओडिसा ।
1396	लचिया जननायक काची(लजक)	नं० - 18, अरविन्द बिल्स, अमन कोविल, फस्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरूंगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063
1397	लौकिक समाज पार्टी	द्वारा-चित्रा कॉनवेंट स्कूल, ग्राम - देवपार (वीरसिंहपुर), पोस्ट - मदनपुर, तहसील - बरहज, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274205
1398	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125
1399	लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली- 110016.
1400	लिबरल सोशलिस्ट पार्टी	विपक्ष गुरुद्वारा साहिब, H. No. 82, एमआईटीसी कॉलोनी, बाय पास रोड, सिरसा, हरियाणा - 125055
1401	लिबरेशन कांग्रेस पार्टी	प्रथुर(व), गुंडीमेडा गांव, ताडेपल्ली मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522501
1402	लोग जन पार्टी - सेक्यूलर	शिनपुरी, नवचोतना पथ, अनिसाबाद, पटना, बिहार- 800002
1403	लोग पार्टी	मकान सं० 33/2, स्टेनले रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211001
1404	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं.- 359, सैक्टर - 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1405	लोहिया जनता दल	वार्ड क्रमांक स.04, एन.एच. 31, स्कूल गुलाबबाग, बाढ़, पटना, बिहार-803213
1406	लोक अधिकार लहर पंजाब पार्टी	ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब-151302

1	2	3
1407	लोक आवाज दल	होलडिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार।
1408	लोक बन्धु पार्टी	1/4908 खसरा नं०.192/193/179, गलीन०-6, बलवीर नगर एक्स, शाहदरा, दिल्ली-110032
1409	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1410	लोक भारती	ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1411	लोक चेतना दल	ग्राम - पकड़ी जलाल, पोस्ट - शुभंकरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113
1412	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1413	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1414	लोक गठबंधन पार्टी	नं० - बी - 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नज़दीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1415	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रेन मार्केट, लोंगोवाल, जिला - संगरूर, पंजाब ।
1416	लोक इंसाफ पार्टी	बी -XXVII/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
1417	लोक जन समाज पार्टी (भारत)	ग्राम रेहरा, पो० निपनियां, थाना परसा मलिक, तह० नौतनवां, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273164
1418	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1419	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।
1420	लोक कल्याण पार्टी	नंबर 4 एफ / 403, अकाशरथ बी / एच रत्नम ऑप। सी.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
1421	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तूपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1422	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्कलेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली ।
1423	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।
1424	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
1425	लोक राष्ट्रीय पार्टी सेकुलर(एस)	अबन्तीबाई नगर,भोगांव,जिला-मैनपुरी,उत्तर प्रदेश-205262
1426	लोक साहस पक्ष	एच. नं. 6307. कटारे कॉम्प्लेस, मुख्य रास्ता, जितुर, जितुर पुलिस स्टेशन जवल्ल, जितुर, हनुमान मंदिराजल्ल. जितुर, परभणी महाराष्ट्र-431509
1427	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 110090
1428	लोक साम्यां पार्टी	प्लॉट नं0 179,रामचंद्रपुर आर.सी. ठकुरानी,पोस्ट - हरिदेवपुर,कोलकाता- 700104
1429	लोक संघर्षशील पार्टी	प्रीमिसर्ज नं0 100Z0864894,शास्त्रीमगर,चोटिला,ता0 चोटिला,जिला-सुरेन्द्रनगर गुजरात- 363520
1430	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना ।
1431	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड,मकान नं.-1-4-2956,गुलशन नगर,बालेपीर,बीड,महाराष्ट्र-431122
1432	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
1433	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014
1434	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2,तृतीय तल,शकरपुर खास दिल्ली-110092
1435	लोक स्वराज्य पार्टी	प्रेमलता गोबिंदराव ब्राम्हंकर,वार्ड नं.-5,गाँव एवं पोस्ट - संगडी,तहसील-सकोली,जिला-भंडारा महाराष्ट्र-441802.
1436	लोक विकास मंच	शॉप नं0 - 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर - 21, गाँधीनगर, गुजरात ।
1437	लोकतांत्रिक जनाधार पार्टी	टी-43,ग्राउंड फ्लोर,पंजाबी बस्ती,बलजीत नगर,नई दिल्ली-110008
1438	लोकहित अधिकार पार्टी	94,एच.आई.जी. ब्रिज विहार,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश-201011
1439	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1440	लोकजन सोशलिस्ट पार्टी	द्वारा वर्षा नेत्रालय, ग्राम व पोस्ट- फूलपुर बाजार, तहसील - पिंडरा, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221205.
1441	लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम- मढ़ायना,पोस्ट - सिकरारा,पीपल चौकी,आगरा रोड,तहसील - फतेहाबाद,आगरा,उत्तर प्रदेश-283111

1	2	3
1442	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
1443	लोकप्रिय समता पार्टी	अल्फा ट्योरियल, सुधा डेयरी के पीछे, कटारी हिल रोड शांतिबाग, न्यू करीमगंज, पी.एस-सिविल लाइन, पी.ओ.- करीमगंज, जिला-गया, बिहार-823001
1444	लोकराज्य जनता पार्टी	कार्यालय नं० 1001ए/1बी, प्लॉट नं० 58, ए वार्ड, लक्ष्मीटेक कॉलोनी साने गुरुजी वसाहत, कोल्हापूर, जिला- कोल्हापूर, महाराष्ट्र- 416012
1445	लोकराज्य पार्टी	ए-115/35/1, एन-9, शिवनेरी कॉलोनी, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चौक, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
1446	लोकसंग्राम	एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.
1447	लोकशाही एकता पार्टी	202, वार्ड वर्धमान गैलेक्सी, नवीवाड आई, बंद। दादी सेठ अगियारीलेन, जे.एस.एस. सड़क, मुंबई 400002, महाराष्ट्र
1448	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राईम रोज, क्वीन पार्क, दीपक हॉस्पिटल के पीछे, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड, जिला- थाने, महाराष्ट्र- 401107
1449	लोकशाही पार्टी	नंबर बी-705, ओमकार वेदा सीएचएस, नियर अंबेडकर कॉलोनी, एकनाथ घड़ी मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400012.
1450	लोकशाही सत्ता पार्टी	“पंचवटी” बोरालीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील – बावला, जिला – अहमदाबाद, गुजरात - 382220।
1451	लोकशक्ति विकास पार्टी	उदंतपुरी (किलापर), बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार-803101
1452	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक – रहुरी, जिला – अहमदनगर महाराष्ट्र – 413705
1453	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1454	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	म.स. 568, सैक्टर-3, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा
1455	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1456	लोकतंत्र जागृत पार्टी	सी-410, सुमेल बिजनेस पार्क 7, निकट सोनी नी चली राखियाल, अहमदाबाद, गुजरात – 380023
1457	लोकतंत्र कल्याण पार्टी	ग्राम-खिरीकोन, पोस्ट-तार, थाना-अगीआव बाजार, प्रखंड-पीरो, जिला-भोजपुर, बिहार-802207.

1	2	3
1458	लोकतंत्र विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट शहपुर बम्हैटा, थाना कविनगर, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1459	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेलबाग (बेतिया), थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438
1460	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला- सिवान, बिहार-841231,
1461	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं० - 107, केशर कालोनी हल्दौनी, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1462	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001
1463	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1464	लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी	बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मीसागर, वार्ड नंबर 01, विजन स्कूल के पास दरभंगा, बिहार - 846009
1465	लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1466	लोकतान्त्रिक पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	न० 103, (सर्किल न० 189, होल्डिंग न० 101/1, 94/86), भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पटना, बिहार- 800009
1467	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1468	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	सी - 32, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021
1469	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली- 110002.
1470	लोकतांत्रिक समता दल	डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1471	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी० के० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।
1472	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेन्ट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1473	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं० - 5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्कलेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1474	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

1	2	3
1475	माँ थरम पार्टी	302, दूसरी मंजिल, इनोवेटिव सान्वी एलीट, डोड्डाथोगौर, ऑप. कृष्णा मिस्ट, अपार्टमेंट प्रगति नगर, चिक्का थोगुरु, डोड्डाथोगौर, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560100.
1476	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरौर, थाना - छबिलापुर, वाया - राजगीर, जिला- नालन्दा, बिहार- 803116
1477	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं0 -4872, प्लॉट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1478	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर- 482004, मध्य प्रदेश।
1479	महाभारत राष्ट्र पार्टी	330, ट्रेड स्क्वेर, सफल परिष्कर, खोखरा सर्कल, मणिनगर पूर्व, अहमदाबाद, गुजरात-380026
1480	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं0 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1481	महाजन मंडली पार्टी	मं0 नं0 - 1-8-27/20, जी0एच0एम0सी0 - 1483, स्ट्रीट नं0-12, चिक्कडपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500020
1482	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी0 - ए0 - 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर0 टी0 सी0 बस स्टेण्ड के पास, कडपा - 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
1483	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं0 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्द्राबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1484	महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी	जायसवाल कॉलोनी, छपरा, जिला-सिवनी, मध्य प्रदेश- 480884
1485	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148 ।
1486	महामुक्ति दल	ग्राम - उसरांव, डाक घर - इटायें, तहसील - मड़ियाहूँ, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1487	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।
1488	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ढाबा, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1489	महान समतावादी पार्टी	म. न. 571, गली न. 10, आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा, निकट खिल्लूराम एकेडमी, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009



1	2	3
1490	महानवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1491	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं0-698, वार्ड नं0-14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1492	महाराष्ट्र बहुजन सन्मान पार्टी	केसकरवाडी,पो. भालवणी,ता. पंढरपूर,जि. सोलापूर महाराष्ट्र- 413310.
1493	महाराष्ट्र बहुजन वंचित अघाडी	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र- 415002
1494	महाराष्ट्र जनकल्याण पार्टी	शॉप नं. 9, पुंजानी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कन्नौजिन, करान्जा (लाड), जिला-वाशिम, महाराष्ट्र- 444105.
1495	महाराष्ट्र क्रान्ति सेना	वार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लाट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाईटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरंजी, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115
1496	महाराष्ट्र लोकहितवादी पार्टी	मौजा लेंडवे चितळे, तहसील-मंगळवेढा, जिला - सोलापूर, महाराष्ट्र - 413305
1497	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम - मांगवडगांव, तालुका - केज, जिला - बीड, महाराष्ट्र ।
1498	महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष	सुखसागर रिएल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, सॉई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1499	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदगज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1500	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1501	महात्मा मक्कल मुनेत्र कझकम	पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502
1502	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.
1503	महात्मा मक्कल सेवै पेरियक्कम	कार्यालय नं0 - 45, सुभा अघिला नगर, हवाई अड्डा - पी.ओ., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620007
1504	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आबादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा -131001
1505	महिला मजदूर किसान पार्टी	गाव-रुकानपुर, पोस्ट-माधोगंज, तहसील-बिलग्राम, जिला- हरदोई, उत्तर प्रदेश-241302
1506	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लॉक, सहकारा नगरा, बैंगलौर - 560092 कर्नाटक ।

1	2	3
1507	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 - 63, उद्यान प्लाजा, उत्तरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1508	महिला स्वाभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं० - 5, सरॉय करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125
1509	मैं ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
1510	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1511	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।
1512	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो०-सरवट (वसन्त विहार), पो०-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251001
1513	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1514	मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशां-ई-घौंसिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1515	मजलूम समाज पार्टी	ग्राम - मौदुखुर्द, तहसील - मवाना, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250404
1516	मक्कल आलुम अरसियल	नं० 2, एन.एस.के. फर्स्ट स्ट्रीट, पेरम्बूर, नेलवायल नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600011
1517	मक्कल अरसियल काची	3/463, पालकार दुरैसामी वट्टम, जी.पी. पालिटेकनिक नियर, जी.पी.नगर, पालनांगकुप्पम गाँव, इलागिरी पोस्ट, तीरुपथुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु - 635601
1518	मक्कल देसिय काची	137, कक्कन कॉलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600034
1519	मक्कल कूटामैपु काची	न. 348ए, केप रोड, एडूकडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.
1520	मक्कल मसोथा काँची	नं. 480, आर.के.वी. कॉम्पाउन्ड, थेथाकुडी, कथीरुप्पु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागापट्टीनम- जिला, तमिलनाडु- 609109
1521	मक्कल मेम्पत्तु कड़गम	कार्यालय 2/4ए, नार्थ स्ट्रीट, वीरारेड्डेकुप्पम, पझायपट्टीनम पोस्ट, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु- 606104

1	2	3
1522	मक्कल मुनेत्र कांग्रेस	नं. 12, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, बालाजी नगर, पुदुचेरी-605013.
1523	मक्कल मुन्नेटरा काचि	62/77, पेरूमल पुरम, कामाराज नगर, 2 <sup>nd</sup> स्ट्रीट भवानी, जिला-इरोड, तमिल नाडु- 638301
1524	मक्कल मुन्नेत्रा पेरावाड़	डोर नंबर 61E, पोंडी रोड, कोलियानुर गाँव, जिला - विलुपुरम, तमिलनाडु - 605103.
1525	मक्कल नाला काजगम	नं0 30, वार्ड-2, नेताजी नगर, तातनावलासड़, कोडुम्पली पोस्ट, तिरुपत्तूर, तालूक, जिला तिरुपत्तूर, तमिलनाडु- 635653.
1526	मक्कल नलवाजहवुक काँची	फ्लैट नं0 - जी3, वेटरी फ्लैट्स, नं0-7 (पुराना नं0 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1527	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
1528	मक्कल नीति काँची-इंडिया	नं0 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लेक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला - पेराम्बलुर, तमिलनाडु - 621220
1529	मक्कल राज्यम काचि	नम्बर 1/427, कादुर मेन रोड, पोस्ट- पुदुवेटाकुडी, तालुक -कुन्नम, जिला-पेरमबलुर तमिलनाडु- 621716
1530	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं0 41, पुराना नं0 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।
1531	मक्कल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069
1532	मक्कल सेवई काची	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाउर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057
1533	मक्कल तिलागम मुन्नेत्र कलगम	डी. नं. 6/431, पुन्नायपुरम, कडायानल्लूर तालुक, टेन्कासी, जिला-तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627855.
1534	मक्कलाचची कचची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बू अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु- 627412
1535	मक्कलाचची मुनेत्र कडगम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126
1536	मालवा कांग्रेस	133, स्नेह नगर, सपना-संगीता रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001

1	2	3
1537	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साईं अपार्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर कॉलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72
1538	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6, बागलिंगमपल्ली, अपोलो फार्मसी के ऊपर, टीएसएसपीडीसीआई, कार्यालय और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास, हैदराबाद, तेलंगाना-500044
1539	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राऊंड फ्लोर, ऑफिस नं० - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400003
1540	मानव आवाज पार्टी	मोहल्ला - नलापुर, वार्ड नं० - 6, नारनौल, जिला - महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001
1541	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं० 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र।
1542	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1543	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
1544	मानव कल्याण मंच	सा० 6/186, एम० एक्स - 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1545	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1546	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं०-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1547	मानव समाधान पार्टी	21, सूखी सेवनियां, पोस्ट-सूखी सेवनियां, तहसील-हुजूर जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462010
1548	मानव संघर्ष पार्टी	हाउस संख्या-54, ग्राम और पोस्ट-मनियां, ब्लॉक-भदौरा, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
1549	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किडूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1550	मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी	एच. नं.26, जोशी टोला खीरी टाउन-1, पी.एस.खीरी, तहसील-लखीमपुर, जिला-खीरी, उत्तर प्रदेश-262702
1551	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001
1552	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट - अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

1	2	3
1553	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1554	मांग समाज पार्टी	ग्राम-पहदुल्लम (पहदेवाजीत), पोस्ट-रतनपुर, थाना हलधरपुर, सदर मऊ, जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश-221706
1555	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येगबाम लैकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल - 795010 मणिपुर।
1556	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेन्ट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1557	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1558	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै - 625 001 तमिल नाडु ।
1559	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला - शिवगंगई, तमिलनाडु - 630702
1560	मनीथनेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1561	मन्निन मैथरगल कडागम	नम्बर-62, वार्ड-4, स्थानमपट्टु, कामराज स्ट्रीट, मनमथी (पी.ओ.) तिरुपोरूर (टीके), चेंगलपेट्टु जिला, तमिलनाडु-603103
1562	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1563	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितिय तल, स्वागत काम्पलेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात - 382443
1564	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नदी, तहसील- मडियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1565	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1566	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं० - 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1567	मरुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कडगम	'त्यागम,' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
1568	मरुमलार्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पप्पिरेड्डीपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1569	मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	# 1-8-742/2/3, बाग लिंगमपल्ली, अचाय नगर, हैदराबाद-500044, तेलंगाना
1570	मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड-पोस्ट ऑफिस, थिरुशूर - जिला, केरल- 680301.

1	2	3
1571	मार्क्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251002
1572	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।
1573	मातृभूमि सेवा पार्टी	ए- 118, दुर्गा विहार, देवली के पास, नई दिल्ली-110062.
1574	मौलिक अधिकार क्रांति पार्टी	एच. नंबर-402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2-3, गली नंबर-3, फ्रेंड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009
1575	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गढ़ी अशरफ खान, जसमई रोड, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश
1576	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी-2/208, नन्द नगरी, शाहदरा, दिल्ली- 110093
1577	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1578	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लाट-ई/124, फेज-1, छिन्द, राउरकेला, जिला-सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015
1579	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं0 - 51, ओल्ड नं0 - 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600013
1580	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान ।
1581	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1582	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना- अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1583	मेरा भारत महान पार्टी	ईन्दरा नगर, ब्लॉक-3, पानिहाटी, पोस्ट-सोदपुर, जिला-24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700110
1584	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं0 - 142, गाँव - इस्लामपुर, पोस्ट - साऊथ सिटी-II, गुड़गाँव, हरियाणा - 122018
1585	मेरा वतन पार्टी	डी. न. 23-4-227/5, अशोक स्तंभ के पास, सुल्तान शाही, हैदराबाद, तेलंगाना - 500065.
1586	मेरकु तमिलागम काची	डी.नं.4/387, संजय गार्डन, थयमपलयम, मुथियानेरिचल (पीओ), कंगायम वाया तिरुप्पुर (टीके), तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडु - 638701
1587	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
1588	एम.जी.आर. मक्कल काची	नं. 6,4 क्रॉस स्ट्रीट, पहली मुख्य सड़क, गोपालपुरम पूर्व, पट्टाभिराम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600072.
1589	मिहिर सेना	नागर्स च्वाइस, एस-47, साउथ साइड, जी0टी0 रोड, जी.टी. रोड, लाल कुंआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1590	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रो रोड काम्प्लैक्स, मोमिनपुरा, नागपुर - 440018, महाराष्ट्र।
1591	माइनोरिटी पीपल्स पार्टी	पीपी न.-55,56, दांग न.22,23, ग्राम-ढिंगारति, मौजा-लहारिधाट, पोस्ट- लहारिधाट, थाना- लहारिधाट, जिला- मोरिगाव, असम- 782127
1592	मिशन ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट जस्टिस पार्टी	रूम नं० -2, जीवदानी चाल, कुंभार पाड़ा, विरार (ईस्ट), विरार, महाराष्ट्र-401305
1593	मिशन एकता पार्टी	म0 नं0 790/12, सलारा मोहल्ला, रोहतक, हरियाणा-124001
1594	मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी	आर-7, साइड-5, (यूपीएसआईडीसी) कासना, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308
1595	मिशन नया दिगंत पार्टी	होल्डिंग न0 1275, खंडोघोष, पुरश्च-खंडघष, जिला-पूरव बर्धमान पश्चिम बंगाल-713142
1596	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203
1597	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट - आसी, जिला - दरभंगा, बिहार - 847203
1598	मिथिलावादी पार्टी	ग्राम-पलिवार, पोस्ट-रांटी, थाना-राजनगर, वार्ड नंबर-08, हनुमान मंदिर के समीप, मधुबनी बिहार-847211
1599	मिजोरम पिपुल्स काँफ्रेंस	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम)
1600	मो दल	कार्यालय - मुकुर प्रेस प्रेमाईजेज, भाषाकोस लेन, नीम चौरी, पोस्ट- चांदनी चौक, पी.एस.- लाल बाग, जिला - कटक, ओडिशा - 753002.
1601	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1602	मॉडर्न सिटीजन पार्टी	ग्राम-रानीचक, थाना-गढपुरा, जिला-वेगूसराय, बिहार-848204
1603	मॉडर्न पीपल पार्टी	मकान नंम्बर 5-109-3/बी/1, तीसरी मंजिल, जुबली हिल्स रोड, अपोजिट, जे.आर.सी., राय दुर्गा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500033

1	2	3
1604	मूल भारती (एस) पार्टी	मं० नं० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।
1605	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394, गली नं.18, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करन विहार, करनाल, हरियाणा-132001
1606	मूलनिवासी समाज पार्टी	गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।
1607	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।
1608	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं०-143, कुर्रे के बाद बना नं०-143/3, ग्राम-जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1609	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21, डुप्लेक्स नं. 05, नोमान डुप्लेक्स, इकबाल एवेन्यु के पास, नियर कैनल, फतेहवादी, अहमदाबाद, गुजरात- 380055
1610	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1611	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1612	मूलनिवासी अधिकार पार्टी	एस.-96, यू.पी.एस.आई.डी.सी., सेक्टर-5, जगदीशपुर, जिला-अमेठी उत्तर प्रदेश- 227817
1613	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
1614	नाडालुम मक्कल कल्छी	7/330, भू तल, दुवारगा नगर, मनाली न्यू टाउन, चेन्नै, तमिलनाडु- 600103.
1615	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
1616	नाम तमिलार काँची	द्वार नं० 7, प्लॉट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, , चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु ।
1617	नारी नर रक्षक पार्टी	राज लक्ष्मी निवास, ककराली रोड, ग्राम-अनेग, बेहटा, अब्दुल पुर, प्राथमिक पाठशाला के पीछे, तहसील-हरदोई, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001
1618	नव भारत निर्माण सेवा पार्टी	प्लॉट न.145/245/1141/1356, खाता न.50/4873, हाथी पथर लेन, त्रिनाथ मंदिर के पास, रानीगुडा फार्म, थाना, जिला-रायगडा, ओडिशा-765001
1619	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं०-202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112



1	2	3
1620	नागरिक अधिकार पार्टी	नंदलालपुर, पोस्ट - नंदलालपुर, वाया - मथुरापुर, जिला - भागलपुर, बिहार- 813222
1621	नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली- 110062
1622	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
1623	नागरिक एकता पार्टी	3/305, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
1624	नागरिक सेवा पार्टी(आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं0 - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1625	नागरिक विकास पार्टी	728, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कोरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व),
1626	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युंजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1627	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेन्टर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1628	नकी भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं0-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1629	नलवजहिककडगम	कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तदपत, चेन्नई, तमिलनाडु- 600002
1630	नम इंडिया नाम इंडियार काँची	मकान सं0 9/8, फ्लैट सं0 -3, स्वागता अपार्टमेंट, चेलप्पा स्ट्रीट, ओट्टेरी, चेन्नई तमिल नाडु- 600012
1631	नमाधू मक्कल काँची	नं0 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु ।
1632	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1633	नम्मा कांग्रेस	नं0 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर—560087 कर्नाटक।
1634	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
1635	नारी पंचायत पार्टी	प्लॉट नंबर-79, पॉकेट-4, सेक्टर-23बी, द्वारका, नई दिल्ली-110 077
1636	नर्मदाखण्ड नवनिर्माण सेना	मकान नंबर 20, गांव-लाखौं, पोस्ट-छांटा, तहसील और जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश-481880

1	2	3
1637	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरुखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1638	नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी	हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर.पी.एस. रोड, दानापुर, जिला- पटना, बिहार- 801503
1639	नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं0 - 7, एस0 ए0 एस0 नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1640	नेशनल अमन पार्टी	मो0 - पंजाबियान, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246762
1641	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली - 110094
1642	नेशनल आवामी यूनाईटेड पार्टी	मकान नं.- 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1643	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनॉरिटीज़ क्रांति दल	1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान - 334003
1644	नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबियान-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1645	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400097
1646	नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं0 - 9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700029
1647	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बालिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), राजामपेट मण्डल, कडापा - जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1648	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव - मौलानीपुर बाजार, पोस्ट - तरवाँ, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1649	नेशनल डेमोक्रेटिक मिशन	सी-63, प्रताप नगर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
1650	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल) ।
1651	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
1652	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1653	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ इंडिया	21/7, नवीन फ्लैट्स, मीनाक्षी स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई तमिलनाडु- 600011

1	2	3
1654	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रण्ट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
1655	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं०-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक ।
1656	नेशनल इक्वल पार्टी	एस एच 15/83, 3डी, विवेकपुरम भरलाई, शिवपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221003.
1657	नेशनल एक्स सर्विसमैन पार्टी	ए-4, विश्वा प्रइज अपार्टमेंट, नुक्कमलयम मैन रोड, पेरुम्बक्कम, चेन्नई-600100
1658	नैशनल फ़ैडरल पार्टी	म. नं० 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, बसंत गाँव, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
1659	नेशनल फिफटी फिफटी फ्रंट	मकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट-शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1660	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1661	नेशनल इंकलाब पार्टी	E1/576, गली नंबर-12, (मजार के पास), 33 फूट रोड, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दिल्ली- 110094.
1662	नेशनल जागरण पार्टी	मकान संख्या-14, मोंटेशरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार- 800001.
1663	नेशनेल जन दल	एच.नं. 1/19, हौसिलनगर, एम.एच. कुहूसी, थाना-कोतवाली नगर, फैज़ाबाद, जिला-फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश- 224001
1664	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महरौली रोड, गुड़गांव, हरियाणा ।
1665	नैशनल जनमंडल पार्टी	प्लॉट नं० - एफ-2, (फस्ट फ्लॉर) प्लॉट नं० 105-106, अलकापुरी योजना, गाँव निवारु, निवारु रोड, जयपुर, राजस्थान-302012
1666	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चैंच्या वाली ढाणी मु० पो० -खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर-303103 राजस्थान ।
1667	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं० -385, खाता नं० - 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1668	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली- 110092 ।
1669	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम - जिसौरी, डाकखाना - मुंडाली, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1670	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।

1	2	3
1671	नेशनल महा सभा पार्टी	माँ कृपा, अमरदीप सोसाइटी, अंबिका चौक, दीसा, बनासकांठा - 385535, गुजरात.
1672	नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	596-ई-डी/एस,आजाद कुटिया,बारा-2,कानपुर नगर,उत्तर प्रदेश - 208027
1673	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं0 - 1-236, गाँव - गंगावरम, मंडल - गुरजाल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1674	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं0 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई- 6000 78, (तमिलनाडु) ।
1675	नेशनल पार्टी	रूदेन बदायूँ-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
1676	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद- कौशाम्बी, -उत्तर प्रदेश -212218
1677	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरुणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1678	नेशनल प्रजा शक्ति (जनता) पार्टी	म.न.16-1-159,चिन्नादरपल्ली (वी),हनवाडा (एम),महबूबनगर (जिला) तेलंगाना राज्य,पिन-509334
1679	नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लौर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्कलेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068
1680	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होल्डिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1681	नेशनल समाजवादी कांग्रेस	नं.42,नायडू लेआउट,कुवेम्पु नगर,बैंगलोर,कर्नाटक- 560014
1682	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस	एम0आई0एस0एफ0ए, कोडुवली (पी0 ओ0), कोझिकोड डी टी., केरल-673572.
1683	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, प्रथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तालेगांव, डभाड़े, तालुका- मावल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 410507
1684	नेशनल टार्गेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली- 110020.
1685	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस- कालगीगंज, वाया/थाना-कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1686	नैशनल युनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001

1	2	3
1687	नेशनल वोमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वैकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरूर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500097
1688	नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी	दूसरी मंजिल, एटीएम के सामने, नवी भाग, बेरासिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश -462038.
1689	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कॉलानी, भीलखेड़ी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1690	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1691	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप हॉउस, गाब्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।
1692	नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया	जागो बिस्वा, होल्डिंग नं. -4719, ग्राम- हत्गाचा, डाकघर- बानीपुर, थाना संकरैल, जिला-हावड़ा, पिन- 711304
1693	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273404 ।
1694	नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी	नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब- 141003
1695	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टॉक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1696	नेशनलिस्ट पावर पार्टी	एल. -1 1100/2, गली नं० 25, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1697	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	ए9/124, कल्याणी थाना तथा पोस्ट ऑफिस-कल्याणी, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल-741235.
1698	नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
1699	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।
1700	नव भारत जागरण पार्टी	गोलेच्छा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, फलोदी, जिला- जोधपुर, राजस्थान- 342301
1701	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1702	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला - जगतनगर, कस्बा व पोस्ट - भोगाँव, जिला - मेनपुरी, उत्तर प्रदेश - 205262 ।
1703	नव हिन्द पार्टी	130, गाँव-दरबारपुर, पोस्ट-अजरका, तहसील- मुंडावर, अलवर, राजस्थान-301401
1704	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी - 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001

1	2	3
1705	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्वे सं०-627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।
1706	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-वाडा ( पी व एम ) यूतूनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1707	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापर्थी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1708	नवा सोशलिज्म पार्टी	डोर नं० 18-6-35बी, फर्स्ट फ्लोर, सुन्दरैय नगर, तिरुपति आंध्र प्रदेश-517501
1709	नवभारत सेना	नंबर 14/15, चामुंडेश्वरी बिल्डिंग, तीसरा क्रॉस, चौथा मेन रोड, चमराजपेट, बैंगलुरु, कर्नाटक-560018
1710	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
1711	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्लापुड़ी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1712	नवतारम पार्टी	डोर नं० 26-37, सुब्बायथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला - गुंटूर, आंध्र प्रदेश - 522616
1713	नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सहयाद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410401
1714	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- जवाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176027
1715	नवभारत पार्टी	538क/409आदर्शपुरम, त्रिवेनीनगर-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226020
1716	नवभारत समाज पार्टी	ग्राम-परसपुर, पो.-बुढनपुर, थाना-भुदकुकुड़ा, तहसील- जखनिया, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-275203
1717	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1718	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।
1719	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112
1720	नवलोक समाज पार्टी	24बी, रेणुका बाग, नयी अवधेशपुरी कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010.
1721	नवनिर्माण पार्टी	प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर- 5, अर्बन एस्टेट, तहसील- थानेसर, केडीबी रोड, जिला- कुरुक्षेत्र, हरियाणा- 136118
1722	नवोदय जनतांत्रिक पार्टी	खसरा नंबर 31/23 और 49/3/81, गुप्ता निवास, गली नंबर-45, बी-ब्लॉक, कौशिक एन्क्लेव, पुरारिक, दिल्ली- 110084

1	2	3
1723	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्टुर रुरल मण्डल, जिला-गुन्टुर आन्ध्र प्रदेश ।
1724	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1725	नवयुग निर्माण पार्टी	सी - 2, रुम नं० 401, शगुन रेसिडेंसी, माहयावंशी फलिया, दादरा, दादरा नगर हवेली- 396193
1726	नवयुग पार्टी	1-ग्राउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली- 110017
1727	नवयुग प्रगतिशील मोर्चा	आदर्श नगर, पोस्ट-पाकुड, जिला-पाकुड, झारखण्ड- 816107
1728	नवयुवक आत्मनिर्भर पार्टी	एट-सी/ओ बबीता कंवर, 213 रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, विपरित कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान- 302012
1729	नवा पंजाब पार्टी	52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001
1730	नया भारत पार्टी	8- बापु सब्जी मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान - 306902
1731	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
1732	नया सवेरा पार्टी	प्लॉच नं० 0 जे-2-530/8, जे-2 ब्लाक, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1733	नीथी निजयाथी पार्टी	डोर नं० 36-178ए, पदमावति नगर, कल्याणापूरम, नारायणावनम मंडल, जिला- चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश- 517581
1734	नेहरु जनहित काँग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला- गुडगाँव, हरियाणा ।
1735	नेताजी आदर्श पार्टी	298, कुट्टीयानी, 28- थोडुपुझा, इड्डुकी जिला, केरल- 685584
1736	नेताजी काँग्रेस सेना	रंगा प्लेस, ग्राउंड फ्लोर, एस.नं. 48/2/10, वाघजल नगर, अम्बेगाँव खुर्द, कटराज-पो.ओ., पुणे- 411046, महाराष्ट्र
1737	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला- शाहजंहापुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।
1738	नेताजी मक्कल कट्चि	नंबर 6/33, रामकृष्ण गली, गांधी नगर, सलियामम्, चेन्नई, तमिलनाडु-600093
1739	न्यू भारतीय क्रान्ति पार्टी	ग्राम- सुंगुलपुर, पोस्ट व थाना- खेतासराय, तहसील- शाहगंज, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222139.

1	2	3
1740	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु- 641025
1741	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1742	न्यू इंडिया यूनाईटेड पार्टी	दुकान नंबर बी/6, उर्वी कॉम्प्लेक्स, नरोदा बेथक, नरोदा अहमदाबाद-382350, गुजरात
1743	न्यू लेबर पार्टी	रूम न०. 8/249, पेरुम्बिल्लिशेरी, पी.ओ - चेर्पु, जिला - तृस्सूर, केरल- 680561.
1744	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15/16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई-600004 तमिलनाडु ।
1745	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1746	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1747	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०-एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1748	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1749	निर्भय भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1750	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1751	निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया-741502 पश्चिम बंगाल ।
1752	निर्मल इण्डिया पार्टी	सा० 6/8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाड़िया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश
1753	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1754	निज गोयन्कर रिवुलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1755	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1756	नार्थ बंगाल पीपल्स पार्टी	ग्राम-रबिन्दापल्ली, पोस्ट-मोहनबल्ली, थाना- रायगंज, जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733134



1	2	3
1757	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1758	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मावली मावदतबाकी, डांग नाँगपाथा, शिलाँग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1759	न्याय पार्टी	नं.319,स्वामीपाड़ा,बुढ़ाना गेट,मेरठ सिटी,उत्तर प्रदेश- 250002
1760	न्याय सत्ता पार्टी	ग्राउंड फ्लोर,मकान नंबर 303,गली नंबर 12,चंदन विहार,वेस्ट संत नगर,बुराड़ी रोड,दिल्ली-110084
1761	न्यायधर्मसभा	प्रगति विहार,जगजीतपुर,कनखल,हरिद्वार,उत्तराखण्ड- 249408
1762	न्यायवादी जनता पार्टी	कंचनपुर चौराहा (बागी रोड), ग्राम सकरामउ, पोस्ट-मऊ आइमा,जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212507
1763	ओडिशा जन मोर्चा	प्लॉट सं0 -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर-751002, ओडिशा
1764	ओडिशा जनता पार्टी	एटी-छघरिया,पीओ-बगडा,पीस/जिला-केंद्रपाडा,भुवनेश्वर,ओडिशा-754212
1765	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं.44 (प्रथम मंजिल),सत्यनगर,पो.ऑ.-सत्यनगर,थाना-खारवेल नगर,नगर-भुवनेश्वर,जिला-खुर्दा,ओडिशा-7510007
1766	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, ब्रुनदामल, पोस्ट ऑफिस- बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसूगुड़ा, जिला- झारसूगुड़ा, ओडिशा- 768202.
1767	ओडिशा प्रजा दल	नवीन भवन छडासिंह,पोस्ट-बडानागाना, वाया-महिमागडी,जिला-ढेनकानल,ओडिशा-759014
1768	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।
1769	वन इंडिया वन पीपल पार्टी	14/916,वडक्कनचेरी अंगडी,सीटि लाईट शोपिंग कोम्पलेक्स,सेकन्ड फ्लोर,वडक्कनचेरी, केरल-678683
1770	वन इंडिया वन पॉलिसी पार्टी	अरक्कल टॉवर,क्रिस्टोफर नगर,ओल्लुर गांव,त्रिशूर तालुक,त्रिशूर जिला,केरल - 680306
1771	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1772	ऑपेन पीपल्स पार्टी	पवार हाउस, साईबाबा मंदिर के पास,मंगल रघो नगर, टिसगाँव रोड,कल्याण (ई),जिला-ठाणे,महाराष्ट्र-421306
1773	उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।
1774	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा) ।

1	2	3
1775	आवर महात्मा नेशनल पार्टी	नं. 62(द्वितीय तल),पिलैईयर कोईल स्ट्रीट,कामराज स्ट्रीट,गांधीनगर,के.के. नगर पोस्ट,तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620021
1776	पचाई तमिझागम काँची	12/143, इदिंथाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु-627104
1777	पच्चासी परिवर्तन समाज पार्टी	गाँव एवं पोस्ट-मोहारी खुर्द,मोहनलालगंज,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226305
1778	पहाड़ी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी,पट्टी-सारजूला,पोस्ट-भागीरथपुरम,विकास खण्ड-चम्बा,जिला-टिहरी गढ़वाल,उत्तराखण्ड-249145
1779	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट-रैसना, तहसील- नदोती, जिला- करूली, राजस्थान-322215
1780	पंचपौनिया समाज पार्टी	गांव और पोस्ट -आँटामुजीब नगर,वार्ड नंबर 8,पी0एस0 - हाथीदा,जिला-पटना,बिहार-803303
1781	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाज़ार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1782	पारडाइज पार्टी	कबिता अपार्टमेंट,श्रीनिकेतन रोड,पोस्ट-बोलपुर,जिला-बीरभूम,पश्चिम बंगाल- 731204
1783	परम दिग्विजय दल	मकान न0 - 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1784	पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबॉग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.
1785	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ -202002, उत्तर प्रदेश ।
1786	परिसरा बंधु पार्टी	नम्बर 281,जनानी,बी.सी.सी.लेआऊट दुसरा स्टेज बस स्टेड के सामने,विजयनगर,बेंगलूरु,कर्नाटक-560040
1787	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश-473551
1788	परिवर्तन राजनीती पार्टी	डी-41/28/जी. एफ.गली नम्बर-2,डी-ब्लाक, ईस्ट विनोद नगर वार्ड मयूर विहार फेज-2,दिल्ली-110091
1789	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सडक, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।

1	2	3
1790	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1791	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1792	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं० 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा-768001
1793	पश्चिमांचल निर्माण पार्टी	श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, द्वारकाधाम शहर के पीछे, ग्राम - शिवया जनपद मेरठ, जिला - मेरठ, यू.पी.-250110
1794	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं० - 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर - 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1795	पाशुमपोन मक्कल कड़गम	नं० - 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु-600020.
1796	पथिक जनशक्ति पार्टी	सी/ओ राजकुमार, पी.ओ.-सिधानी, तहसील-टोहाना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125133
1797	पथिक स्वराज पार्टी	सी/ओ रविन्दर सिंह देवधर, पुत्र श. बलबीर सिंह देवधर, गांव और पोस्ट-बिहटा, सील-अंबाला कैंट. जिला-अंबाला, हरियाणा-133101
1798	पटरी व्यापारी पार्टी	गौडा-गोरखपुर, सेक्टर-22, भूखंड संख्या सी-5/23, गौडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273209.
1799	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1800	पट्टालि मक्कल काँची	नंबर 10, तिलक स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-17
1801	पीस अण्ड फ्रिडम पार्टी	सीटीएस नंबर 5214, फ्लॉट नंबर 180, नगर परिषद कॉलोनी, कोथलज रोड, परिवल मॉलजवळ, महाराष्ट्र-431124
1802	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो०- बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1803	पीजेन्ट्स एण्ड वर्क्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुड़े निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
1804	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1805	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।

1	2	3
1806	पहचान पीपलस पार्टी	हनीफ मंजिल,चंदन चौक,रानी खेड़ा दरवाजा,निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312601
1807	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुधजेंधी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगपैर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037
1808	पीपल प्रोटेक्शन पार्टी	डी.न. 7-97/2,श्रीनगर कॉलोनी,सन रेज़ स्कूल,पसुममुला रोड,कुंतलूर,हयातनगर,रंगारेड्डी जिला तेलंगाना - 501505
1809	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, नैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1810	पीपल्स जस्टिस पार्टी	मकान संख्या 120/209,(120/096बी),वार्ड - हजरतगंज,रामतीरथ,बेलदारिलेन,लोकभवन के पीछे,लालबाग,लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226001.
1811	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012
1812	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रुड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1813	पीपल्स पार्टी ऑफ लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनंद - पी.ऑ, नेदुमंगाडु, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 690521
1814	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर- 751021, उडीसा ।
1815	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीदरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-152101.
1816	पीपल्स युनियन पार्टी	धर्मावत हाउस, हाउस नं. 1015, शुक्रावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे-411002, महाराष्ट्र
1817	पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलाइन्स	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर
1818	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18, (केरल) ।
1819	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली-110030 ।
1820	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006
1821	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल, तालुका एवं जिला- भरूच, गुजरात- 392001
1822	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1823	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।

1	2	3
1824	पीपुल्स रिसर्जेन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोम्द्रम सेलुंगबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ओ/पी.एस-लाफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1825	पीपुल्स रूनिंग पार्टी	फ्लैट नं०-74, गांधी नगर, चकाली गुन्टा, एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यू वार्ड-32, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
1826	पेरियार अम्बेडकर मुनेत्र कडगम (पी.ए.एम्.के.)	एमआईजी नंबर-8, डॉ.बी.आर.अम्बेडकर हाउस, टीएनएचबी, बरगुर, पी.आर और तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिल नाडु-635104
1827	पेरुन्थालाईवर मक्कल काँची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु।
1828	फूलन जनता पार्टी	ग्राम- मोहम्मदपुर कंध, पोस्ट - इमलो, विकास खण्ड धर्मापुर, तहसील - सदर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222180
1829	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1830	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील- भोगाँव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।
1831	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	मढ़रिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ -491001
1832	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
1833	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहाँ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1834	पॉलिटिकल ऐसंशियल और ऐक्यूरेट काँसिल ऑफ एक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं० 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टनम, जिला - विजाग, आन्ध्र प्रदेश - 531116
1835	पोलिटिकल जस्टिस पार्टी	म. न.796, जी-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201005
1836	पोलिटिकल शोषित मानवतावादी नेशनल दल	4-सी, ए.आई. आपर्टमेन्ट, वजीरहसन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1837	पॉलिटिकल टीम इंडिया	मकान नं.182, असंल कोर्टयार्ड, दहतोरा शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
1838	पॉन्डिचेरी पीपुल्स राइट्स पार्टी	#1, सुब्रमनियर कोइल स्ट्रीट, कुवायारपालयम, पॉन्डिचेरी- 605013
1839	पूरबिहा लोग पार्टी	ग्राम-पिपरा तिवारी, पोस्ट-सखवनिया, जिला- खुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274402

1	2	3
1840	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश- 209601
1841	पूर्व सैनिक आल इंडिया दलित एवं निर्बल वर्ग विकास पार्टी	प्लॉट संख्या-96,ग्राम हांसा पुर निकट झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज,द्वारिकापुरी,डाभासेमर,जनपद अयोध्या,उत्तर प्रदेश-224001
1842	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं0 - 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1843	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं0 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
1844	पूर्वांचल शोसित समाज अपना दल पार्टी	मकान न:739,देवरिया खास,ओल्ड वार्ड न:6,न्यू वार्ड न:11/749,सी.सी.रोड,हनुमान मंदिर की पश्चिमी और,भगवान चौराहा की पश्चिमी और,पोस्ट & तहसील-देवरिया,जिला-देवरिया,उत्तर प्रदेश-274001
1845	पोदुवुडमै कटचि	नंबर 1259, पेरुमाल कोविल स्ट्रीट, कृष्णापुरम, कांडिगै, कन्निगैपेर पोस्ट, उथुकोट्टई तालुका, तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु - 601102
1846	प्रबल भारत पार्टी	ग्राम- अण्डहरा,पोस्ट+थाना- परसौनी,जिला-सीतामढ़ी,बिहार- 843325
1847	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं0 - 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1848	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम०डी०-26-17/6, एस०आर०टी०आर०एम०सी०एच० चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
1849	प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा	मकान नं. - 130ए/3ए, तेलियरगंज, भूसावाली गली, पोस्ट - तेलियरगंज, जिला - प्रयागराज, यू.पी. - 211004
1850	प्रगतिशील जनता अधिकार पार्टी	4 - का,गांव और पोस्ट - भुवल चक, पी.एस. - जमानिया, जिला - गाजीपुर,उत्तर प्रदेश - 232336.
1851	प्रगतिशील जनता पार्टी	बजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड,थाना-राजीव नगर,पोस्ट-आशियाना नगर,पटना-800025,बिहार
1852	प्रगतिशील लेबर पार्टी	एस. 21/127-के, सुभाषनगर कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
1853	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो0 ओ0 - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड ।

1	2	3
1854	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं०-605/334, वार्ड नं०-44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना -सिविल लाईन्स, जिला -गया, बिहार।
1855	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।
1856	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1857	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1858	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील-चांदुरबाजार, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1859	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं.4-107-1,एस.सी.कॉलोनी,पंचलिगाला ग्राम,कर्नूल मण्डल,कर्नूल जिला,आन्ध्र प्रदेश-518004
1860	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1861	प्रजा एकता पार्टी	मकान नं. 15-9-86 से 88,श्रीनिवासा निलयम,महाराजगंज,लोकालिटी-गौलीगुडा चमन,जला-हैदराबाद,तेलंगाना - 500012
1862	प्रजा क्रिपा पार्टी	शॉप नम्बर -2,हरी ओम अपार्टमेंट, ब्लॉक सी-33/124-125, ओपीपी चोपडा कोर्ट, उल्हासमगर महाराष्ट्रा-21003
1863	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाड़ा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1864	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मेन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) नंनजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बैंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक- 562106
1865	प्रजा प्रस्थानम पार्टी	श्री बालाजी रेजीडेंसी, डोर नं० 1-116-3, प्लॉट नं. एमआईजी-48/12, जीएफ-1, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापट्टणम-530017.
1866	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड,हापुड़ - 245101 उत्तर प्रदेश ।
1867	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. - घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500098
1868	प्रजा सेना पार्टी	एच. नंबर 4-3-167 गजुलपेट,मंटपल्ली टाउन और मंडल,जिला- जगितल,तेलंगाना- 505325
1869	प्रजा सेवा अंकित पार्टी	2-2-16ए/1, आरटीसी कॉम्प्लेक्स के बगल में, पीठापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश-533450

1	2	3
1870	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3 -1सी, रामचन्द्रापुरम ग्राम, ताडा (पी), साथयावेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1871	प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी	सर्वे नं.-1073, वसंत वाडगो, निकट के-7 सर्किल, गाँधीनगर, रंधेजा रोड, गाँधीनगर, गुजरात- 382026
1872	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
1873	प्रजा वेलुगु पार्टी	म.नंबर 5-21, पुल्मामिदी (विलेज), नवाबपेट, विकाराबाद जिला, तेलंगाना-501111
1874	प्रजा विजय पक्ष	प्रथम माला, एच एच आई-08, अभीनव ऐवेन्यु, झाडेश्वर चौकड़ी, झाडेश्वर, तहसील भरूच, जिला-भरूच, गुजरात- 392011
1875	प्रजा रैयता राज्य पक्षा	मकान सं० - 937, मंजूनाथा नगर, केन्गेरी रोड, तवाराकेरे, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक - 562130
1876	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं.11, श्रीकृष्ण नगर, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1877	प्रजामहाराष्ट्र पक्ष	निकट परीजात भवन, तीसरी मंजिल, माथुर नगर, तुलिंग रोड नालासोपारा (पूर्व), ता० - वसई, जिला - पालघर, महाराष्ट्र- 401209
1878	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174
1879	प्रजाराज्या समिथी	6-3-143, दुर्गाभागडडा, करीमनगर, तेलंगाना-505001
1880	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु०-शिलेश्वर, पो०-आदस, ता०-मुलशी, जिला - पूणे - 412108, महाराष्ट्र
1881	प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी	ग्राम व पोस्ट - परासी, तहसील - मनगवा, जिला - रीवा मध्य प्रदेश - 486111
1882	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं० - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1883	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन - 40, सरॉयपित्थू ऑशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
1884	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद-382345 गुजरात ।



1	2	3
1885	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ़, छत्तीसगढ़
1886	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1887	प्रजातांत्रिक जनसेवक दल	मुजफ्फरा बागडपुर, तहसील एंव जिला - हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101.
1888	प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1889	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश।
1890	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम - समयपुर, दिल्ली - 110042 ।
1891	प्रजावाणी पार्टी	मकान नं.11-83-लिंगडीवरी भावनाअमु, विनायक नगर, कुजाकुजा रोड, सूर्यापेट, तेलंगाना - 508214
1892	प्रपंच तेलुगु भाषा परिरक्षण पार्टी	मं0 सं0 5-19, चिमनगुटपल्ली गाँव, वनपर्थी मंडल, वनपर्थी जिला, तेलंगाना-500089
1893	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला- 695011
1894	प्रवृत्ति पार्टी	980, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास, पालम गांव, नई दिल्ली-110045
1895	प्रेम जनता दल	म. नं0 - 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1896	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाड़ा, वाया- बालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा ।
1897	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1898	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच0 आई0 जी0, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1899	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम- किरतपुर, पोस्ट- पिंडरा, तहसील- पिंडरा, थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1900	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नज़फगढ़, नई दिल्ली- 110043
1901	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए-37 (खसरा नं.2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074

1	2	3
1902	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1903	पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी	5/200,सेक्टर-एच,जानकीपुरम,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226021
1904	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेन्ट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014
1905	पब्लिक पार्टी	“इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।
1906	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, डब्लु.ई.ए, करोलबाग, नई दिल्ली-110005
1907	पब्लिक उत्थान पार्टी	म.स. 236,फतेहगढ़,फतेहगढ़,पी.स.- खरगपुर,तहसील-गोंडा,पावर हाउस के पास,जिला - गोंडा,उत्तर प्रदेश – 271204
1908	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं0 – 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110 ।
1909	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मटौर सेक्टर-70, एस.ए.एस नगर, सिंडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070
1910	पंजाब एकता पार्टी	बी- XII/46, ग्राम – फरीदकोट, वार्ड नं0 – 10, पार्ट-2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203
1911	पंजाब किसान दल	H.No.47,ग्राम - सराय मुगल,तहसील-राजपुरा,जिला-पटियाला,पंजाब-140417
1912	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोट, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।
1913	पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी	मोहिंदर बाग गांव सिसवान में स्थित है,गुरुद्वारा शीश महल साहिब के पास,डाकघर मुल्लालपुर गरीबदास,तहसील खरड,जिला मोहाली,पंजाब-140901
1914	पंजाब लोकहित पार्टी (बिर्मी)	भगवानपुरा,देहलोन रोड,लुधियाना,पंजाब-141120
1915	पंजाब नैशनल पार्टी	157,युनीवरसिटी ऐनकलेव फेज-1,गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर के पास,लाधवली,जालंधर,पंजाब- 144009
1916	पुन्नगई देशम पार्टी	3/58B,मुख्य बाजार,पेयकुलम,अशिर्वाथपुरम - पोस्ट,साथ्यान्कुलम - तालुक,थूथुकुडी - जिला,तमिलनाडु – 628 613
1917	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।

1	2	3
1918	पुरातचिकारा थोझिललार काँची	नं० 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल-नाडु ।
1919	पूर्वाचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1920	पूर्वाचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1921	पूर्वाचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-1, फेस- 1, सेक्टर- 12, द्वारका नई दिल्ली-110078
1922	पूर्वाचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट - सिकरारा, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1923	पूर्वाचल महापंचायत	नं० - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1924	पूर्वाचल राज्य जनांदोलन	एसपी टावर, बुद्धपुरम, बडेबन, ग्राम सभा- मड़वा नगर, बायींपास चौराहे के पास, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश - 272001.
1925	पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि	डी.नं.-6/58 साउथ स्ट्रीट, मुत्थुलक्ष्मीपुरम, मेगृहिणापुरम, तालुक-तिरुचेंदूर, जिला- थुथुकुडी, तमिलनाडु-628210
1926	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई - 600 002 (तमिलनाडु) ।
1927	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1928	कौमी एकता दल	भवन सं० - 228, मो० - अस्तुपुरा, तहसील - सदर, जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश ।
1929	कौमि इत्तेहाद रिपब्लिकन पार्टी	47/1, चेमुनियपेटा, रेवन्यु वार्ड न० 47, (बिसाईड हरि टावर), नागाराजपेटा कडापा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
1930	रचनात्मक जन मोर्चा	मकान संख्या - 752, खसरा नं० - 146, ग्राउंड फ्लोर, निकट कन्या विद्यालय, बुराड़ी गांव, नई दिल्ली- 110084
1931	रैडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनागिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना -501505
1932	रैडिकल पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकरिस्ट)	मकान नंबर 7-1371, कमरा नंबर 2, मदनपुर (गांव), कोठापट्टनम (मंडल), प्रकाशम (जिला), आंध्र प्रदेश- 523280
1933	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।

1	2	3
1934	रायजोर दल	हाउस नंबर 1, चिड़ियाघर-नरंगी रोड, मॉडर्न स्कूल के पास, मथघरिया, पी.एस.-नूनमती, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781020, असम
1935	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1936	राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 761, मात्मा गाँधी दस्तकर नगर, नायला, जयपुर, राजस्थान- 303012
1937	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
1938	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1939	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोद्धपुर, राजस्थान- 342001
1940	राजस्थान राज पार्टी	जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029
1941	राजस्थान विकास पार्टी	43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान) ।
1942	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली- 110084.
1943	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126
1944	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1945	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204- शाही भवन, डाक बंगला, पटना - 800001, बिहार ।
1946	राज्य स्वराज पार्टी	931, इंदिरा नगर, देहरादून, उत्तराखंड-248006
1947	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं.10-4-ए /390, एड्डागोड़ा, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश ।
1948	रक्षक जन मोर्चा पार्टी	अराजी नं - 813/म.न. - 180ए, गिरजा नगर, नई पी ए सी लाइन, देहली सुजानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208015
1949	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआउट, हैबल, केम्पापुरा, बंगलोर - 560024, कर्नाटक।
1950	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक ।
1951	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012

1	2	3
1952	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर - 302012, राजस्थान।
1953	राष्ट्र धारक दल	90(4) वजीरबाग,चौरसिया काम्प्लेक्स के बगल में,बहराईज,जिला-बहराईच,उत्तर प्रदेश-278101
1954	राष्ट्र हित पार्टी	706/707 एम.के. हाईट्स सीएचएस, बी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड आफिस के सामने, एस.जी. बार्वे मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र।
1955	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माढ, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1956	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024।
1957	राष्ट्र सामान्य प्रजा पार्टी	डोर नं0-3-44,अथवेली,मेडचल,तेलंगाना-501401
1958	राष्ट्र समर्पण पार्टी	वार्ड संख्या-4,प्रोपर्टी संख्या-040000225,ओल्ड प्रोपर्टी संख्या डब्लू 4-448(ओल्ड 225),सावनेर,तालुक-सावनेर,जिला-नागपुर,महाराष्ट्र- 441107.
1959	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001.बिहार।
1960	राष्ट्र शक्ति	1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा।
1961	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिफ विहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1962	राष्ट्र वाहिनी पार्टी	412, एस.के.श्याम हाईट्स, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452016
1963	राष्ट्र विकास झुंबेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्कलेव, जैन देरासर के सामने, मोढेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002
1964	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0 - 177-ई/2, वार्ड नं0 -2, महरौली, नई दिल्ली-110030
1965	राष्ट्रवादी भारत पार्टी	एटी-511/5, अनंतपुर, वार्ड नंबर-10, गायत्री नगर, हुजूर रीवा, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
1966	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगारिया का खेड़ा, पो0आ0-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1967	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
1968	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.

1	2	3
1969	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी (इंडिया)	35बी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1970	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1971	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पो०ओ०-धौलाना, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1972	राष्ट्रवादी विकास पार्टी	217,2 फ्लोर,देवकी टावर,चन्द्र नगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश-201 011
1973	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर - ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1974	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	रा, मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1975	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1976	राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी	ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
1977	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0 - 1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1978	राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी	158/33ए-1,गंगा प्रसाद रोड,अंसार कॉम्पलेक्स,मौलवीगंज,लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226018
1979	राष्ट्रवादी जनताराज पार्टी	ए-404,अबजिबापा लेक व्यू,अपोजिट आर ए एफ गेट,निरंत चोकदी,वस्तराल,अहमदाबाद,गुजरात - 382418
1980	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर वड़ी, मोटामाढ़, एट व पो.ऑ- वालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310
1981	राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य)	हरसरू,शिव मंदिर के पास,तहसील-हरसरू,जिला-गुडगाँव हरियाणा- 122505
1982	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड,(कतीरा रोड),जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास,कतीरा,आरा,नवादा,जिला-भोजपुर,बिहार- 802301
1983	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
1984	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़,उत्तर प्रदेश ।
1985	राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल	H.No. 73, मोहल्ला - रायसाहब,तहसील - सिरौली, गौसपुर,जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225415.

1	2	3
1986	राष्ट्रीयवादी माइनोरिटी पार्टी	ग्राम-कदमपुरा,वार्ड-9,पोस्ट ऑफिस-कदमपुरा,जिला-सुपौल बिहार-852134
1987	राष्ट्रीयवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एम. सी. यूनिट नं0 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021
1988	राष्ट्रीयवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हलगंज, तप्पा कस्बा, परगना - चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
1989	राष्ट्रीयवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
1990	राष्ट्रीयवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेन्ट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
1991	राष्ट्रीयवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।-226007
1992	राष्ट्रीयवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842004
1993	राष्ट्रीय बहुजन पार्टी	729/4,अंबेडकर चौक,ग्राम - नलेगांव,तालुक - चाकूर,जिला - लातूर,महाराष्ट्र- 413524
1994	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना- खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
1995	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लॉट नं0-4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं0- 490 020
1996	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053
1997	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
1998	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
1999	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता - 700 007
2000	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली - 110041
2001	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2002	राष्ट्रीय अंत्योदय कॉग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर - 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400709
2003	राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना	138,जहागिरदारवाडी,पोस्ट- शिंगोली,तहसील व जिला- उस्मानाबाद महाराष्ट्र- 413501

1	2	3
2004	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं० 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2005	राष्ट्रीय आरक्षक मंच	4586, विजयनगर, 2 <sup>nd</sup> स्टेज, देवराज मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक-570017.
2006	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक - 124001, हरियाणा ।
2007	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
2008	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा ।
2009	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
2010	राष्ट्रीय बहुजन काँग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.
2011	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली -110034.
2012	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम - दतावली गेसपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
2013	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे - 411031 (महाराष्ट्र) ।
2014	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
2015	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा बिल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर, पी.एस-चिनहट, तहसील-सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028
2016	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	गाँव-गढ़ी (मेहन्दा मोड़), तहसील-हाँसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033
2017	राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी	सीपी - 15, रिको झुंझुनू, राजस्थान - 333001
2018	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं० - 14, ग्राम व पोस्ट - बेहटा, विकास खण्ड - मसौली, थाना - सफदरगंज, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2019	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहड़ा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207 ।
2020	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं० - 144, गाँव-मांगावास, डाकखाना-पलड़ा, तहसील-बैरी, जिला-झज्जर, हरियाणा
2021	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी.रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032



1	2	3
2022	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-II, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
2023	राष्ट्रीय काँग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं० 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2024	राष्ट्रीय काँग्रेस (जे०) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2025	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वार्ड नं.- 69, दुर्गा अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन- 1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
2026	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं० - 397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी(रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
2027	राष्ट्रीय देशज पार्टी	टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
2028	राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी	मकान नं०-330/6, नया बाजार, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश- 173001
2029	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) ।
2030	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
2031	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं० 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं० 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2032	राष्ट्रीय गण संघ	एटी-68/1, खुदीराम सारणी, नामबोंगी, बालुरघाट, पोस्ट -बालुरघाट, थाना-बालुरघाट, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733101
2033	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा ।
2034	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224149 ।
2035	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश ।
2036	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं० 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार - 802101 ।
2037	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़।
2038	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स , रुड़की, जनपद - हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।

1	2	3
2039	राष्ट्रीय हिन्द एकता दल	गांव- नगला भाजा,पोस्ट- मिघौली,थाना-विष्णुगढ़,तहसील-छिबरामऊ,जिला-कन्नौज,उत्तर प्रदेश- 209721
2040	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
2041	राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी	गाँव-मुमताज नगर,पोस्ट-मुमताज नगर,तहसील सोहावल,नजदीक सम्राट मेडिकल सेटोर,थाना-कँट,जिला-अयोध्या,उत्तर प्रदेश- 224001.
2042	राष्ट्रीय इन्डीपेन्डेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार – 758001 ओड़िसा ।
2043	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाटॉड पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, बिहार - 800020
2044	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब – 151204
2045	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर,कोकर,थाना-सदर,जिला-रांची,झारखण्ड- 8340041
2046	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड)	मकान नं0 – 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला – रायबरेली, उत्तर प्रदेश ।
2047	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003
2048	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
2049	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	C/O परशुराम सिंह, नैली निवास, शिव नगर, रोड नंबर- 1, फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, थाना-राम कृष्णा नगर, पो-राम कृष्णा नगर, खेमनीचक, जिला पटना, बिहार - 800027
2050	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी – 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली – 110095.
2051	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर	खाता-187,खसरा-869,थाना-150,तौजी न.-525,ग्राम व पोस्ट- चौंढली,थाना-बेल्दौर,जिला-खगडिया,बिहार- 852161
2052	राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी	II-F-110, नेहरू नगर, निकट गणेश हॉस्पिटल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
2053	राष्ट्रीय जन मंच	ग्राम व पोस्ट- गुढ़ा,जिला- जालौन,उत्तर प्रदेश- 285122.
2054	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेड़ा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान- 325205

1	2	3
2055	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कर्नाट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2056	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लॉट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110
2057	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
2058	राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी	खसरा नं.-3250, पुलिस लाइन मेन गेट के सामने, अजमेर, राजस्थान-305001
2059	राष्ट्रीय जन उत्कर्ष पार्टी	हट सर्वे नं. ए/ईई-126, गझधर बांध, लांड्री गली, रत्नाबाई चॉल, एस.बी.पाटील मार्ग, साताक्रूझ (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400054
2060	राष्ट्रीय जन विकास पार्टी	मुहल्ला-सुन्दरपुर छट्टी पोखर, पोस्ट-लालबाग, जिला- दरभंगा, बिहार- 846004
2061	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2062	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली - 45.
2063	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव - कृष्णापुर, पोस्ट - धोपाहाट कृष्णापुर, जिला - 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।
2064	राष्ट्रीय जनाहिता पार्टी	न0 140, विद्यारन्यापुरा, नर्सिपुरा, मेन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक- 560097
2065	राष्ट्रीय जननायक जनता पार्टी	आर. जैड-3284/37, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2066	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो0 आफिस व पुलिस स्टेशन - सोनारपुर, कोलकाता - 700150, पश्चिम बंगाल ।
2067	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109- एफ, नजीम पुरा, भूड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2068	राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी	वी.पी.ओ. - खनक, मकान नं0 - 627बी, निकट पंचायत घर, आदर्श कॉलोनी, तहसील - तोशाम, जिला - भिवानी, हरियाणा- 127040
2069	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं0 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट - गोपालगंज, बिहार ।
2070	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम - बभने आलमनगर, पोस्ट - प्रतापपुर, जिला - चतरा, झारखण्ड ।
2071	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच - 10 (आर0), आई0टी0आई0 रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
2072	राष्ट्रीय जनमंच (सेकुलर)	गांव बेलापुर, तालुक-श्रीरामपुर, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र-413715

1	2	3
2073	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम - फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2074	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०- 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
2075	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच -II- 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226012, उत्तर प्रदेश ।
2076	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
2077	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़- 494226.
2078	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमरा नं-101, प्रथम तल, ग्राम- राजोपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843302
2079	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबग्गा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
2080	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड - 834001
2081	राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी	ग्राम-जिगिना खुर्द, पो.-कुरथिया, पी.एस.बांसी, जनपद- सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश-27215
2082	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
2083	राष्ट्रीय जनसेवा - सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं०- 23, बल्लभगढ़ - 121004, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा ।
2084	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव - बिजहोल, तहसील और जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103.
2085	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
2086	राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी	मुहल्ला- थोक, वार्ड नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिश्रिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001
2087	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ - 230001, उत्तर प्रदेश ।
2088	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008
2089	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 बी, 223, एमआईजी, आवास विकास कॉलोनी, रुकुनपुर, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283135

1	2	3
2090	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर - 115, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ।
2091	राष्ट्रीय जनता सेना	27, ज्ञान विहार, निर्माण नगर डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302019
2092	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा - बलिया, उत्तर प्रदेश ।
2093	राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा	ग्राम-राजपुर, पोस्ट-धर्मशाला थाना-परैया, जिला- गया, बिहार-824236
2094	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर - 208021, उत्तर प्रदेश ।
2095	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- डेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
2096	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ - 226016.
2097	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007
2098	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा ।
2099	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद - 380006, गुजरात।
2100	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट - सुल्तानपुर, तहसील - नीलोखेड़ी, हरियाणा - 132116.
2101	राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी	मक्कान नंबर 54के, वार्ड नंबर 4 (नया), वार्ड नंबर 8 (पुराना), मालवीय नगर, चितबड़गांव, मिडिल स्कूल के पास, तहसील और जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-221713
2102	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी	अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकिय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापूर रोड, निटुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
2103	राष्ट्रीय किसान काँग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र ।
2104	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्लू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली- 110048
2105	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पो०-धानौधा, तहसील व जिला - महेन्द्रगढ़, (हरियाणा) ।
2106	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला - पटेगंज कांठ, पोस्ट - कांठ, तहसील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501

1	2	3
2107	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	ग्राम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
2108	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाड़ा, जामनगर - 361001, (गुजरात) ।
2109	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रजापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा - 207001, उत्तर प्रदेश।
2110	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043.
2111	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं०-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ , उत्तर प्रदेश।
2112	राष्ट्रीय कृषक दल	प्लाट नंबर 177, मकान नंबर-एसए-4/ए-5बी, दौलतपुर, पोस्ट खजूरी (पांडेपुर), जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
2113	राष्ट्रीय लोक दल	406, वी.पी.हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2114	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसड़ी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
2115	राष्ट्रीय लोक मोर्चा	आशीर्वाद भवन, मोहल्ला मजार गली, शेखपुरा, पो.बी.वी कॉलेज, पी.एस.शास्त्री नगर, पटना, बिहार-800014
2116	राष्ट्रीय लोक प्रजा राज्य पार्टी	बरकाती अपार्टमेन्ट, नार्मल चौक, बिजली ऑफिस के सामने, खुरमपुर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
2117	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं० -630, ग्राम- पसौंडा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2118	राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी	सम्पत्ति स.39/34 ए.निकट साहबा बस अड्डा, जिला हनुमंगढ़, राजस्थान-335501
2119	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला - नगला काशी तहसील - धौलाना, जिला - हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245301
2120	राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी	जे-1201, आदित्य मेगा सीटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2121	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं० - 73/382, मोहल्ला - वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
2122	राष्ट्रीय लोकसत्ता पार्टी	नं.-287/3, मंगलपांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
2123	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
2124	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव - छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
2125	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015

1	2	3
2126	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं० -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई - 400 051, महाराष्ट्र ।
2127	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2128	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट- बिजनौर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
2129	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव - अड्डा छिनपारई, पोस्ट - छिनपारई, नौझील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
2130	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. वी. रोड । विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र ।
2131	राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी	एटी-3ए, प्रथम तल, धारावी विवेकानंद को.ओपी.हाउसिंग सोसाईटी एल.टी.डी., प्रभाकर कुंटे नगर, 90 फीट रोड, कुंबारवाड, धारावी, महाराष्ट्र, मुंबई-400017
2132	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश ।
2133	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्वाले नगर, रामपुर रोड, सी.वी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243502
2134	राष्ट्रीय मजदूर कृषक पार्टी	एटी-एनएच-28, तेनुआ, हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश-272155
2135	राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी	मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम- मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
2136	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2137	राष्ट्रीय मानव पार्टी	मकान नं.29/124, पहली मजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110008
2138	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं०-1485, किदवई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211006.
2139	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं.60, खसरा नं.03, मौजा नं.82, श्रीनगर हाऊस, समूखिया मोड, नियर न्यू पुलिस लाइन बांका, जिला-बांका, बिहार-813102
2140	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ऑ- द्वारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242 ।
2141	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं - 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 035.

1	2	3
2142	राष्ट्रीय मराठा पार्टी	शिवनेरी सिंहगड बिल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिदर रोड, उदगीर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413517
2143	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छोंकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान ।
2144	राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी	ग्राम+पो0 - अरेराज, वार्ड नंबर 11, शिव मंदिर से पूर्व, गायत्री ट्रेडर, जिला-पूर्वी चंपाराण, बिहार-845411
2145	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला - सैय्यदवाडा, कस्बा - मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2146	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं० 57, बुरारी रोड, दिल्ली - 110009.
2147	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के समाने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
2148	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी	अशोक ऐवन्यू गांव - लालगंज, थाना - सदर, जिला - राँची , झारखण्ड।
2149	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं० - 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला - मोहन पट्टी, जिला - गुडगाँव, हरियाणा - 122050.
2150	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढ़ी, नई दिल्ली- 110068
2151	राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी	नारायण भवन, पिकौराभट्ट, नन्द नगर, जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272129
2152	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी०डी०ए० फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
2153	राष्ट्रीय नव निर्माण भारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.बी., लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
2154	राष्ट्रीय नव प्रभात पार्टी	110/2, लक्ष्मीपुरम, निकट आर.बी.एम्. स्कूल, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251 001
2155	राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी	सीनियर एम.आई.जी-2, सह्याद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462003.
2156	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं.145, पैगम्बरपुर, पोस्ट-रसूलगढ़, थाना- सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
2157	राष्ट्रीय पॉवर पार्टी	101, आश्रम एवन्यु, बी/एच, कोचरब आश्रम, पालडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
2158	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला - नवादा - 805 110, बिहार।



1	2	3
2159	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राब स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
2160	राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी	मकान नं० 119, श्री राम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, मध्य प्रदेश-462047
2161	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर - 22ए, चंडीगढ़।
2162	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011
2163	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2164	राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी	डी- 26, मीरदर्द रोड, नई दिल्ली- 110002
2165	राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी	रुतनचक नया टोला, पोस्ट-हथुआ, जिला-गोपालगंज बिहार-841436
2166	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110
2167	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मनोहरपुरा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
2168	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्केट दुन्दहारा, गुडगाँव - 122016, हरियाणा।
2169	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2170	राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा	11, प्रकाश नगर, एमपीईबी अधिकारी कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462023.
2171	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं.193, वार्ड सं.7, शास्त्री नगर, कोरांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212306
2172	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 - रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई - 400001, महाराष्ट्र।
2173	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2174	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम - बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो - जीयनपुर, जनपद - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
2175	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2176	राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी	ए.टी.-ग्राम सिलाट, पोखरिया पोस्ट, वाया बिरौली (आर.ई.), जिला-समस्तीपुर, बिहार-848113

1	2	3
2177	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात।
2178	राष्ट्रीयसमाजवादी स्वाभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ -490006
2179	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली - 110091.
2180	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
2181	राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी	हाऊस नं0 3115, एस. जी. नगर, दीघा, ऐरोली, नई मुंबई, महाराष्ट्र- 400708.
2182	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 - 27, ग्राम - वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट - सिंघाड़ा, जिला - वैशाली, बिहार- 800011
2183	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004
2184	राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी	ग्राम-रमपुरा, पोस्ट-हैदरपुर, जनपद-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206129
2185	राष्ट्रीय सनातन पार्टी	एच.एन. 108-ए, जी/एफ के.एच.नं. 60, 30 फुटा रोड, न्यू सभापुर गुजरान, करावल नगर, दिल्ली-110092
2186	राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ऑपोजिट तनवीर पेट्रोल पम्प, पुरुलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
2187	राष्ट्रीय संगम दल	7बी, खयोरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002
2188	राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी	24 डी-1, गडरियन पुरवा, रतनपुर पनकी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208017
2189	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, वनारसे निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला- लातूर-413512, महाराष्ट्र ।
2190	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625 ।
2191	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
2192	राष्ट्रीय सर्व मंच संगठन	1-क्यू-13, तिलक नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311011
2193	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
2194	राष्ट्रीय सर्वांगीन विकास पार्टी	खसरा नं. 608, ग्राम - पसौंदा, मेन वजीराबाद रोड, नियर गैरीमांजलि पब्लिक स्कूल, विपक्ष राजेंद्र नगर, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005.
2195	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौंदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2196	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025
2197	राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी	ग्राम- सखैला, पोस्ट - गौराबादशाहपुर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222133.
2198	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001, (उत्तर प्रदेश)।
2199	राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।
2200	राष्ट्रीय सैक्युलर मजलिस पार्टी	वार्ड नं.36, गांव-बिहार शरीफ, बड़ी दरगाह, नालंदा, बिहार- 803101
2201	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
2202	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
2203	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव - लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर - बलदेव रोड, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश
2204	राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी	थर्ड.एच.-2, नेहरु नगर, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
2205	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना- अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
2206	राष्ट्रीय स्वाभिमान संघ पार्टी	A - 104, सांघवी टॉवर, सामने हत्केश, मीरा-भायंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट, महाराष्ट्र - 401107.
2207	राष्ट्रीय स्वराज्य सेना	03, दहिसर संकेत बिल्डिंग, शिव वल्लभ क्रॉस रोड, रावलपाडा, दहिसर (पू), मुंबई, महाराष्ट्र- 400068
2208	राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी	ग्राम व पो0 - पिपरिया, वार्ड नं0 नं0- 3, थाना - मोहनियाँ, बिहार- 821105
2209	राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी	1372/12, न्यू गड़ौरा, बेहसा, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
2210	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
2211	राष्ट्रीय उन्नती पार्टी	प्रस्ताव संख्या 12-ए,ब्लॉक-के 4,मोहन गार्डन,उत्तम नगर,प्रथम पुस्ता,सोनिया विहार,दिल्ली- 110059
2212	राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी	कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने,एस.आर.ए. बिल्डिंग नं0 1,रूम नं0 207,90 फीट रोड,विक्रोली,मुंबई- 400079
2213	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2214	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 – 525(नया), 204(पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला – प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
2215	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-पिपरौली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
2216	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लाट सं0 58, न्यू कालोनी,तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी,उत्तर प्रदेश ।
2217	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
2218	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा
2219	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर रैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
2220	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।
2221	राष्ट्रीय युवा जनअधिकार पार्टी	दुकान नंबर-1,भीमनाथ शॉपिंग सेंटर,बडे स्वामीनारायण मंदिर के बगल में,बोरिसाना,टीए – कलोल,जिला-गांधीनगर-382721
2222	राष्ट्रीय युवा अधिकार दल	एटी- जी-67,राजीव नगर,बेगमपुर,पाल अस्पताल के पास,नई दिल्ली-110086
2223	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी,पोस्ट-फेफना,जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश- 277503
2224	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028
2225	राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी	कात्रे टाऊनशिप, सावता मैदान के सामने, जुनीवस्ती मेन रोड, बडनेरा जिला-अमरावती महाराष्ट्र- 444701.
2226	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महरौली, नई दिल्ली- 110076.
2227	राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी	नियर रिंग रोड क्रासिंग,7,साकेत विहार,खुरम नगर साई गेस्ट हाउस,पहली मंजिल,लखनऊ,उत्तर प्रदेश- 226022

1	2	3
2228	राष्ट्रीय हिन्दू समाज पार्टी	हाउस नं. नया जुगगौर आंशिक, तेह-लखनऊ जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028.
2229	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश
2230	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमांदेवी पैंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला - गंजम, ओडिसा- 760009
2231	राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
2232	रायलसीमा काँग्रेस पार्टी	5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267
2233	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003
2234	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं.5-54, चौदेश्वरी बाजार, पोस्ट एवं मंडल- कोडुमूर, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518464
2235	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
2236	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड, सूरत, गुजरात - 395006 ।
2237	रिफार्मस पार्टी ऑफ इंडिया	1-10-50, बैप्टिस्ट पेटा, एलुरु- 534001, आंध्र प्रदेश
2238	रिजनल डेमोक्रेटिक सेकुलर कांग्रेस	लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलॉंग - 793004, मेघालय ।
2239	रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस	प्लाट सं०-04, गली सं०-1, वार्ड सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण ।
2240	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606
2241	रिपब्लिकन पक्ष ( खोरिपा )	ईसा हटमेंटस, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र)।
2242	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	सतनाम मैन्सन, तीसरा मंजिल, बिल्डींग नं.245, पी डिमेलो रोड, रोल नं.1393, म्यूनििसीपल को-आपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001
2243	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं.3/4, ईसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400001

1	2	3
2244	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटुर-413512(महाराष्ट्र) ।
2245	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलूरु, कर्नाटक- 560037.
2246	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश) ।
2247	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय)	मकान नं0 - 67, 68, गली नं0 - 15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
2248	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवड़ावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
2249	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।
2250	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी न. 2618, वार्ड नं. टुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताडोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
2251	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत	नं. 2001, पहली ए-मेन रोड आठवां क्रॉस, जैमुनी राव सर्किल (ओटागेयर) एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बैंगलूरु, कर्नाटक- 560040.
2252	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2253	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय काम्पलैक्स, टी. टी. नगर, भोपाल- 462003, (मध्य प्रदेश) ।
2254	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं0 -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, ढोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
2255	रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल ।
2256	रेवोलुशनरी गोवन्स पार्टी	घ.क्र.2385/ए, नागझरवाडा, बिचोलिम, उत्तर गोवा, गोवा- 403504
2257	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर, पंजाब - 144022 ।
2258	रेवोल्यूशनरी पार्टी	एस एच-3/40, आर.एस., विश्वनाथपुरी कालोनी, नवलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
2259	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड-695014

1	2	3
2260	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ केरल (बोलशेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेन्नाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)
2261	राइट इंडिया मूवमेंट पार्टी	सेंट्रल मेल बॉक्स, श्री दी एम के हाइट्स, फ्लॉट नंद 402, नंद 32-10-32, वेंकटेश्वरा कॉलोनी, वार्ड नं० 65, शीला नगर, विश्वपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश- 530012
2262	राइट पार्टी ऑफ़ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया, पश्चिम बंगाल - 741126
2263	राइट टु रिकॉल पार्टी	एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज बस स्टैन्ड के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013
2264	ऋषिवादी कर्म शील युवा परमार्थी पार्टी	237/2, गली न.-23, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-251002
2265	राइजिंग पीपल्स पार्टी	मकान नं०-202, भूतल, फैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड-797112
2266	रोटी कपडा और मकान पार्टी	ब्लॉक डी, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001.
2267	रॉयल इंडिया पीपल्स पार्टी	कमरा न. 35/549 (10/37/153), आदम बाजार बिल्डिंग, थीसूर, केरला -680001.
2268	रायथु बिद्धा पार्टी	8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चिंतालकुन्टा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074
2269	रेतु राजयम पार्टी (ए. पी.)	D. No. 32/86-7-8, गद्दामीडा गंगम्मा स्ट्रीट, देवुनी कडपा, कडपा शहर, कडप्पा जिला, ए.पी. - 516002
2270	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2271	साथ साहाकार विकास पार्टी	483, धानापुर रोड, देव बरियाड-7, देवगढ़, बारिया दाहोड, ता. देवगढ़, जिला-दाहोड, गुजरात-389380
2272	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शॉप/हाउस ऑफ़ नबी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट-बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2273	सब्बाथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला ( पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
2274	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
2275	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चिनहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201 ।

1	2	3
2276	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2277	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड़, उत्तर प्रदेश।
2278	सबसे बड़ी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2279	सचो सच पार्टी	डी-2/2406, एकता नगर, पी.ओ जवाला आटा मिल्स, अमृतसर, पंजाब 143003
2280	साडा हक पार्टी	मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील- गढ़शंकर, जिला- होशियारपुर, पंजाब- 144527
2281	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
2282	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।
2283	साहेब जन पार्टी	गैलेक्सी होटल के सामने, गली नं05, कांचन नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101
2284	सैनिक जनकल्याण विकास पार्टी	दुकान नं. 4/5/6/7, भूतल, बिल्डिंग को 'सरस्वती प्रसाद अपार्टमेंट' रोड परांका, गजानन महाजन मंदिर, कल्याण पश्चिम-421301, महाराष्ट्र
2285	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
2286	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
2287	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1, एम.वैकटायापलेम, खम्मम ग्रामीण, खम्मम जिला, तेलंगाना-507003
2288	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वैलर्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
2289	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
2290	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250001
2291	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज़ाकरूर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
2292	समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारडुडीगुडा, अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2293	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ वाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्कलेव, सेक्टर - 125, मोहाली, पंजाब



1	2	3
2294	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब - 146001
2295	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2296	समाज रक्षक पार्टी (भारतीय क्रांती)	ग्राम-केन, पोस्ट-कनवार, तहसील-सिराथु, जनपद-कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश- 212217
2297	समाज सत्ता दल	मकान सं. -74, पडारा कांगल (बौलिया), निकट प्राइमरी स्कूल, पडारा कांगल, तहसील-सदर, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001.
2298	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
2299	समाज सेवक पार्टी	568ख/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2300	समाज शक्ति पार्टी	मकान नं० सी-5/382, न्यु रिसेटलमेंट कॉलोनी, भलसवा, दिल्ली-110042
2301	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं. 723/2, मंगल पाण्डेय नगर, सेक्टर-2, विश्वविद्यालय रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
2302	समाज विकास क्रांति पार्टी	विद्यालय निवास, खिंडीपाडा, दर्गा रोड, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400082
2303	समझदार पार्टी	ग्राम - माहरी(बडौली), पी.ओ. - माहरी, जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश - 221716
2304	सामाजिक नवनिर्माण पार्टी	6, फरीदीनगर, पिकनिक स्पाट रोड, घनश्यामकुंज, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
2305	सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी	बी -172, टी.डी.आई. सिटी, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश -282006.
2306	सामाजिक प्रगतिशील पार्टी	भगत सिटी कॉलोनी, बिलंदरपुर रोड, खेजरोली, तहसील-चोमू, जिला-जयपुर, राजस्थान-303803
2307	सामाजिक संघर्ष पार्टी	मकान नं० 59, गली नं० 2, गुरु अर्जुन देव नगर, तरन तारन रोड, अमृतसर, पंजाब-143002
2308	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी० रोड०, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल ।
2309	समाजवादी आम जनता दल	बेलातल रोड, लाया पैलेस के पीछे, वार्ड नं.-2, नौगाँव, जिला-छत्तरपुर, मध्य प्रदेश- 471201
2310	समाजवादी आन्दोलन पार्टी	ग्राम+पोस्ट-दौलतपुर गौहावर बिल्लौच, तहसील-चांदपुर, जिला-बिजनौर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-246734

1	2	3
2311	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वैकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
2312	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
2313	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	L एक्सटेंशन 358, मोहन गार्डन, रामा पार्क रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110 059
2314	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2, कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।
2315	समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	ए-454, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110052.
2316	समाजवादी लोक परिषद	कुसुमपुरम कॉलोनी, नल्थुपुर रोड, पोस्ट - कुरथौल, थाना - परसा बाजार, पटना बिहार-804453
2317	समाजवादी समाज पार्टी	वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
2318	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माड़ा, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886.
2319	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2320	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
2321	समान्या मक्कल नाला काची	एस.एफ.नं.1172/12 ए, करूर बाईपास रोड, इन्दिरा नगर, इरोड, तमिलनाडू-638002
2322	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं0 - 17, मकान नं0 - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
2323	समर्थ भारतवर्ष पार्टी	39ए- डी.डी.ए फ्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयुर विहार, फेस-I, दिल्ली- 110091
2324	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चायल, जनपद - कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
2325	समता क्रान्ति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
2326	समता पार्टी	220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001
2327	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2328	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051

1	2	3
2329	समतामूलक समाज पार्टी	194,कांशी सदन,ए.बी.रोड़,ग्राम व पोस्ट- रेन्हट,लैण्ड सर्वे नं.-299/01/1(एस),पटवारी रेन्हट,तहसील-घाटीगाँव,जिला-गवालियर,मध्य प्रदेश-475330
2330	समाथुवा मक्कल कझगम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019
2331	संभाजी ब्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स,गाला नं.7,नवा मौंढा,हिंगोली,तालुका एवं जिला-हिंगोली,महाराष्ट्र-431513
2332	संबिधान बचाओ पार्टी	24/ए/2,एस.डी.मुखर्जी लेन,डाकघर-रिसडा,थाना-रिसडा,जिला-हुगली,पश्चिम बंगाल-712248
2333	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2334	समनक जनता पार्टी	सर्वे नंबर 120, प्लॉट नंबर 9, भावसार चौक के पास, अनिकेतनगर, तरोडा, (केडी.), मालेनगांव रोड, नांदेड़, टी.के. और जिला - नांदेड़, महाराष्ट्र - 431605.
2335	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2336	सम्पर्क विकास पार्टी	शाप न.3,नंदकिशोर अपार्टमेंट,निकट चंद्रनगर बस स्टॉप,नारायणनगर,पालदी,अहमदाबाद,गुजरात-380007
2337	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लाट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
2338	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जैड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
2339	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.न. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 223103
2340	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा - घामडौज, तहसील - सोहना, जिला - गुड़गाँव, हरियाणा ।
2341	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
2342	सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी	एफ-64/सी9/197,सेक्टर-40,नोएडा,(नियर साईनाथ मंदिर),जिला-गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश-201303
2343	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लाट नं0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
2344	समस्त समाज पार्टी	70, ए आर मैकेनिकल वर्क्स, शिवनगर-2, मौजा गद्दीवाला, निकट बी एस वूलन मिल, पानीपत, हरियाणा-132103

1	2	3
2345	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं० - 480, गाँव - लिसाड़ी, तहसील व जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
2346	समता समाजवादी कॉंग्रेस पार्टी	के - 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
2347	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, वार्ड न० 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
2348	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
2349	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु - 602105
2350	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम - जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड - झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट - बस स्टाप, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश
2351	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212104
2352	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2353	संगठित जनता पार्टी	नं.177, शिवा खण्ड, विश्वकर्मा नगर, दिल्ली-110095
2354	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी० एम० रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2355	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं० - 44, ग्राम - ढका, पोस्ट - अखा, तहसील - आँवला, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
2356	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्पलेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र - 421601
2357	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093
2358	संख्यानृपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
2359	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला - यवतमाल महाराष्ट्र - 445002
2360	संयोगवादी पार्टी	मकान नं.3, पहली मंजिल, कमर्शियल 1, परस तिएरिया, सेक्टर 137, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201304.
2361	संयुक्त भारत पक्ष	रत्नम बंगलो, नजदीक मीनताई ठाकरे गार्डन, एम्.आई.डी.सी.रोड, बदलापुर (पूर्व), तालुका- अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र-421503
2362	संयुक्त जनादेश पार्टी	356/225/257, अशोक नगर, काले पहाड, आलमनगर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.

1	2	3
2363	संयुक्त किसान विकास पार्टी	ग्राम- सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार- 802119
2364	संयुक्त क्रांति पार्टी	वार्ड नं.-3, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481222
2365	संयुक्त समाज मोर्चा	92-सी, बार्ड नंबर 13, भगवानपूरा रोड, समराला, लुधियाना, पंजाब-141114
2366	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश ।
2367	संयुक्त संघर्ष पार्टी	शोरूम नंबर 10, निचला भूतल, हाई ग्राउंड रोड, नाभा, उप-तहसील-जीरकपुर, मोहाली, जिला-एस.ए.एस. नगर-140603 (पंजाब)
2368	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम - सारसौल, पोस्ट ऑफिस - मुनी, थाना - अरनियों, तहसील - खुर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
2369	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश-462004
2370	सर्व साँझी पार्टी	सागर हास्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्सी ख्वाजू, होशियारपुर, पंजाब- 146001
2371	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135 ।
2372	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
2373	सर्व आदि दल	फर्स्ट हाउस, वार्ड 14, गोवर्धन, रावतभाटा, अपोजिट पंजाबी ढाबा, बिरगांव, रायपुर बिलासपुर राजमार्ग, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
2374	सर्व जन पार्टी (भारत)	ई-734, कृष्णा मंदिर के पीछे, शकरपुर, दिल्ली- 110092
2375	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
2376	सर्व राज्य पार्टी	548घ/17, तेजी खेड, तालकटोरा रोड, मानक नगर, जे.आर.पी.एफ. के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226011.
2377	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101
2378	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायों रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवायों, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
2379	सर्व विकास पार्टी	गाँव - प्रतीत नगर, एन0 एच0 - 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
2380	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बाँस, सुनार वाली गली, ग्राम - घिठोरनी, नई दिल्ली - 110030

1	2	3
2381	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा।
2382	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा(तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।
2383	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- ओरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2384	सर्व समाज जनहित पार्टी	घूरीपुर (जखौव) म ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, तहसील- ज्ञानपुर, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221304
2385	सर्व समाज कल्याण पार्टी	बिजराज भवन, ग्राम - सिंघारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
2386	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2387	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील - नजूल, जिला - भोपाल- 462023, मध्य प्रदेश
2388	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003
2389	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	काँफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार - 800023
2390	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील- गुरुदासपुर, जिला- गुरुदासपुर, -143511 पंजाब।
2391	सार्वजनिक आदर्श सेना	20/1, दूसरा मेन, 8 क्रॉस, चामुंडी ले आउट, विध्यारणयापूरा, बेंगलुरु-560097
2392	सरवर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बसंतपुर, कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273158
2393	सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
2394	सर्वहारा दल	केवला फरियट्टा, बाया - गिधौर, जिला - जमुई , (बिहार)।
2395	सर्वहारा विकास पार्टी	मकान नं०102, जंगल मातादीन, आर्यपुरम कॉलोनी, पोस्ट - पदारी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273014
2396	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं०-177, ग्राम व पोस्ट - शाहजहाँपुर बैजना, थाना - दादो, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133।
2397	सर्वजन आवाज पार्टी	नं.528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078

1	2	3
2398	सर्वजन लोक शक्ति पार्टी	टी.ए.184/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019
2399	सर्वजन नवयुग विकास पार्टी	ग्राम+पो0 – बिसुनपुर, बेदौलिया, थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली, बिहार-844505
2400	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102
2401	सर्वजन सनातन पार्टी	म. नं.-बी-1/148, ए-1ए, अस्सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005
2402	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2403	सर्वजन सुखाय पार्टी	अड्डा निहाल, मानिकपुर विसु, तहसील इटावा, मैन रोड, एन.एच.-2, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2404	सर्वलोकहित समाज पार्टी	16/94, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराडी, दिल्ली-110084
2405	सर्वोदय भारत पार्टी	बी – 19, सेक्टर – 'O', अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2406	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बेंगलोर – 560 009, (कर्नाटक) ।
2407	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093
2408	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2409	सर्वसमाज न्याय पार्टी	ओशन टावर पर नं० 101, कॉर्मिशनल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं० 1152/53, झोटवाडा रोड, जयपुर, राजस्थान-302012.
2410	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2411	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम – शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना, पो. एवं तहसील – सदर, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2412	सशक्त भारत पार्टी	मकान नं० 345, पराशर भवन, जारों का मोहल्ला, पोस्ट-कन्नौज, तहसील-भदेसर, जिला-चितौड़गढ़ राजस्थान-312613
2413	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं० 0 - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2414	सत्ता कल्याण पार्टी	नं० डी-144, परस प्रभु सोसाइटी, निकट सोनल पार्क, इसानपुर, जिला-अहमदाबाद, गुजरात-382443
2415	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं० – 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा ।
2416	सत्तातगम मक्कल कच्ची	1-3/1020 बी, ग्रीन गार्डन, यूड्यूरियल पुन्गा रोड, विनायगम्पट्टी, जिला-सेलम, तमिल नाडु- 636008.

1	2	3
2417	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
2418	सत्य क्रान्ति पार्टी	म0 नं0 - 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2419	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं0 - 70-ए, ग्राम - नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस - मियागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2420	सत्या विकास पार्टी	बी-7, सैलजा अपार्टमेंट, निकट सुगम फ्लैट, वासना अहमदाबाद, जिला-अहमदाबाद, गुजरात-380007
2421	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128, वार्ड नं.5, ललित नगर, एसडीएम निवास के सामने, तहसील व पोस्ट-सुन्दर नगर, जिला-मण्डी, हिमाचल प्रदेश-175019
2422	सत्यावादी रक्षक पार्टी	बी/501, योगी पूजन अपार्टमेंट, अक्षर फार्म रोड. विधा नगर, गुजरात-388120
2423	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2424	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2425	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉपरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2426	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वार्ड नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वार्ड नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ-केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2427	सेकुलर इंकलाब पार्टी	मकान नं.202, राजीव गार्डन, लोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
2428	सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
2429	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2430	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्प्लेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वतीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2431	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2432	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड, अमृतसर पंजाब- 143001



1	2	3
2433	सर्विस अदहेयार्ड विथ इंटीग्रिटी देसम पार्टी	प्लॉट नं.-29, फेज-1, मेन रोड, नियर पुलिस स्टेशन, वनास्थालिपुरम, हैदराबाद तेलंगाना - 500070
2434	सर्विस क्लास पार्टी	एचआईजी, 4/305, विनीत खंड गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
2435	सेवा दल	532, (ऑपोज़िट 126-आर), सी.आर. कॉलेज रोड, माडल टाउन, रोहतक-124001, हरियाणा
2436	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 - पालम, जि0 - परभणी, महाराष्ट्र - 431536
2437	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमि भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2438	शक्तिमान समाज पार्टी	फ्लाट नं.-133, कौशलपुरी फेस-II, ग्रामर स्कूल के पास, पोस्ट-खोजपुर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश- 224001.
2439	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2440	शंकनाद पार्टी	चैंबर नंबर-6, चुनाव कार्यालय रोड, सिविल कोर्ट, कंपाउंड कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208001
2441	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चौद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2442	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2443	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
2444	शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त)	प्लाट नं.92, सेक्टर-82, एयरपोर्ट रोड, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), पंजाब-140308.
2445	शिरोमणि अकाली दल (टकसाली)	नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब- 143001
2446	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या - 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2447	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेन्ट, यूनिन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2448	शोषित इंकलाब पार्टी	मुरलीचक, जगदेव पथ, नजदीक जगदेव स्मृति अपार्टमेन्ट्स, डाकघर - बी.वी. कॉलेज, पटना, बिहार- 800014
2449	शोषित समाज दल	सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।

1	2	3
2450	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2451	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगिरपुरी, दिल्ली- 110033
2452	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2453	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2454	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रास, गजेन्द्रगड़, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।
2455	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द जोंग, एम.जी.मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2456	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगॉग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगॉग, थाना - रवाँगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2457	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना- रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2458	सिक्किम यूनाईटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डींग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2459	सिरुप्पानमई मक्कल नाला काँची	नं. 16ए, 9वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, काँचीपुरम जिला, चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2460	स्मार्ट इंडियंस पार्टी	ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482005
2461	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2462	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिड्डा जिला, पिन- 689072, (केरल) ।
2463	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	सी-4, हज़रत निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-110013
2464	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनारविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2465	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2466	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2467	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2468	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम- 695001, (केरल) ।
2469	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.

1	2	3
2470	सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2471	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2472	सोनांचल संघर्ष वाहिनी	भूमि सं0 597, विकास नगर, राबटर्सगंज वार्ड नं0 12, पुराना वार्ड-6 जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश- 231216.
2473	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016
2474	स्पष्टवादी जन आधार पार्टी	एमआई-344, डबल स्टोरी, पहली मंजिल, बरी-2, कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश-208027
2475	स्टार अल्ट्रिस्टिक हामेनेटेरियन यूनिटी पार्टी	तहसील रोड, गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश-227409
2476	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखास, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
2477	स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इन्टलेक्चुअल)	33, अण्णाभऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र-400084
2478	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश -522501
2479	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2480	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600028
2481	सुधारवादी पार्टी	मो. पिऊनी बाग, वार्ड नं.-32, बेतिया, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया-नगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845438.
2482	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2483	सुहेलदेव पार्टी	ग्राम व पोस्ट - फुलेश, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन - 223224
2484	सुमिति मुक्ति मोर्चा	प्लॉट नं. 347(एलआर) 391(आरएस), खेतान नं. 2194(एलआर), मोजा- पंचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734010

1	2	3
2485	सुनहरा भारत पार्टी	बिल्डिंग नंबर #बी-17,2173/2ए/1ए,जम्मू कॉलोनी,अब्दुल्लापुर रोड,लुधियाना,पंजाब-141003.
2486	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665 ।
2487	सुनहरा पंजाब पार्टी	319,सेक्टर-9,चंडीगढ़-160009
2488	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपत्तुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2489	सुपर पॉवर इण्डिया पार्टी	78,ऊपरी भूतल,ब्लॉक-ए,एनआरआई सिटी सेंटर,परी चौक,ग्रेटर नोएडा,जिला,गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201310
2490	सुपर रेंजर्स पार्टी	शांप न0. 51, थर्ड फ्लोर, स्कन्दा शॉपिंग मॉल, बिहाइंड कोल्स मेमोरियल चर्च के, कर्नूल, आंध्र प्रदेश-518001
2491	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2492	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वार्ड नं.6,होलिडिंग नं.222,उपरी शाही,खोरधा म्यूनिसिपलिटि,पोस्ट/थाना/जिला-खोरधा,ओडिशा-752056
2493	सुराज सेवा दल	ग्राम - रामड़ी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2494	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला - तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या - 1102/1, वार्ड संख्या - 7, पो0 व तहसील - सदर, जनपद - मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001
2495	सूर्या जनसेवा पार्टी	#2,सेकेंड फ्लोर,5 क्रॉस,अंजना नगरा,बैंगलोर कर्नाटक-560091
2496	सूर्या रेवती प्रजा पार्टी	मकान नं0 54, ए.पी.आर. प्रणव एनटीलिया, बाचुपल्लया, हैदराबाद, तेलंगाना- 500090
2497	सुशासन पार्टी	हाउस नं0-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी-127032, हरियाणा ।
2498	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0 - 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0 - 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210 ।
2499	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2500	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001
2501	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपूर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101

1	2	3
2502	स्वच्छ भारत पार्टी	साँई बाबा मंदिर भोज्यावास, भौकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2503	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2504	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001
2505	स्वदेशी एकता मंच	बी-3/253, विनय खण्ड-3, गोमती नगर, गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
2506	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हतिसा, मथुरा रोड क्रासिंग के पास, तहसील एवं जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
2507	स्वाधीन स्वराज पार्टी	213/63, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-200001
2508	स्वाधीनता पार्टी	भूतल, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद, कॉलेज गेट के पास, पूरब बाजार, वार्ड संख्या 30, सहरसा, बिहार-852201
2509	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2510	स्वराज भारतीय न्याय पार्टी	एच.नं.सी-50, मेन 20 फुटा रोड, मीत नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094
2511	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2512	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
2513	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31, दूसरा तल, टेजेन्द्रा कॉम्प्लेक्स, सी.एम.सी. के सामने, ओढव रोड, ओढव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
2514	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं0 - 17, ग्राम - मोगलपुरा, ग्राम पंचायत - मोगलपुरा, पो0 ऑ0 - बख्तियारपुर, जिला - पटना, बिहार - 803212
2515	स्वराज्य लोकशाही पार्टी	स्वराज्य भवन, 301, 302 कुदेरा, चेम्बर्स, संचेती अस्पताल के बगल में, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र- 411005
2516	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411023
2517	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।

1	2	3
2518	स्वराज्य राष्ट्र निर्माण सेना	एच. नंबर 797,वार्ड नंबर. 01,पोस्ट-कोरेगाँव,भीमा,तालुक- शिरूर,जिला पुणे,महाराष्ट्र-412216
2519	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586,मुहल्ला- मासुर्डी,पोस्ट- टाका,तहसील-औसा,जिला- लातूर,महाराष्ट्र- 413520
2520	स्वराज्य शक्ति सेना	एटी-64, ग्रीन्स, 101,बी विंग,पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के बगल में, टैगोर रोड, सांताक्रूज पश्चिम मुंबई-400054
2521	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा - 122017
2522	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2523	स्वतंत्र भारत पक्ष	“राही”, खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।
2524	स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी	खसरा नं०916,गाँव -धिलावल,गर्हिया, पो० - भोपल पट्टी,पी.एस० - मऊ दर्वाजा,जिला-फर्रुखाबाद,उत्तरप्रदेश - 209625
2525	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं० - 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2526	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु-600018
2527	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज,नई दिल्ली-110 002.
2528	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।
2529	स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी	नं०-2,महावीरनगर,अपोजिट कल्याण मिल,नियर चेतना होटल,नरोदा रोड,सैजपुरा-भोगा,अहमदाबाद,गुजरात-382345
2530	स्वयम कूशी पार्टी	नं.-17/बी,नन्जप्पा काम्प्लेक्स,ग्राउण्ड फ्लोर,कनकपुरमेन रोड,बनाशंकरी,शकाम्बरी नगर,बैंगलुरु कर्नाटक- 560070
2531	स्वय शासन पार्टी	चैंबर नंबर 10, राव तुला राम ब्लॉक, कोर्ट नंबर 21, गेट नंबर 2, जिला-गुडगाँव हरियाणा-122018
2532	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं०-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600018.
2533	तमिल मानिला काची	नं० - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2534	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कझगम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयात्तम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु-632007

1	2	3
2535	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2536	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।
2537	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2538	तमिल थायग मक्कल मुन्नेत्र कच्ची	नंबर 61/2, दूसरी मंजिल, 5 वीं मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, नंदनम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600035
2539	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2540	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2541	तमिलगा मक्कल नाला काची	2/272, ए राजपालयम मेन रोड, कुवलैकन्नी (पीओ), तेनकासी जिला, तमिलनाडु- 627753
2542	तमिलगा मक्कल तन्नुरीमई काची	मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637408
2543	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2544	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600043
2545	तमिलार मक्कल काँची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2546	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल काँची	9-2/1 सी, तेटीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2547	तमिलनाडु मक्कल नालवडुवु पेरीयक्कम	नंबर 6 ए, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवेंगदा नगर, थिरुनिन्नवुर, थिरुवल्लूर जिला, अवधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तिरुवल्लुर संसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु- 602024.
2548	तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2549	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं0 - 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु - 641021

1	2	3
2550	तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई - 600 020 तमिलनाडु।
2551	तमिज़ग वाज़वुरीमई काँची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी मेत्तुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2552	तमिज़र देसम काचि	27/44, कुडी स्ट्रीट पेरिया, कोठमंगलम रामजी नगर, तिरुचि पश्चिम तालुक, पिराटियुर पश्चिम गांव, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु-620009
2553	तरंग पार्टी	के.एच.पी./55/26, योगेन्द्र विहार नौवस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208021
2554	ताराराणी पक्ष	वार्ड नं. 6, मकान नं. 2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2555	तीन एक पार्टी	कार्यालय - पोडलगुडा, पी.ओ. माझीगुडा, जिला - नबरंगपुर, ओडिशा - 764059.
2556	तहरिक इंकलाब पार्टी	अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2557	तेजस जनकल्याण पार्टी	26ए, सेंट्रल रोड (गोल्फ ग्रीन), जादवपुर, कोलकाता, (केएमसी वार्ड नंबर- 095) पश्चिम बंगाल - 700032.
2558	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म0 नं0 - 3-4-760/19, नारायणगुडा फ्लाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027
2559	तेलंगाना द्रविड़ प्रजला पार्टी	डी.नं.-1-158/1, ग्राम-सीथमपेट मंडल-हसनपत्ती. जिला- हनमकोंडा, तेलंगाना-506371
2560	तेलंगाना इंटि पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेकल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2561	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2562	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2563	तेलंगाना कर्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव - बैरानपल्ली, पोस्ट - सिद्धापुर, मंडल - हसनपत्ती, जिला - वरंगल, तेलंगाना ।
2564	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2565	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्दाबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।



1	2	3
2566	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2567	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2568	तेलंगाना प्रजा समिति (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2569	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोव्वास्था, निजामाबाद, तेलंगाना - 503001
2570	तेलंगाना प्रजा जीवन रैतु पार्टी	मकान नंम्बर 10-157/1, मलकाजगिरी, मेडचल-मलकाकजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना-500047
2571	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2572	तेलंगाना राज्य समिति	डोर नं0 1-4-177/148 एंड 149/201, ओल्ड अलवाल सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना- 500010.
2573	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला - नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश - 508116
2574	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नल्लगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2575	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला- 500086, आन्ध्र प्रदेश।
2576	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2577	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2578	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2579	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मित्तपालेम स्ट्रीट, गुडूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश - 524101
2580	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302

1	2	3
2581	तेलुगु जनता पार्टी	नं.70-7/16/2ए,राम्नाययापेटा,टी.एस.आर.नगर,रोड नं.2,काकीनाडा अर्बन मंडल,जिला-इ.जी.,आन्ध्र प्रदेश-533003
2582	तेलुगु प्रजा पथम पार्टी	4-96/25/3, जीएफ - 103, चिनामुसिदिवाड़ा, रेवेन्यु वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051
2583	तेलुगु राज्याधिकार समिती पार्टी	13-56,संजीव नगर,कांचिकचेरला,एनटीआर जिला,आंध्र प्रदेश-520018
2584	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2585	तेनगु सेना पार्टी	3-6, पाठा अगंदी बाजार,देवापुर,बेलमपेल्ली कासीपेटा,जिला मंचेर्याल,तेलंगाना-504218
2586	तेलुगु विजयम पार्टी	फ्लैट नं.306,श्रीनिवासा टॉवर्स,केरला होटल के समीप,इब्राहिमपटणम,विजयवाड़ा,कृष्णा जिला,आन्ध्र प्रदेश- 521456.
2587	थक्कम कच्ची	1/2755,नेहरु स्ट्रीट,(ओल्ड आने थेरेसा स्ट्रीट),वी.पी.सिंह नगर,पंमाथुकुलम,चेन्नई,तमिल नाडु-600052
2588	तमिलागा मक्कल सुथंथिरा कलगम	19/1,सेलप्पा काउंडर स्ट्रीट,वेलयावुथमपलायम,पी. पुगालुर तालुक,करूर - जिला,तमिलनाडु - 639117
2589	तमिज़ देसिया मुनेत्र कड़गम	नंबर 143-ए,मेला वीठी,मेन रोड,तिरुप्पन्दल-पोस्ट,थिरुविदैमरुथुर-तालुक,तंजावुर जिला,तमिलनाडु,पिन-612504
2590	तमिज़ पेरारसू कच्ची	3/6,पारी स्ट्रीट (एक्स.),चूलैमेडू,चेन्नई,तमिलनाडु-607203
2591	यमिजगा द्रविड़ काची	नंबर 32/217,गांधी रोड,पश्चिम तांबरम,तांबरम (टीके),चेंगलपट्टू जिला,चेन्नई,तमिलनाडु-600045
2592	थमिज़ग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, डिविजन 68, चेन्नै - 600011, तमिलनाडु ।
2593	तमिलग पैंप्पलर मक्कल कट्टी	नम्बर-72,नेवेली मेन रोज, पार्वतीपुरम, वडलूर पोस्ट, कुरिन्चिपाडि तालुक, कडलूर जिला,तमिलनाडु- 607303
2594	तमिज़ार मुन्नेत्रक कड़गम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापेयर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2595	दि अग्रणी पार्टी	अनमोल हाउस,लीची बगान,पंखातोली,पो.-रमना,जिला-मुजफ्फरपुर बिहार-842002
2596	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 - 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052

1	2	3
2597	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश ।
2598	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2599	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितिय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2600	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2601	द प्लुरल्स पार्टी	सुखबासो कॉम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, वेस्टर्न होटल के सामने, प्लॉट नं-130, दानापुर-खगौल रोड, पोस्ट- दानापुर, जिला-पटना बिहार-801503
2602	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्पलेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्पलेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गड़चिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2603	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवित्तीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2604	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2605	थोड़ीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।
2606	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाड़व रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु ।
2607	टिपरा मोथा पार्टी	खतियान नं. 1201, मौजा-जिरानिया, रेवेन्यू सर्कल-जिरानिया, आर.एस. प्लॉट नंबर। 1493/7543, सी.एस. प्लॉट नंबर। 471,468/पी, खुमुलवंग, त्रिपुरा-7
2608	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.
2609	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2, आत्तार हाउस, नियर कर्बला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2610	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।
2611	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2612	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर , अगरतला, त्रिपुरा- 799007

1	2	3
2613	डूथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2614	तुलुवर पक्ष	डोर नं0 - 2-139(5), कोयोरु क्रॉस लैला गांव, बेलथांगड़ी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक- 574214.
2615	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूप्पी पी.ओ, कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2616	उदारवादी समरसता पार्टी	मकान नं0 133/1, हरिजन बस्ती, गाँव समयपुर, दिल्ली- 110042
2617	उदय भारतम पार्टी	ए-13, सेक्टर 44, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
2618	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं0-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरुंगलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600063
2619	उदीयमान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	4/3C, ओरिएंट रो, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700017
2620	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
2621	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2622	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु ।
2623	उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- शिशु, गाँव / पी.ओ. - शिशु, वार्ड - 12, तहसील - दान्तेरामगढ़, पी.एस. - रानोली, जिला- सीकर, राजस्थान - 332405.
2624	युनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2625	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) - 403601 ।
2626	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं0 - 7, म0 नं0 - 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।
2627	युनाईटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपट्टनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना - 505215
2628	युनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा - 797103, दीमापुर-797112 (नागालैण्ड)

1	2	3
2629	युनाईटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गौसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2630	यूनाईटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेंजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम-786001
2631	युनैटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी	डोर नं. 6-9-1373ए डिफेंस कॉलोनी, ए.पी.एच.बी. पोस्ट ऑफिस के निकट, तिरुपती कंचीमातम हॉस्पिटल के बगल में, आन्ध्र प्रदेश- 517501
2632	यूनाईटेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	80/81, सी.ए.एच. कॉलेज बाय-पास रोड, मेलवीशरम, वालाजा तालुक, जिला- वेल्लोर, तमिलनाडु- 632509.
2633	यूनाईटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - 400024, महाराष्ट्र ।
2634	युनाईटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना- कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2635	यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2636	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला - तुत्तुकुडी, तमिलनाडु - 628501
2637	यूनिवर्सल फैमिली पार्टी	टाओबुंगखोक, पुलिस स्टेशन-पटसोई, पोस्ट ऑफिस- लांगजिंग, मणिपुर, इम्फाल वेस्ट-795113
2638	यूनिवर्स सिटीजन पार्टी	15-5-122, वनय निलाया, अपोजिट कर्नाटका लॉ एंड फार्मसी कॉलोज, ध्यानमंदिर राज, रामपुरे कॉलोनी, बीदर कर्नाटक- 585401
2639	अर्बन एवं रूरल पार्टी	मकान संख्या 660/7/पी.003, गौरा बांग, कुर्सी रोड, (फूल बाग), लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026
2640	उरिमई मीटप्पू कड़गम	न्यू नं0 -10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई-600045, जिला-कांची, तमिलनाडु ।
2641	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान - गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 - जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
2642	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस - 2 , भुवनेश्वर - 751031 उड़ीसा ।

1	2	3
2643	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लथ हाऊस, मेन बाजार, ग्राम-नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2644	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1st क्रॉस, 3rd स्टेज, 3rd फेस, 6th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बेंगलुरु, कर्नाटक-560085
2645	उत्तर भारतीय विकास सेना	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400058
2646	उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना	मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
2647	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ — 226004, (उत्तर प्रदेश) ।
2648	उत्तर जनशक्ति सेना	म0 न0 66, 67, शिवपुर कॉलोनी, (अनचटगैरी लेआउट), नियर राजधनी कॉलोनी, गोकुल रोड, हुबली कर्नाटक- 580028
2649	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं.25,4 क्रॉस, एम.एस.आर.नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560054
2650	उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी	मं० नं0 4-32/बी, गांधीनगर, ब्रह्मानपल्ली, जक्रानपल्ली, जिला - निजामाबाद, तेलंगाना- 503224.
2651	उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी	अमृत कौर रोड सिविल 17, न्यू रोड देहरादून, उत्तराखंड-248001
2652	उत्तराखंड जनता पार्टी	प्लॉट न.6, प्रकाश एन्क्लेव, शिमला रोड, सेवलाकलां जिला देहरादून उत्तराखंड- 248001
2653	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी	18 एफ, सेक्टर-3 बी, निकट सी ब्लॉक, टाईप-।।, नई टिहरी उत्तराखण्ड- 249001
2654	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
2655	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2656	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक )	85/ 12 — बी, नाश विला रोड, देहरादून — 248001, (उत्तराखण्ड)।
2657	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड ।
2658	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।

1	2	3
2659	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं० 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट— मोथरौवाला, विकासखण्ड—रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2660	उत्तराखण्ड समानता पार्टी	33, गंगोत्री विहार, लेन नं० - 1, नेहरुग्राम रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड - 248005
2661	उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी	गणपति स्मार्ट सिटी, फ्लैट नं. 507, सतलज टॉवर- 4, बाईपुर सिकंदर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001
2662	उज्जैनपालर मुन्नेत्रा कज्जहगम	18, एम.जी.आर नगर, वैक्टरमण, सलैय, चोल्लई, पल्लम, के.के.नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600078
2663	वडा तमिलनाडु मुन्नेत्रा कच्ची	नंबर 209/42, श्री अय्यप्पा नगर, कालिअम्मन कोइल स्ट्रीट, विरुगम्बाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600092
2664	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11, 12, 13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2665	वैदिक समाजवादी पार्टी	आर्य शिव नगर, जयंतीपुर रोड बर्फ खाने के बिहाइंड मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
2666	वालामाना तमिझागम कॉची	एच-982, 23rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2667	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2668	वाल्लारासु पार्टी	एच. नंबर-6(23), मोसक्क्यू स्ट्रीट, मायलापोरे, मायलापोरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600004.
2669	वंचित ऑल इंडिया शोषित यथार्थवादी पार्टी	मकान नंबर 42ए वाई नंबर-46, इंदिरा नगर, नियर पैदलीगंज, नाला रोड, थाना-झतारामंडल, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273009
2670	वंचित बहुजन अघाडी	सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 413102
2671	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, वार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2672	वंचितसमाज इंसाफ पार्टी	39, आर्दश नगर, द्वारा — डॉ० शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2673	वन्दे भारत पार्टी	गद्दोपुर मथिया, निकट आईटीआई विद्यालय, पोस्ट- गद्दोपुर मझावा, जिला-अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001

1	2	3
2674	वन्दे रिपब्लिक पार्टी	555,नीती खण्ड-3,निकट पीपल चौक,इंदिरापुरम,जिला-गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश-201014
2675	वास्तविक भारत पार्टी	प्लॉट नं.-16, चाणक्यपुरी, मिनाल रेजीडेंसी, गेट नं.-1 के पास, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462041
2676	वसुधैव कुटुम्बकम् पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला-साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।
2677	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 – 39, 59, प्लॉट नं0 – 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 – 371, न्यू थाना नं0 – 27, एन.एच – 2, शिव सागर, जिला – रोहतास, बिहार - 821111 ।
2678	वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालकर काची	मणिकावसागर आरंगम,नंबर 1/9,चैंगम से तिरुवन्नमलाई मुख्य सडक,करियामंगलम गाँव और पोस्ट,चैंगम तालुक,तिरुवन्नमलाई जिला,तमिलनाडु-606709
2679	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कोलिपारा मंडलम, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2680	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 – 275, हेबालु गांव व पोस्ट, देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2681	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर , जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2682	विदर्भ राज्य अघाड़ी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्प्लेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाड़ी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2683	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2684	विद्यारथुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2685	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरु, इच्छीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2686	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट – तिरुपाचेट्टी, तालुक – तिरुपुवनम, जिला – शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2687	विदुथलाई चिरुथईगल काची	नं0 – 16, चिन्नईया गली, टी – नगर, चेन्नई – 17, तमिलनाडु ।
2688	विदुथलाई कलाम काची	डी. नं. 2-48, बोदीनाईकेनपट्टी ओरपुरम वार्ड-2, बोदीनाईकेनपट्टी (पी), सिंगालंडापुरम वाया, रासीपुरम (टीके), नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637412



1	2	3
2689	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 —11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
2690	विजय भारत पार्टी	मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
2691	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला — वेल्लोर, तमिलनाडु
2692	विजया जनता पार्टी	नं0 9,ओम साई शक्ति निलाया, भारथिनागरा, हुनासामारानाहल्ली पोस्ट, जाला हुबाली, बैंगलुरु नार्थ तालुक, बैंगलुरु कर्नाटक- 560058
2693	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2694	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2695	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2696	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारूल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2697	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेन्ट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2698	विकासशील जनता पार्टी	फस्ट फ्लोर, (ग्रउण्ड फ्लोर आर्युवेदिक चिकित्सालय), चौहान मार्केट, बेहटा चौराहा, लालगंज, नियर हनुमान मंदिर, वैशवारा, राय बरेली, जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश- 229206
2699	विलेजर्स इंडिया पार्टी	तलपाली पाडा (दुर्गामंदप चौक के पास) जिला- बोलनगीर ओडिशा- 767001
2700	विंध्य जनता पार्टी	मकान नं०एम.आई.जी.-1-86, पदमघर कॉलोनी, रीवा इन हुजूर, तहसील ऑफ रीवा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2701	विराज जन पार्टी	मकान नंबर 21, शिव विहार, मीनावाला, जयपुर, राजस्थान- 302034
2702	वीर के वीर इंजियन पार्टी	प्रथम तल्ला, बी-2, सारथी कम्पलेक्स-2, मनेकपुरा, लिलियारोड, अमरेली, गुजरात- 365601.
2703	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183, बुद्ध बाजार गली, सब गली नं.8, मंडोली रोड, न्यू मार्डन शाहदरा, दिल्ली-110092
2704	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव — चौहडा, डाकघर — डगाम, तहसील — गढ़शंकर, जिला — होशियारपुर, पंजाब — 144527

1	2	3
2705	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथ्यूपुरा मोड़, दिल्ली - 110084
2706	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2707	विश्व बंधुत्व पार्टी	ग्राम-घूरीपुर, पोस्ट-बदौनाडीह, थाना-कादीपुर, जिला- सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228175.
2708	विश्व भारत पार्टी	एच.नं0-5-6-160-बी, कृष्ण नगर एनटीपीसी, ज्योतिनगर, रामागुंडम, पेद्दापल्ली- जिला, तेलंगाना-505215
2709	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2710	विश्व जागृति पार्टी	74/16ए, परमहंस मार्ग, शिपरा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020
2711	विश्वा जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2712	विश्व जन साम्राज्यम पार्टी	एम.आइ.जी.-74, म.नं015-13-VII-एम-74, फेज-VII, केपीएचबी कॉलोनी, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना- 500085.
2713	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2714	विश्व शांति पार्टी	प्लॉट नंबर III-एफ/621, सेक्टर-III- एफ, वैशाली, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010
2715	विश्व तमिल कड़ागम	डोर नं0 70/2, ब्लॉक नं0 1, राजीव नगर, कंधमपट्टी, सलेम वेस्ट (टीके), जिला-सलेम, तमिलनाडु - 636005
2716	विश्वनाथ प्रताप जनता दल	वार्ड नं0 - 02, मालवीय नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने मेन रोड, माधौगढ़, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश- 2285123
2717	विजन इंडिया पार्टी	16-216, शिव गिरी कॉलोनी, मुलापेट, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश- 524003
2718	विश्व भारथ पीपल्स पार्टी	18/9, पूंगा नगर, इरुपुर, कोयमबटूर, तमिलनाडु- 641103
2719	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र काँची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदयपुरपलयम, थालावड़पट्टी- पोस्ट, अतुर- तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2720	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आत्ति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला- राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131

1	2	3
2721	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बैंगलोर, कर्नाटक-560095
2722	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2723	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2724	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2725	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2726	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहद्दी बेला, ब्लॉक - घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2727	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई - 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.
2728	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 - आनन्द पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।
2729	वाई. एस. आर. तेलंगाना पार्टी	401-ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थी श्रावती अपार्टमेंट, नंबर 8-3-169/35, प्लॉट नंबर 35, सिद्धार्थी नगर, युसूफगुडा, तेलंगाना, हैदराबाद-500038
2730	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल - 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
2731	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार - 800004
2732	यंग इंडिया टॅग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
2733	यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी	हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गौंदारी, ब्लॉक- हलधारमउ, तहसील- कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126
2734	यंग सीनियर रिच कॉमन पीपुल किंग्स पार्टी	फ्लैट नंबर 403, (दरवाजा नंबर 54-9-2398), चौथी मंजिल, सवीर टावर्स, वेंकटेश्वर कॉलोनी, मेन रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश-522001
2735	यंग स्टार इम्पावरमेंट पार्टी	34, ग्राउंड फ्लोर, दूसरा मेन रोड, 11वीं क्रॉस रोड, सिंगासंदरा, सुभाष नगर, बी - ब्लॉक, बेगुर गांव, होबली, बैंगलोर-560068, कर्नाटक.

1	2	3
2736	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई -600107.
2737	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेस्मेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बेंगलोर नार्थ तालुक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560022
2738	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
2739	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर -516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश ।
2740	युग क्रांति दल	मकान नं.192, गली नं.1, वार्ड नं.1, पंजाबी कॉलोनी (धर्मपुर), समस्तीपुर टाऊन, बिहार-848101
2741	युग निर्माण पार्टी	बी-84, द्वितीय तल, घड़ोली डेयरी फार्म, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली- 110096.
2742	युग परिवर्तन पार्टी	म. नंबर -2179, मोतीराम कॉलोनी, नियर मोहित पब्लिक स्कूल, नूरवाला, पानीपत, हरियाणा- 132103
2743	युग तुलसी पार्टी	मकान नं. 5-9-296, फ्लैट नं. 310, प्रसाद अपार्टमेंट, गनफाउन्डरी, एबीडस, हैदराबाद, तेलंगाना- 500001.
2744	युवा आम दल आदमी विकास	अप्रा सिटी, फेज-2, सेक्टर-सी, ग्राम-मिशरौलिया स्टेट, पोस्ट-मिश्रौली, निकट-जेल रोड, जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश- 272001
2745	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 - 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2746	युवा भारत आत्मनिर्भल दल	एफ/49/1ए, अयोध्या नगर, शिव मंदिर के पास, एन-7, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431003
2747	युवा भारत राष्ट्रसेवा पार्टी	एलजीएफ-138, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049
2748	युवा भारत सेव मेरिट सेव नेशन दल	मकान नंबर-33, ग्राम-उचेठा, परगना-भदोही, जिला-संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश-221301
2749	युवा बिहार सेना	मकान नं0 17, बटुकेश्वर दत्ता लेन, न्यू जक्कनपुर, पटना बिहार-800001
2750	युवा जनकल्याण पार्टी	दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.- 23, सेक्टर- 25, कामोठे, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209
2751	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 - शेखजादा द्वितीय, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2752	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 - 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427

1	2	3
2753	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधामंगला -पोस्ट, मालूर-तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक- 563137
2754	युवा क्रांतिकारी पार्टी	आर्देश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2755	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2756	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0 - 63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004
2757	युवा समृद्धि दल	फ्लैट न.101 अनिल रेसेडिक्व, भगवत नगर में रोड, पटना-800026, बिहार
2758	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना - सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2759	युवा शक्ति संगठना	भांगड़िया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2760	युवा स्टार पार्टी	ग्राम-अकहा, पोस्ट-जयंती ग्राम ईसापुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार-851112
2761	युवा तरम पार्टी	8-1-32/4, नजदीक हनुमान मंदिर के पीछे, वार्ड नं0-1, गत्तैगुदेम, गाँव-पल्वांचा-मंडल, बद्रादरी कोठगुदेम-जिला, तेलंगाना-507115
2762	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टॉऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2763	युवा वाहिनी पार्टी	डी- 95, एल डी ए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2764	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

**सारणी-I (ख)**

**असूचीबद्ध पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)\***

क्रम स.	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1	2	3
1.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
2.	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्अ गारो हिल्स, मेघालय-794101
3.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
4.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
5.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
6.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
7.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
8.	अखिल भारतीय रिवाल्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और० पो०-लाटुर, जिला-लाटुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।
9.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
10.	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर - 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
11.	ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडगम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु.-600002

1	2	3
12.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
13.	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकत्ता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
14.	ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर काँग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
15.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)
16.	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए०आई०एम०डी०एफ०)	मकान नं० 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश
17.	ऑल इंडिया मुत्ताहिदा कौमी महज	मकान नं० 19-2- 23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
19.	ऑल इंडिया ट्राइब्स एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	विंडरूश हिल एनेक्सी, शिमला- 2, (हिमाचल प्रदेश) ।
20.	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
21.	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. - सासाराम, थाना- सासाराम, जिला - रोहतास, बिहार - 821115.
22.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
23.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा०लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।

1	2	3
24.	एंटी रिजेक्शन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
25.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
26.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
27.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
28.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बख्शीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
29.	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कर्मशियल कॉम्प्लैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी, चेन्नई-600 071, तमिलनाडू ।
30.	बहुजन एकता पार्टी (आर)	सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपूरा एक्स. नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043
31.	बहुजन किसान दल	किसान भवन, ऋषभ विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
32.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
33.	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
34.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-॥, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
35.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० ऑ०, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
36.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिशमंदन जालंधर, पंजाब ।



1	2	3
37.	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैटस, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
38.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.
39.	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवीं लाईन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
40.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
41.	भारत विकास पार्टी (सेकूलर)	खसरा नं० - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्कलेव, बुराड़ी, दिल्ली - 110084
42.	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
43.	भारतीय जन शब्द	331 (311), वार्ड नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम - 695 543, केरल ।
44.	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेंसी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - घटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500038, आन्ध्र प्रदेश ।
45.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दरपुरी, भोपाल - 462022 (मध्य प्रदेश) ।
46.	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 440102, महाराष्ट्र ।

1	2	3
47.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. ऑ. - धैघाट, पट्टी-मल्ला, चौकोट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।
48.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० - धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
49.	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा ।
50.	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
51.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी,	ए - 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062.
52.	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील- बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
53.	भारतीय लोकतान्त्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार ।
54.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्कलेव, फेस-II, नई दिल्ली- 110016.
55.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए, फलैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
56.	भारतीय पूर्वोच्चल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
57.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश) ।
58.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र ।

1	2	3
59.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
60.	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश) ।
61.	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड ।
62.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) ।
63.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश) ।
64.	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब) ।
65.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
66.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
67.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
68.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो० सोन्टा, वायां - अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
69.	भारतीय हिन्दू एकता दल	डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश ।
70.	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
71.	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार) ।
72.	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
73.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्क्लेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ उ. प्र.
74.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088.
75.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ - 160009.
76.	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन	सी0 आर0 12, आर0 डी0 ए0 बिल्डिंग, गुरुनानक मार्किट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
77.	चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरु - 560025, कर्नाटक ।
78.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
79.	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।
80.	देसिया फारवर्ड ब्लाक	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई - 600093, तमिलनाडु ।
81.	एकता क्रान्ति दल यू. पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश) ।

1	2	3
82.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पो० - होलम्बी कलां, दिल्ली - 110082.
83.	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ऑ. व जिला - जलपाईगुड़ी - 735101 (पश्चिम बंगाल)।
84.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. - विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।
85.	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा ।
86.	गुजरात युवा विकास पार्टी	माफर्त दरबार क्रूबा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाड़नगर- 384355, जिला-मेहसाना (गुजरात) ।
87.	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
88.	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट - रीसालु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103
89.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी. नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरूक्षेत्र- 136118, हरियाणा ।
90.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-लेडूवावर, पोस्ट- कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
91.	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, दिल्ली
92.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018

1	2	3
93.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट. नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू०पी०-201005
94.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.
95.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश ।
96.	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
97.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली - 110092
98.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड़, टूरिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
99.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
100.	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली - 110025.
101.	इण्डियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बैंगलोर-560054, कर्नाटक ।
102.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।
103.	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या - 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट- रायगुरुपुर, थाना - गदिसागोडा, जिला - पुरी, ओडिसा

1	2	3
104.	जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।
105.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कड़गम	नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एग्मोरे, चेन्नई-600008, तमिलनाडु ।
106.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।
107.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट - सादात, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
108.	जम्मू एण्ड कश्मीर नैशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर ।
109.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रन्ट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल,तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर - 190006 जम्मू और कश्मीर ।
110.	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
111.	जम्मू एण्ड काश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुर्सू राजबाग, श्रीनगर - 190008, कश्मीर ।
112.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर) ।	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर,जम्मू व कश्मीर ।
113.	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे,शमशेरपुर,पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
114.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे प्लाई ओवर के नीचे, डसना, गाजियाबाद - 201302 उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
115.	जन शान्ति संगठन	एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा उत्तर प्रदेश - 281001.
116.	जन हितकारी पार्टी	ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
117.	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017, पश्चिम बंगाल ।
118.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई - 400072
119.	जननायाहा मुनेत्रा कजगम	नं0 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडु ।
120.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुहम	नं0 171, केशवईगुंटा, निकट - एस0 जी0 एस0 आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति - 517501 जिला - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
121.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची - 834001, झारखण्ड ।
122.	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची - 834001, झारखण्ड ।
123.	झारखण्ड वनांचल काँग्रेस	5, रातू रोड, राँची - 834005, झारखण्ड ।
124.	कैविनयगेर मुन्नेत्र कडगम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई - 600010 (तमिलनाडु) ।
125.	कामगार समाज दल	मकान नं0 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
126.	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं0 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रास, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक) ।



1	2	3
127.	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम	नं. 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रास शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक) ।
128.	केरला जनपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, थिरुवनन्थापुरम - 695012.
129.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज व्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र ।
130.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
131.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
132.	कोंगुनाडु जननायगा कौंची	“इराई अरुल” नं0 - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयमबदूर, तमिलनाडु - 641004
133.	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलिज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा) ।
134.	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
135.	क्रान्ति परिषद्	म0 नं0 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
136.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टैपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
137.	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
138.	लाल मोर्चा	आर0 जेड0 सी0 - 113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली - 110018.

1	2	3
139.	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।
140.	लोक परित्राण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर- ॥ महामन्दिर, जोधपुर - 342 010, राजस्थान।
141.	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
142.	लोकसेना	63/एच०/एस०, मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता- 700007, पश्चिम बंगाल।
143.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
144.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई०-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
145.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
146.	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
147.	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चित्ररंजन पार्क, नई दिल्ली- 110019.
148.	मक्कल काँग्रेस वजहापट्टियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
149.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. मुट्टु रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
150.	मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कडगम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई - 600118 तमिलनाडु ।
151.	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।

1	2	3
152.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी(डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपाड़ा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
153.	मर्यादी दल	ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
154.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट- कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
155.	एम जी आर थॉडरकल काच्ची	नं. 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तामिल नाडु।
156.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स- आइजॉल, मिजोरम- 796 001 ।
157.	नागा नेशनल पार्टी	हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर) ।
158.	नेशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली- 110030
159.	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
160.	नैशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110016
161.	नेशनल स्टुडेंट्स पार्टी	16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई- 600004, (तामिलनाडु) ।
162.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेंद्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान ।
163.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक) ।

1	2	3
164.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
165.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
166.	न्यूज काँग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र ।
167.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
168.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
169.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
170.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II 56, मदनगीर, दिल्ली-110 062 ।
171.	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनथन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
172.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
173.	पैट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।
174.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बॉकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल ।
175.	पीपुल्स पॉवर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र ।
176.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी० ओ० कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम) ।
177.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल ।

1	2	3
178.	प्रजा भारत पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद- 500026 (आन्ध्र प्रदेश) ।
179.	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
180.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार ।
181.	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली - 110084 ।
182.	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना - विजय विहार, दिल्ली - 110086 ।
183.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्ची	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रल नगर, पुडुचेरी-605013.
184.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश) ।
185.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
186.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब) ।
187.	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली- 110085.
188.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश ।
189.	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली- 110037.
190.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु) ।

1	2	3
191.	कौमी जनता दल	9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
192.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान ।
193.	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा
194.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
195.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
196.	राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी	प्लॉट नं0 - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
197.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
198.	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश ।
199.	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस , 3- टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
200.	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं0 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
201.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्टोला, आगरा (उत्तर प्रदेश) ।
202.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक ।

1	2	3
203.	राष्ट्रीय हित काँग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
204.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश ।
205.	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019
206.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं० 567 (38) , 60 फीट रोड,गोकुल मथीकेरे लेआउट,बंगलौर - 560054 , (कर्नाटक) ।
207.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतरारूरल, पो० ऑ० अतरा जिला- बाँदा,उत्तर प्रदेश ।
208.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर - 17,पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।
209.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
210.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
211.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना - 800023 (बिहार)।
212.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
213.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० - 27 के पास , बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर - 421001, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र।

1	2	3
214.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
215.	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
216.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) ।
217.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली - 110009
218.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.
219.	राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
220.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
221.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी “प्रगतिशील”	बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।
222.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गोस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097, महाराष्ट्र ।
223.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051
224.	राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
225.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड ।



1	2	3
226.	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरुली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।
227.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा) ।
228.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला- गोपालगंज (बिहार) ।
229.	सम्पूर्ण क्रान्ति दल	ग्राम - खजूरी कलॉ, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोराँव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
230.	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी- 205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली- 110002
231.	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
232.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
233.	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापরিषद	सी - 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद) , शाहदरा, दिल्ली - 110032
234.	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22,फिरोज़ गाँधी प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा - मुम्बई रोड, इन्दौर - 452008 , मध्य प्रदेश।
235.	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र ।
236.	सेक्युलर डैमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश ।
237.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।

1	2	3
238.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
239.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001
240.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380006 (गुजरात) ।
241.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिगंटम, पूर्वी सिक्किम- 737134, (सिक्किम) ।
242.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद् पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम ।
243.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
244.	सिक्किम लिब्रेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम - 737134
245.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडॉंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
246.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात) ।
247.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
248.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
249.	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर- 744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ।

1	2	3
250.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलूर-560094, कर्नाटक ।
251.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।
252.	तमिल मनिला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।
253.	तमिलीना विद्याल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई - 625 016, तमिलनाडु।
254.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयडस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
255.	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1,सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
256.	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
257.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर-560026, कर्नाटक।
258.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट-गुन्ठनी बारचाना, जिला-जयपुर, पिन- 754024
259.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
260.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम ।
261.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम) ।

1	2	3
262.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल) ।
263.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक) ।
264.	यूनाइटेड माइनोंरिटीज फ्रंट, असम	उलूबारी, गुवाहाटी – 781007, (असम)
265.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर-795001.
266.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी-781001, असम
267.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बॉ. नं0 2, पो0 – रेहाबाड़ी, गुवाहाटी – 781008, (असम) ।
268.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग- 784510, (असम) ।
269.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर – 560001, कर्नाटक ।
270.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी- 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली – 110092
271.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
272.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 – के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
273.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर -13, महाराष्ट्र ।
274.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर-3, महाराष्ट्र ।
275.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 – 205, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

1	2	3
276.	विकास परिषद्	62 – ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट-133001, हरियाणा ।
277.	विश्व विकास संघ	एफ-53/एफ -1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली -110095 ।
278.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाटन स्ट्रीट, उतिरामेरूर - 603406, (तमिलनाडु) ।
279.	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/ 301 - 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र)।
280.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 - बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकता -700009 पश्चिम बंगाल ।
281.	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0 ऑ0 भन्देरहाली, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल ।
282.	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सेक्टर-19, गांधीनगर -382 019, गुजरात ।

\*आयोग के दिनांक **25.05.2022**, **20.06.2022** और **13.09.2022** के आदेश के अनुसार इन पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) को सम्यक सत्यापन और नोटिस भेज दिए जाने के उपरांत सूची से हटा दिया गया है। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अंतरिम आदेश, जिसमें सामान्य प्रतीक का प्रत्याख्यान किया जाना शामिल है, के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया गया है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/ रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को सलाह दी जाती है कि यदि सूची से हटाया गया कोई पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक **25.05.2022**, **20.06.2022** और **13.09.2022** के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित

सम्यक तत्परता और प्रक्रिया का पालन किया जाए। चूंकि उनके पते 'अस्तित्व में नहीं हैं, इसलिए सूची से हटाए गए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए सामान्य प्रतीक' का दावा करने के लिए अपेक्षित प्ररूप क और ख अप्रवर्तनशील हो गए हैं।

---

**सारणी-I (ग)****निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)\*\***

क्रम स.	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1	2	3
1.	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0 - 22, वार्ड नं0 -9, आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश - 283203
2.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर - एच, एल0डी0ए0 कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
3.	अहिंसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108,109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
4.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334 ।
5.	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।
6.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर - 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 (उत्तर प्रदेश)
7.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. - गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
8.	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
9.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
10.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
11.	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार) ।

1	2	3
12.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।
14.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास) ।	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
15.	अखिल भारतीय लोक दल	ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी, नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, शनि साई मन्दिर, दिल्ली - 110094
16.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
17.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
19.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलॉ, नई दिल्ली-110041
20.	ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश ।
21.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सैक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078
22.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051
23.	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कड़गम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
24.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कड़गम	न० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई - 600039 तमिल नाडु ।
25.	ऑल इण्डियंस गांधी कांग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरु-560058, कर्नाटक ।
26.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मर्ली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिला-वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।



1	2	3
27.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली - 110019.
28.	आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
29.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकड़ा विशनोई, विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244401
30.	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा-803118, बिहार।
31.	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
32.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042
33.	बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा	मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा, दिल्ली-110053 ।
34.	बहुजन उदय मंच	ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
35.	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं० 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
36.	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाड़ीगुडा मेन रोड, कवाड़ीगुडा, सिकन्दाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
37.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं०-16/19, गाँव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086 ।
38.	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
39.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पिटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार ।
40.	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
41.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रास, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक) ।

1	2	3
42.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक ।
43.	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21 - डी, गली नं० 4, सिंडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली - 110045
44.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
45.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
46.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
47.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला-कुंडगढ, पोस्ट-सदर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ।
48.	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.
49.	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट - खेड़ायँ, थाना - आन्दर, जिला - सिवान, बिहार ।
50.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
51.	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश
52.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227107
53.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश ।
54.	भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली- 110093.
55.	भारतीय नौजवान दल	मकान नं.882, गली नं.16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094

1	2	3
56.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
57.	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम - नयाटोला बरियारपुर, पंचायत - चम्पापुर, वार्ड नं० 13, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना बिहार ।
58.	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं० - 3, विकास नगर, राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231216
59.	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विक्रम गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तरप्रदेश।
60.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
61.	भारतीय शक्ति दल	डी - 236, विवेक विहार, दिल्ली - 110095 ।
62.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली - 110041
63.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर,कानपुर नगर - 208014, उत्तर प्रदेश ।
64.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो० - सतारी,जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश।
65.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी - 284001, (उत्तर प्रदेश) ।
66.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई - 600001. (तमिलनाडु)।
67.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. - अनीशाबाद, पटना - 800002, (बिहार) ।
68.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110027.
69.	देश भक्त पार्टी	बी - 114, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092.
70.	देसिया पातुकाप्पु कडगम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई - 600093 (तमिलनाडु) ।

1	2	3
71.	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई - 600017, तमिलनाडु।
72.	गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस	टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट - महोरिया टाऊन और जिला - मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ।
73.	गरीब राज पार्टी	मं० नं० 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्दाबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
74.	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील - जलालपुर, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149.
75.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार - 845401.
76.	गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल ।
77.	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
78.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश) ।
79.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु ।
80.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
81.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी ( कांशीराम)	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।
82.	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
83.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
84.	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.

1	2	3
85.	इंडियन ओसनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030
86.	इंडियन पीपुल्स काँग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001
87.	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
88.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
89.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौंडा, दिल्ली ।
90.	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
91.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
92.	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
93.	जन अधिकार मंच	9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली - 110095.
94.	जन भावना पार्टी	सी - 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110092 ।
95.	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला - रामपुर - 244 901, उत्तर प्रदेश ।
96.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली नं० - 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
97.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: बुगाडा, तहसील - शामली, जिला - मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।
98.	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली - 110001.
99.	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
100.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।

1	2	3
101.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नेवल रोड, बंगलौर - 560025, (कर्नाटक) ।
102.	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
103.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452, सेक्टर - 19, द्वारका नई दिल्ली ।
104.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली - 110003.
105.	जनशोषित समाज पार्टी	ए-618/7, गली नं0-8, भजनपुरा, दिल्ली - 110053.
106.	कामराजार अदितनार कड़गम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकॉइल - 629001 (तमिलनाडु) ।
107.	कन्नड़नाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली - 580030 कर्नाटक ।
108.	कोंगू नाडु मुनेत्र कड़गम	320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु ।
109.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.
110.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं0 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
111.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
112.	लेनिन कम्यूनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुडुडी-630003, तमिलनाडु।
113.	लोक जनहित पार्टी	ग्राम - डालूपुर सुल्तानपुर, पोस्ट - प्रेमपुर, जनपद - कन्नौज उत्तर प्रदेश ।
114.	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
115.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
116.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 007.

1	2	3
117.	मानीला कोंगु पेरावाई	नं० 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।
118.	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश
119.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
120.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
121.	मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन	टैम्पल रोड, पुराना बाज़ार, धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-826001
122.	मोमिन कान्फ़ेस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।
123.	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
124.	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
125.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु) ।
126.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017, उत्तर प्रदेश।
127.	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं०-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसीह व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
128.	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहेरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर - 641603, तामिलनाडु
129.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500265, आन्ध्रा प्रदेश ।

1	2	3
130.	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-घुंघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225302 ।
131.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
132.	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
133.	न्यू ऑल इन्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ।
134.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए . करोलबाग, नई दिल्ली-110005 ।
135.	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
136.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-'जे', अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
137.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/15, योजना-3, आवास विकास कॉलोनी, झूंसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211019
138.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
139.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
140.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
141.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट - सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
142.	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
143.	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाऊस के नजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।



1	2	3
144.	राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी	मौहल्ला - चिरंजीलाल, कस्बा - अफजलगढ़, तहसील - धामपुर, जनपद - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246722
145.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
146.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली - 110085
147.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली - 110032.
148.	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.
149.	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम - चकेरशानपुर (केमराला)पो०आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
150.	राष्ट्रीय हिन्द सेना	158/1, देव नगर, जिला- फिरोजाबाद - 283203 उत्तर प्रदेश ।
151.	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड,खुरजा, जिला - बुलन्दशहर - 203131, उत्तर प्रदेश ।
152.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव - नांगला जमालपुर, पोस्ट- पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
153.	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम - बिर्जापुर, पोस्ट - अडूकी, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश।
154.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना - 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
155.	राष्ट्रीय जनता काँग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली - 110049.
156.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर - IX, रोहिणी, दिल्ली - 110085
157.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम - 12 , मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।

1	2	3
158.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21-कस्तूरवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
159.	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं० - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं० - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुदुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
160.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी	म०नं० 411, कृष्णबिहारी नगर, बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा, जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
161.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी - 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110007.
162.	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सैक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
163.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
164.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
165.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
166.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
167.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
168.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
169.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो० - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
170.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045
171.	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
172.	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं० 73, शान्तिनिकेतनम, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115।

1	2	3
173.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	ए, 703, सूर्याकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लाट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई-400701, महाराष्ट्र।
174.	गरीबजन समाज पार्टी	बी-8, न्यू साई प्लाजा, कंकरखेरा, सरधना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
175.	रिवल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115,बी-ब्लॉक, सन्तनगर,बुराडी, दिल्ली-110084
176.	सब समान पार्टी	मकान सं0 - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
177.	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018,(उत्तर प्रदेश) ।
178.	शक्ति भारत देशम	सं. 2/58, वैरावन चेट्टी स्टोर,पाचोयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001,तमिलनाडु।
179.	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश ।
180.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
181.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
182.	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
183.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु ।
184.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
185.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
186.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर,कंकड़बाग, पटना बिहार-800020

1	2	3
187.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
188.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी - 221 005, उत्तर प्रदेश ।
189.	सतयुग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ।
190.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
191.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो० खाकुर्दी, तालुका- मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।
192.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003.
193.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ- खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।
194.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
195.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्दीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
196.	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
197.	सुखी समाज पार्टी	344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश ।
198.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
199.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला- मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
200.	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूरु-560001, कर्नाटक
201.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु) ।
202.	तमिल मनिला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	द्वार नं० 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद वाया काँचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।

1	2	3
203.	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि	वनाविल ईलम, संख्या 9 पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तलिमनाडु ।
204.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
205.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
206.	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम - अहिरावों, पोस्ट - बेरुआ, तहसील - सण्डीला, जिला - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241304
207.	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी - 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
208.	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं0 -10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 032.
209.	युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दिन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना-800004, बिहार ।
210.	युनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी-786, जैतपुर विस्तार, पार्ट - II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
211.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ-15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली-110011.
212.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	38 - रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
213.	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
214.	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068 ।
215.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
216.	यूथ फॉर इक्वैलिटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन - II, नई दिल्ली -110034 ।
217.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
218.	युवा क्रान्ति दल	बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर -पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.

\*\*आयोग के दिनांक **13.09.2022** के आदेश के अनुसार निम्नलिखित दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। उनको व्यक्तिगत रूप से और सीईओ तथा ईसीआई की वेबसाइट के माध्यम से नोटिस तामील किया गया था। ईसीआई के उक्त अंतरिम आदेश द्वारा सामान्य प्रतीक की उनकी मांग पर विराम लगा दिया गया है। सभी सीईओ/आरओ को सलाह दी जाती है कि यदि कोई 'निष्क्रिय' दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक **13.09.2022** के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता का पालन किया जाए। चूंकि उक्त दलों ने अपेक्षित सारवान परिवर्तनों, विशेष रूप से वर्ष **2014** से अपने पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन (अपडेट) नहीं किया है, इसलिए प्ररूप क और ख स्वीकार करने के आधार समाप्त हो गए हैं।

आदेश से,

ह./-

(दिलीप के.वर्मा),

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

---

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित।

ह./-

डॉ. निरुपा रॉय,

विशेष सचिव,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,

जम्मू-कश्मीर, जम्मू।